

इसके अध्ययन से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। रोग और मृत्यु एवं स्वास्थ्य और जीवन आदि अनेक तथ्यों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है।

भावधारा (या लेश्या) के आधार पर आभामंडल बदलता है और लेश्याध्यान के द्वारा आभामंडल को बदलने से भावधारा भी बदल जाती है। इस दृष्टि से लेश्याध्यान या चमकते हुए रंगों का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी भावधारा जैसी होती है, उसी के अनुरूप मानसिक चिन्तन तथा शारीरिक मुद्राएं और इंगित तथा अंग-संचालन होता है। क्रोध की मुद्रा में रहनेवाले व्यक्ति में क्रोध के अवतरण की संभावना बढ़ जाती है। क्षमा की मुद्रा में रहनेवाले व्यक्ति के लिए क्षमा की चेतना में जाना सहज हो जाता है। इस भूमिका में लेश्याध्यान की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है।

प्रस्तुत पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने के श्रम-साध्य कार्य में तथा संपादन में मुनि दुलहराजजी ने उत्साहपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ।

पाठकवर्ग ने संप्रति प्रकाशित होनेवाले ध्यान संवंधी ग्रन्थों के प्रति जो भावना प्रदर्शित की है, जिस अभिरुचि से उन्हें पढ़ा है और उनके आधार पर प्रयोग का प्रयत्न किया है, उससे इस क्षेत्र में उज्ज्वल संभावनाएं जन्म ले रही हैं। मैं मंगल-कामना करता हूँ कि जन-जन में अध्यात्म की भावना जागे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को जाने-पहचाने।

मैं आचार्यवर के प्रति श्रद्धा-प्रणत प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनके पथ-दर्शन में समूची मानवजाति का पथ आलोकित बने।

जैन विश्व भारती,
लालनू
२६ मार्च, १९८०

—युवाचार्य महाप्रज्ञ

मनुकूम

प्रथम शिविर

१. व्यक्तित्व के वदलते रूप	१
२. व्यक्तित्व की व्यूह रचना : आत्मा और शरीर का मिलन-विंदु	११
३. अच्छे वुरे का नियन्त्रण-कक्ष	२०
४. स्थूल और सूक्ष्म जगत् का संपर्क-सूत्र	२६
५. जो व्यक्तित्व को रूपान्तरित करता है [१]	३६
६. जो व्यक्तित्व को रूपान्तरित करता है [२]	५१
७. वृत्तियों के रूपान्तरण की प्रक्रिया	६०
८. स्वभाव परिवर्तन का दूसरा चरण	७०
९. रंगों का ध्यान और स्वभाव-परिवर्तन	८०

द्वितीय शिविर

१. ध्यान क्यों ?	८६
२. तनाव और ध्यान [१]	९६
३. तनाव और ध्यान [२]	१०६
४. आभामंडल	१२१
५. आभामंडल और शक्ति-जागरण [१]	१३३
६. आभामंडल और शक्ति-जागरण [२]	१४४
७. लेश्या : एक विधि है चिकित्सा की	१५५
८. लेश्या : एक विधि है रसायन परिवर्तन की	१६५
९. लेश्या : एक प्रेरणा है जागरण की	१७५

परिशिष्ट

आभामंडन	१८८
---------	-----

५. व्याकेतत्व के बदलते रूप

- १ • कभी अच्छा काम, कभी बुरा काम, कभी निप्त्रिय ।
 - कभी अच्छा विचार, कभी बुरा विचार, कभी निर्विचार ।
 - कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी भाव-शून्य ।
- २ • कभी प्रेम, कभी धृणा ।
 - कभी राग, कभी द्रेष ।
 - कभी ऐवय, कभी माया ।
 - कभी विश्वास, कभी सन्देह ।
 - कभी हास्य, कभी भय ।
 - कभी विराग, कभी यासना ।
- ३ • मगुण्य युरा फायं, युरा विचार और युरा भाव नहीं चाहता, फिर ऐसा क्यों होता है ?
- ४ • मगुण्य के भीतर एक विशाल तानाव है । उसमें निरन्तर दो स्रोत प्रवाहित होते हैं—एक ही असंकेत का, दूसरा ही संकेत का ।
- ५ • प्राणतनिति की मिश्रतरंग के हारा ये प्रवाह भीतर से बाहर तक पहुँचते हैं ।
 - इन मुखिष्ठा होते ही तो संकेत का दरवाजा खुलता है ।
- ६ • इसी विष-ए-इश विशालत के प्रति जागृत दर्जे—

शरीर प्रेद्धा : दुरे विचार की तरंग स्नायु में ।
दुरा कायं स्नायु द्वाजा ।

१ शरीर प्रेद्धा : इशम जो दुरे विचार और कायं का माध्यम न दर्जने दें ।
- ७ • विशाल श्री लागरबज्जा थी दो त्रिष्पत्तियां—
 १. विशा विवर करे, जिसमें पुनर्बंध न हो, संकलन को पोषण न मिन्न ।
 २. विशाल-जनित जारेमी ने मुखिष्ठ ।

रुक्त

मनुष्य अनेक चित्तवाला है। चित्त एक नहीं, अनेक होते हैं। चित्त अनेक होते हैं इसीलिए व्यक्तित्व नाना रूपी होता है। व्यक्ति के कितने रूप हैं, पहचाना नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को प्रातःकाल देखा था, उस व्यक्ति को मध्याह्न में पहचाना नहीं जा सकता और जिसको मध्याह्न में देखा था उसे सांझ में नहीं पहचाना जा सकता। जिसको सांझ में देखा उसे रात को नहीं पहचाना जा सकता। इतना बदलता हुआ व्यक्तित्व इतने बदलते हुए रूप ! यह अनुमान करना कठिन होता है कि जिस व्यक्ति को प्रातःकाल देखा था, सायं वही व्यक्ति है या दूसरा। बड़ी कठिनाई होती है समझने में। जिस व्यक्ति को प्रातःकाल में बहुत शान्त, शालीन और गंभीर देखा, उसी व्यक्ति को मध्याह्न में धूप की भाँति तेज देखते हैं, क्रोध की आग में जलते देखते हैं, तब यह अनुमान भी नहीं होता कि यह वही व्यक्ति है जिसको प्रातः शांत और शालीन देखा था। प्रातःकाल जिस समुद्र को शांत देखा था, ज्वार के समय उसे देखा तो लगा कि तरंगें उछल रही हैं, सारा समुद्र हलचल से भरा है, अशान्त है, तब यह अनुमान करना कठिन हो गया कि क्या यह वही समुद्र है जिसे प्रातःकाल देखा था ? ज्वार के समय समुद्र मिट जाता है, वह लहरमय बन जाता है, कोरी लहरें ही लहरें। सारा लहरों का जाल-सा बिछ जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के भावों और आवेगों का रूप जब ज्वार बनता है तब व्यक्ति को पहचान पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए यह कहना पड़ा—‘अणेगचित्ते खलु अयं पुरिसे’—यह पुरुष अनेक चित्त वाला है। उसका चित्त एक नहीं है, अनेक है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, जो एक चित्तवाला हो। चित्त बदलता रहता है—देश के साथ, काल के साथ और परिस्थितियों के साथ। वह इतने रूप धारण करता है कि दुनिया में बहुरूपिये भी इतने रूप धारण नहीं करते। जब चित्त बदलता है तब आसपास का सब कुछ बदल जाता है, भीतर का भी बदलता है और बाहर का भी बदलता है। भीतर और बाहर—दोनों आंदोलित हो उठते हैं, तरंगित हो उठते हैं। चारों ओर तरंगें ही तरंगें, लहरें ही लहरें, कंपन ही कंपन। कोई आदमी नहीं चाहता कि वह बुरा आचरण करे, कोई नहीं चाहता कि उसमें बुरे भाव आएं।

बुरा चिन्तन, बुरा भाव और बुरा कार्य कोई नहीं चाहता। किन्तु नहीं चाहने पर भी बुग चिन्तन आता है, बुरा भाव आता है और बुरा कार्य भी होता है। ऐसा क्यों होता है—यह एक प्रश्न है। कोई आदमी बुरा करना चाहे और वह बुरा करे सो यह न्यायादिक वात ही सकती है। तब कहा जा सकता है कि उसने जैसा चाहा धैरा किया। किन्तु बुरा करना न चाहने पर भी यदि बुरा होता है तब यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

आदमी अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। कभी अच्छा करता है—अच्छा चिन्तन, अच्छा भाव और अच्छा कार्य। कभी बुरा करता है—बुरा चिन्तन, बुरा भाव और बुरा कार्य। यह द्वन्द्व चलता है। एक ही व्यक्तित्व में ये विरोधी वार्ताएँ चलती हैं। एक ही व्यक्तित्व कभी अच्छा और कभी बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है—यह प्रश्न हजारों ने नहीं करायी व्यक्तियों ने पूछा है और अपने-आप से भी यह प्रश्न पूछा गया है। हमारा मन वार-वार क्यों बदलता है? भाव क्यों बदलते हैं? विचार क्यों बदलते हैं? मनुष्य ने इन प्रश्नों का समाधान पाने का प्रयत्न भी किया। मनोविज्ञान ने भी इसका समाधान प्रस्तुत किया। पर वह भी मनोविज्ञान नहीं है, बुग समाधान नहीं है। मनोविज्ञान का उत्तर पूरा इसलिए नहीं है कि यह पूरी मणिक तब नहीं पार पाया। उसने जहाँ तक पहुंचकर उत्तर दिया यह थीक है, पर पहुंचने के लिए और आगे भी बहुत अवकाश है।

व्यक्तित्व को जानने के तीन साधन हैं—इन्द्रियां, मन और चित्त या बुद्धि। इन इन्द्रियों में पास लेते हैं, मन और बुद्धि से काम निते हैं। इनके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है। इन्द्रियों को हम जाते हैं, मन का पता भी चल जाता है, बुद्धि का पता भी चलता है, किन्तु इनके आगे हमारी पहुंच नहीं होती।

आज के टॉटर पारीर के एक-एक अवयव को, जहे यह स्थूल हो या नूद्धम, देख पूके हैं। हृदय को देखा, मनिक के बंद को देखा, आंतें और गुदे देखे। नसों का देखा हुआ जान देया। और भी नूद्धम जीर्जे देखीं। पर सब कुछ इनना ही नहीं है। पद्मप बहुत ज्यादा। उसे देखने के लिए टॉटर के पास साधन नहीं हैं, जीजार नहीं है। मैंने एक टॉटर से कहा—जो कुछ देखा गया है वह आंखों ने या लांगों के सारे से देखा गया है, मन की चंचलता से देखा गया है, चित्त या बुद्धि की चंचलता से देखा गया है। इस प्रक्रिया से इनना ही दिखेगा। देखने की एक दूसरी प्रक्रिया है, जहाँ आंखें जाम नहीं देती। जम प्रक्रिया में आंखें दब, मन सामाजा और सुहिं के दरवाजे घट हो जाते हैं। ऐसा करने से दाढ़ जो दिखेगा, वह गया होगा और जो दृष्टि-चिन्तन के द्वारा गया नहीं होगा।

इन शरीर के भीतर अलग-अलग परमाणुओं के इनने लिए हैं कि जिन्हें हम

बोल नहीं सकता। वे भाषा के परमाणु कहां से आते हैं? मेरे भीतर भाषा के परमाणु हैं। मेरे चारों ओर भाषा के परमाणु विखरे पड़े हैं। पहले वे दिखाई नहीं देते। किन्तु जैसे ही बोलने का संकल्प किया, उच्चारण प्रारंभ किया कि भाषा के परमाणु भीतर आकर भाषा के रूप में बदल जाते हैं। उनमें स्फोट होता है और वे भाषा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे फिर वाहर निकलकर समूचे आकाश में फैल जाते हैं। कोई भी आदमी बोलता है तो वह बोलने से पहले सोचता है। विना सोचे कोई नहीं बोलता। ये चिन्तन के परमाणु कहां से आए? चिन्तन के परमाणुओं के सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति चिन्तन नहीं कर सकता। ये मानस वर्गणा के परमाणु, ये चिन्तन के परमाणु समूचे आकाश में फैले हुए हैं, भरे पड़े हैं। जैसे ही चिन्तन का संकल्प किया, चिन्तन के परमाणु भीतर आते हैं, चिन्तन के रूप में परिणत होते हैं और फिर उनकी आकृतियां समूचे आकाश में फैल जाती हैं। मेरे आसपास या किसी के भी आसपास भाषा के परमाणु हैं, चिन्तन के परमाणु हैं, भावना के परमाणु हैं, रंग और लेश्या के परमाणु हैं, और न जाने परमाणुओं के कितने जाल बिछे हुए हैं, किन्तु दिखाई कुछ भी नहीं देता, कुछ भी ज्ञात नहीं होता। आंखों से भी वे दिखाई नहीं पड़ते। आंखें केवल स्थूल को ही पकड़ पाती हैं, सूक्ष्म को नहीं। आंख देखने का बहुत ही स्थूल माध्यम है। स्थूल माध्यम स्थूल को ही पकड़ पाता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यदि आंखों में सूक्ष्म को देखने की क्षमता आ जाती तो आंखों के सामने इतने रूप आ जाते कि उनकी भीड़ हो जाती, आंखें कुछ कर ही नहीं पातीं। अच्छा हुआ कि हम एक निश्चित आवृत्ति (फ्रीक्वेन्सी) को ही देखते हैं और सुनते हैं। यह मर्यादा बहुत अच्छी है।

सूक्ष्म जगत् न इन्द्रियों से दिखाई देता है, न चिन्तन से उपलब्ध होता है और न वुद्धि के द्वारा गृहीत होता है। उसको ज्ञात करने का एकमात्र उपाय यह है कि सबके दरवाजे बन्द कर देना। न इन्द्रियों के दरवाजे खुले रहें, न चिन्तन के और न वुद्धि के। सब बन्द कर देने ही वह सूक्ष्म जगत् दिखाई दे सकता है, अन्यथा नहीं। इन सबको बन्द कर देने पर भीतर की यात्रा शुरू होती है और तब पता चलता है कि भीतर भी बहुत कुछ है। जिन लोगों ने भीतर में पहुंचकर इन प्रश्नों का समाधान दिया,, सचमुच वह समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान है।

व्यक्ति संकल्प करता है कि वह बुरा न सोचे, बुरा न करे, परन्तु यह संकल्प टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमें पूरे व्यक्तित्व को जानना होगा, व्यक्तित्व की गहराई तक जाना होगा। गहराई में उत्तरने पर हमें ज्ञात होगा कि हमारे भीतर दो महासागर लहरा रहे हैं। एक महासागर है संक्लेश का और दूसरा महासागर है असंक्लेश का। ये इतने विशाल हैं कि अन्यान्या

महामार द्वारा नमाप्त छोटे पढ़ते हैं। ये महामार निरंतर स्वदित हैं। उनका धर्म प्रयाह बाहर आ रहा है। एक नमुद्द में संक्षेप का प्रवाह बाहर आ रहा है। और इनसे नमुद्द में धर्मसंक्षेप का प्रवाह बाहर आ रहा है। दोनों प्रवाह बाहर आते हैं। जब संक्षेप का प्रवाह बाहर आता है तब युरा न चाहने पर भी व्यक्ति आ मन तुरे चिनारी और भावों में भर जाता है। जब संक्षेप का प्रवाह बाहर आता है तब युग कार्य न चाहने पर भी युरा कार्य हो जाता है। न चाहने पर भी इन गाथों में, पैरों से, टटियों में और मांगवेणियों से युरा कार्य हो जाता है। इसमें व्यक्ति का कथा दोष के व्यक्ति का कोई दोष नहीं, यह नारा दोष है। संक्षेप के प्रयाह यह, जो आता है और व्यक्ति को युरा चिन्तन करने, तुरे भाव पनपाने और युग कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। जब अमंकेन का प्रवाह बाहर आता है, तम चाहिे न चाहें, अच्छा चिन्तन, अच्छा भाव और अच्छा आचरण हो जाता है। इसने यह फलिनहुआ कि आदमी कुछ नहीं करता। सब कुछ भीतर का प्रवाह गया जाता है। संक्षेप का प्रयाह अपया अमंकेन का प्रवाह मनुष्य को प्रेरित करता है। युरा करने के लिए या अच्छा करने के लिए। अच्छे-तुरे के लिए भीतर से आगे आया प्रवाह जिम्मेदार है, मनुष्य नहीं। जैसा प्रवाह वैना ही व्यक्तित्व। इमका मायथं पह रुआ कि ऐसे उम कठुननी की भाँति है जो आदमी के इशारों पर लानती है। उमका अपना कोई भी न्यतंक अग्नित्व नहीं है। इसी प्रकार इमार परीरा, इमार मन, इमारी भावना भी भीतर ने वहने वाले प्रवाहों के अधार पर मारने लग जाती है। यह कहकर हम अच्छे-तुरे के उत्तरदायित्व में मृत नहीं ती नहीं।

प्रति ही कि भीतर ने संक्षेप का प्रवाह यहों आता है? संक्षेप का प्रवाह—ऐसा क्यों होता है? एसी संक्षेप का प्रवाह और कभी असंक्षेप का प्रवाह—ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पाना है। एक दशा बांध है। उनके दरवाजे हैं। दरवाजा योंखते हैं तो पानी बाहर ढहने लगता है। दरवाजे को बद्द रखते हैं तो पानी दोष से बाहर की जाता, भीतर ही रहता है। इसी प्रकार जब हम संक्षेप के दरवाजे को योंखते हैं तो संक्षेप का प्रवाह बाहर आने लग जाता है, और ऐसे उम संक्षेप के दरवाजे को योंखते हैं तो असंक्षेप का प्रवाह बाहर आने लग जाता है। संक्षेप को बाहर नाने याता 'मै' है और असंक्षेप को बाहर लाने याता 'मै' है, इस में जिस इमग योई नहीं है। इसका उत्तरदायित्व असूच्य नहीं है। यही जब्ती एक दरवाजे की योंखता है और इनर को बद्द कर देता है और जब्ती इमरणी योंखता है और पहले की दद बर देता है। यही संक्षेप के प्रवाह है। यहाँ जाता है और यही असंक्षेप के प्रवाह की दद बर जाता है। लेकिन यहे दिखते, भावनाकी और जाचरणों या इमरणायी नहीं हैं। जिसके हाथ से इनदौड़े ही रहीन हैं और इन इनर की क्षमता है, यारा उत्तरदायित्व इसका हो-

प्रयाह भीतर ने बाहर आना है पहल मरीर के माध्यम से आता है। शोध आएगा तो शरीर के माध्यम ने, अभिमान और लोम आएगा तो गरीर के माध्यम ने और दायरा उभरेंगी तो शरीर के माध्यम ने। जिन्हें धर्येग, उनेजानाएं, बासनाएं और जामनाएं ही—जब शरीर के माध्यम से उभरती हैं। ताढ़ी-नस्थान में दो प्रकार के स्नायु हैं—शानदाही स्नायु और शिवावाही स्नायु। जो शानदाही स्नायु है, उसके माध्यम से लग जाने हैं, नवेदन करने हैं। पैर में कांटा नुभा। तत्काल पैर के स्नायु उम इनेजाना को निर तक पहुँचा देता है। निर के स्नायु शिवावाही स्नायुओं को काटा निकानने का आदेश देते हैं। तत्काल हाथ की मांगनेवियां गरिय हाँ आगी है और अनुवियां कांटा निकानने लग जाती है। जब छुछ स्नायु के हारा पहित होता है।

मग्निय शास्त्र पैठा है। अचानक उसमें शोध उभरा। जब तक शोध नीं तरंग स्नायु पर नहीं दौड़ेगी, मग्निय का शोध अभिव्यक्त नहीं होगा। भीतर में किनारी प्रदक्षिण शोध भग्न, बिल्लु स्नायु में विदि नहीं उत्तरा तो वह भीतर ही भीतर रह जाएगा, प्रकट नहीं होगा। शोध नहीं प्रकट होता है जब स्नायु उमना सहयोग करे। हमारा ताढ़ी-नस्थान उमका सहयोग करे। अन्यथा वह भीतर ही समाप्त ही जाता है।

शरीरन्येता का बहुत बदा मूल्य है। इसे आप समझें। शरीर-प्रेक्षा करने वाला साधारण शरीर के प्रति जागरूक ही जाता है। जब व्यक्तित्व शरीर के प्रति गवय हो जाता है तब वह शरीर के प्रमुख हृत्रार केन्द्रों के प्रति, ग्रेडन-निम्नियों के प्रति जागृत होता है। शरीर में हजारों मर्मस्थल हैं। वह साधक उन मर्मस्थलों के प्रति। जागरूक ही जाता है। वे मर्मस्थल शक्तियों के आशन-प्रदान के माध्यम हैं। वे शक्तियों को अभिव्यक्ति देते हैं। वे वृन्दियों को प्रकट करते हैं। शोध वी अभिव्यक्ति का एक निश्चित दिग्गु है शरीर में। शोध आएगा तो शरीर में इसेजाना पैदा होगी, एक नार दौड़ेगी और ठीक ठिकु पर पहुँचकर शोध नवेदन के रूप में ददन जाएगा और वह मारीचिक रूप के लिता। आंगें दान हों जाएंगी। होता खात्रके लिये। आदाज ददन जाएगी। विदि हम शरीर के प्रति जान जाएं, एवं स्नायुओं पर उपना लिद्यरण द्यापित कर लें। ताढ़ी-नस्थान पर अत्तमा प्रस्तुद स्थापित दर में और छारे भीतर के अदेशों के भाव उत्तर्हयोग जरूर का निर्देश दें ही तो शरीर में कितनी ही दृष्टियां बढ़ो न उभरें, वे ददन नहीं आ पाएंगी। वह उपग्रहण वी पहित है।

दी पहाड़ वी प्रतिगांठ है। इसकी उपग्रहण वी प्रतिया और तुरारी ही इसकी प्रतिगांठ। इस वी प्रतिया में भीतर है नवेदन नवेदन तो जाने हैं, जल ही जाने हैं। जागरूक ही लिया में नवेदन उपग्रहण ही है। समूल लात जानी होती है। इस-उपग्रहण वी एवं यह भी जारी है। जटारण हम उपग्रहण वी प्रतिया जीवी सीधे

लेते, आनेवाली उत्तेजनाओं को विफल करना नहीं जान लेते तब तक क्षय करना कठिन हो जाता है। पहले जरूरी होता है कि एक बार बीमारी को शांत किया जाए, पीड़ा को कम किया जाए, फिर लंबे समय तक बीमारी को उन्मूलित करने की क्रिया की जाए तो उसे समूल नष्ट किया जा सकता है। यदि बीमारी विकराल रूप में उभर रही हो, सिर फट रहा हो, उस समय यदि कहा जाए कि तुम लंबी प्रक्रिया करो, तीन महीने तक यह प्रक्रिया करो तुम्हारी बीमारी समूल नष्ट हो जाएगी। इतना धैर्य कहां होता है। वह तत्काल बीमारी का उपशमन कर एक बार पीड़ा को कम कर देना चाहता है। जब वेदना शांत हो जाती है, फिर लंबी चिकित्सा कर रोग का समूल नाश कर दिया जाता है।

उपशमन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है।

हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा नाड़ी-संस्थान जो जागृत कर लेते हैं। यह जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। नाड़ी-संस्थान जितना मजबूत होता है उतना ही मजबूत वह व्यक्ति होता है। केवल मांस और हड्डियों के मजबूत होने से बहुत नहीं होता। ये तो नाड़ी-संस्थान को आवृत करने वाले साधन हैं। महत्वपूर्ण है नाड़ी-संस्थान। ज्ञानवाही और क्रियावाही नाड़ियों का ही सारा कर्तृत्व है। हम शरीर-प्रेक्षा के द्वारा स्नायुओं को इतना जागृत कर लें कि वे हमारे सभी निर्देशों का अवश्य पालन करें और वे भीतर से आने वाले प्रवाह को बाहर न आने दें, प्रकट न होने दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।

भगवान् महावीर और बुद्ध के समय में एक प्रश्न चर्चित था कि दंड कितने होते हैं। महावीर का कथन था—‘दंड तीन होते हैं। मन का दंड, वाणी का दंड और काया का दंड।’ बुद्ध कहते थे—‘दंड एक ही है। वह ही मन का दंड, मनोदंड। न वाणी का दंड होता है और न काया का दंड होता है। केवल मन का दंड होता है।’

बुद्ध ने ही नहीं, अनेक आचार्यों ने कहा—‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः।’ मन ही बन्धन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही वांधता है और मन ही छुड़ाता है। प्रायः लोग भी यही सोचते हैं कि सब कुछ मन ही है। सतहीं स्तर पर यह बात सही हो सकती है। पर गहरे में जाने की जरूरत है। महावीर ने जो तीन दंडों की व्यवस्था दी, वह बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था है। केवल मन से कुछ नहीं बनता। काया के दंड का भी अपना महत्व है। जब शरीर में फैले हुए नाड़ी-संस्थान में किसी प्रकार का संस्कार बन जाता है, वे सक्रिय हो जाते हैं तब मन बेचारा बैठा रह जाता है। अभ्यास हो गया शरीर को। वहां शरीर मुख्य हो जाता है। नाड़ी-संस्थान में जो उत्तेजनाएं, जो वासनाएं, जो तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, फिर न चाहने पर भी वह घटना घटित हो जाती है, क्योंकि नाड़ी-संस्थान को वह अभ्यास बन जाता है। मन बेचारा कुछ नहीं कर सकता। नाड़ी-

मन का अनुचर नहीं है, मन का दाम नहीं; उसका प्रयत्न स्वतंत्र अस्तित्व है। इन स्थिति में केवल एक ही दंड—मनोईंट को नहीं माना जा सकता। वाणी का अपना तंत्र है, मन का प्रपत्ना तंत्र है और काशा का अपना तंत्र है। नाटी-गम्भान हमारा दिया तब है। उसके तीन उपतंत्र हैं—एक मन का, एक वाणी का और एक काशा का। तीनों का अपना-अपना मूल्य है। न मन को अधिक मूल्य दिया जा सकता है और न वाणी और काशीर को—तीनों का स्वतंत्र मूल्य है।

कह यार हम कह देने हैं—मैं यह कहता तो नहीं चाहता था, पर वाणी से गिरन गया। यह वाणी तंत्र का स्वतंत्र अस्तित्व का चोनक है। हमने जिस स्थिति में वाणी को जैगा अभ्यास दे दिया, उस प्रकार की पठन पठिन हो जाती है। शोध उभरा और पारके न चाहने पर भी दैने घट निकल जाएंगे जो अप्रिय होने हैं। कमी-फक्ती मन के न चाहने पर भी अपठित पठित हो जाता है। यदि मन ही सब गृह होता नीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि मन का एकछत्र गाम्भाऊ होता तो उसके विपरीत गृह भी नहीं हो पाता। पर ऐसा नहीं है। मन का, वाणी का और काशीर का अपना-अपना स्वतंत्र तंत्र है।

प्राणमतिषय इस है। उनमें एक ही मन प्राणमतिषय। यह एक किरण है, रश्मि है। ऐसे मन की प्राणमतिषय है दैसे ही वाणी की प्राणमतिषय है, और काशीर की प्राणमतिषय है। यिसी एक की अविद्या मूल्य नहीं दिया जा सकता।

भीतर में जो जाता है यह सबसे पहले नाटी-गम्भान में उत्तरता है। एक बात और है। मन अकेला गृह नहीं कर सकता। मन की शिया तब होनी है जब उसे गम्भान से सहयोग मिलता है।

तीनों को मिलाने पर पूरी बात होगी ।

यदि हम शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं, इस मूर्च्छा को तोड़ डालते हैं, स्नायु-संस्थान पर नियंत्रण कर लेते हैं, उसमें उठने वाली उत्तेजनाओं और वासनाओं की तरंगों को बदल देते हैं तो बहुत महत्व का कार्य घटित हो जाता है । उपशमन की क्रिया संपन्न हो जाती है । फिर माया विफल, लोभ विफल, जितनी वीमारियाँ उभरना चाहती थीं, वे सारी विफल । जब विफल करने की चाबी हाथ लग जाती है तब पहले सब उत्तेजनाओं को विफल कर, उपशांत कर, फिर उनके उन्मूलन का प्रयत्न किया जाता है । धीरे-धीरे उनका उन्मूलन हो जाता है ।

प्रेक्षा की फलवत्ता इसी से समझी जा सकती है कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के प्रति जागना शुरू कर दिया, उसने भीतर से आने वाली बुराई के प्रवाह को रोक दिया और वह उपशमन की क्रिया करते-करते एक दिन उन सभी बुराइयों को क्षीण करने की स्थिति तक पहुंच जाएगा ।

२. व्यक्तित्व की व्युह-रचना : आत्मा और शरीर का मिलन बिन्दु

- १ • आत्मा और शरीर दो तत्त्व हैं।
- २ • उनका सम्बन्ध क्या है ? वह कहां से प्रारंभ होता है ? केन्द्र में आत्मा, परिधि में कपाय-तंत्र जो अतिमूद्धम शरीर का मजबूत मोर्चा बनाए वैठा है। ग्रनित-तंत्र जो प्राण-विद्युत् प्रवाहित कर रहा है।
- नैतन्य के स्पंदन : अध्यवसाय-तंत्र ।
भूमात्मा, रागात्मक, द्वेषात्मक ।
- ३ • यहां तक स्थूल शरीर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। अध्यवसाय का सम्बन्ध मूद्धम और अतिमूद्धम शरीर से। यह वनस्पति आदि में भी।
- ४ • अध्ययनाय के स्पंदन स्थूल शरीर (चित्त-तंत्र और मस्तिष्क) के साथ सम्बन्ध रखापित करते हैं और लेश्यातंत्र या भावतंत्र तथा रंग के परमाणु ग्रनितरों को प्रभावित करते हैं।
- ग्रिया-तंत्र : मन, वचन, शरीर ।
नारी-मंत्रपान को प्रभावित कर मन, वचन, शरीर की क्रिया का संचालन करता है।
- मंजस् शरीर से रंग दियने शुरू हो जाते हैं।

दो

संसार में दो तत्त्व हैं। एक है चेतन, दूसरा है अचेतन। एक है जीव, दूसरा है अजीव। जीव चेतन है और शरीर अचेतन। कुछ केवल शरीर को ही मानते हैं, केवल अजीव या अचेतन को ही स्वीकार करते हैं। वे चेतन या जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते। यह विभेद क्यों? विमर्श करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों ने चित्त तक की यात्रा की, उससे आगे नहीं जा सके, उन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। चित्त तक पहुँचने वाला आत्मा को स्वीकृति नहीं दे सकता। उसको आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व मान्य नहीं हो सकता। जिन लोगों ने चित्त से परे की यात्रा की, जो चित्त से आगे बढ़े, उन्होंने आत्मा को स्वीकार किया। एक है अध्यवसाय और एक है चित्त। चित्त तक की यात्रा शरीर-संबद्ध यात्रा होती है। अध्यवसाय तक की यात्रा शरीर से परे की यात्रा होती है। जब हम अध्यवसाय तक पहुँचते हैं वहां हमारा संबंध शरीर से छूट जाता है। शरीर इस पार रह जाता है और अध्यवसाय उस पार रह जाता है। शरीर और अध्यवसाय का कोई संबंध नहीं है।

आत्मवादी दर्शन आत्मा और शरीर को भिन्न मानते हैं, दो मानते हैं। दो मानने पर दोनों में संबंध कैसे हो सकता है? वह कौन-सा बिन्दु है जहां आत्मा और शरीर परस्पर मिलते हैं, जुड़ते हैं। उस बिन्दु की खोज होनी चाहिए। इस खोज के परिणामस्वरूप यात्रा शरीर से बहुत आगे बढ़ गई। उस यात्रा के सारे बिन्दुओं को समझे विना आत्मवादी व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता। शरीर-वादी व्यक्तित्व इन्द्रिय, मन और चित्त तक जाकर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। आत्मवादी व्यक्तित्व की व्यूह-रचना बहुत जटिल है। स्थूल शरीर, इन्द्रियां, मन, चित्त, अध्यवसाय, कषाय का वलय और फिर चेतन-आत्मा। हम आत्मा से चलें। केन्द्र में एक चेतन तत्त्व है। उसे हम द्रव्यात्मा—मूल आत्मा कहते हैं। यह मूल चैतन्य का केन्द्र है। उसकी परिधि में अनेक तत्त्व काम करते हैं। उस चेतन तत्त्व के बाहर कपाय का वलय है। कपाय का तंत्र इतना मजबूत है कि वह आत्मा पर अपना अधिकार जमाए वैठा है। यद्यपि चेतन तत्त्व को शासक का स्थान प्राप्त है,

फिर भी उम मामक का नेतावति कापाय दृतता जनिनगानी है कि उसकी छछा के दिला शामक बुद्ध नहीं कर सकता। वह नेतावति जो निषंब ने नेता है, शामक को यह दृश्यात्मक करना ही पढ़ता है। जिन तत्त्व और कापाय तत्त्व के दीन पक्ष नमस्तीता है, कापाय तत्त्व का एक स्थाट निर्देश है कि चैतन्य के अपदन यदि कापाय वन्दय गो खेड कर बाहर आते हैं तो वे पुढ़ तभी रह सकते हैं जब वे केवल श्रेय के प्रनिय आते हैं। श्रेय के नियम यदि वे धौरंकहीं भी जाते हैं तो कापाय तत्त्व की छछाता में तो जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। चैतन्य के जो अन्यत्य अपदन दाहर निकलते हैं वे कापाय तत्त्व को पार कर, अतिमूद्दम परीर को पार कर बाहर आते हैं। उमगा एक व्यतीक्र तत्त्व वर्ण जाता है। वह ही अध्यवसाय का तत्त्व। वह तत्त्व नियम परीर के साध-नाय समिय होकर काम करता है। जिन लोगों ने आहार को खाता, आपा का साधात्मकार दिया, गूदमता में गए, उन लोगों ने मन को कठी महाद गती दिया। उक्तोंसे गम अध्यवसाय दो मठन्य दिया। वहाँ एक गेना विनु है जो से आपा को परीर से पृथक् किया जा सकता है और उनके मध्य और अपवध वीं व्यापारी वीं जा सकती है। मन मनुष्य में होता है, रिकासरीत प्राप्तियों में होता है। जिनके गुदुग्ना हैं, मनिका हैं, उनमें मन होता है। तत्त्व जीवों में मन नहीं होता। जिन्हें अध्यवसाय मन जीवों में होते हैं। वनररति में भी अध्यवसाय होता है। ऐने-निय जीवों से नेतार पर्वेन्य जीवों तक—जव जीवों में अध्यवसाय होता है, जिन्हें मन तत्त्व में नहीं होता। जिनके मन होता है उनके भी कर्मदश होता है और जिनके मन नहीं होता। उनके भी कर्मदश होता है। कर्म का वधु मन जीवों के होता है। गृहस्थाय गुरु से एक सुन्दर घर्ता है। एक मनुष्य जात रही है। जिनके मातृ विद्या से है कि वह इत्यन्य नहीं शेष होता है, किंव भी उसके दिया वह अर्थात् हो जाता है। दूसरा गृहस्थूल ज्ञानेव है। एक लोटसे इस पर होता है कि जहाँ सम समिय होता है, वह कर्म का वधु होता है और जो जीव मातृ विद्या से है, जहाँ एक अपाराह्न, स्वप्न दिना अपराह्न है, वहाँ भी जीव वधु होता है कि वह कर्म का वधु होता है। वहि दृश्यात्मक उमगा दिया है तो वह दृश्य दिया है इसके बाहर दिया है इसके बाहर दिया है इसके बाहर दिया है इसके बाहर दिया है। एक लोटसे इस पर होता है कि जहाँ सम समिय होता है, वह कर्म का वधु होता है और जो जीव मातृ विद्या से है, जहाँ एक अपाराह्न, स्वप्न दिना अपराह्न है, वहाँ भी जीव वधु होता है कि वह कर्म का वधु होता है। एक लोटसे इस पर होता है कि जहाँ सम समिय होता है, वह कर्म का वधु होता है और जो जीव मातृ विद्या से है, जहाँ एक अपाराह्न, स्वप्न दिना अपराह्न है, वहाँ भी जीव वधु होता है कि वह कर्म का वधु होता है। एक लोटसे इस पर होता है कि जहाँ सम समिय होता है, वह कर्म का वधु होता है और जो जीव मातृ विद्या से है, जहाँ एक अपाराह्न, स्वप्न दिना अपराह्न है, वहाँ भी जीव वधु होता है कि वह कर्म का वधु होता है। एक लोटसे इस पर होता है कि जहाँ सम समिय होता है, वह कर्म का वधु होता है और जो जीव मातृ विद्या से है, जहाँ एक अपाराह्न, स्वप्न दिना अपराह्न है, वहाँ भी जीव वधु होता है कि वह कर्म का वधु होता है।

अठारह पापों का सेवन करता है। अठारह पापों से होने वाला कर्मवंध उसके होता है। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि उस जीव के अध्यवसाय होते हैं, असंख्य अध्यवसाय होते हैं। वे अध्यवसाय विशुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अध्यवसाय होते हैं, इसलिए उनके कर्म का बंध होता है। हिंसाजनित कर्म का बंध भी होता है और परिग्रहजनित कर्म का बंध भी होता है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, और लोभजनित कर्म का बंध भी होता है। वह जीव अपने शत्रुओं की हिंसा करता है, इसलिए हिंसाजनित कर्म का बंध होता है। बहुत उलझन-भरी बात है। क्या ऐसा होना संभव है? हाँ, संभव है।

हम वर्तमान के विज्ञान की दृष्टि को भी समझें। हमने मस्तिष्क, मन और वचन को बहुत बड़ा स्थान दे दिया। किन्तु हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है अध्यवसाय। अध्यवसाय के बाद जो ज्ञान होता है, शारीरिक दृष्टि से, तो वहाँ ज्ञान के बड़े स्रोत हैं—हमारी कोशिकाएं। जिन जीवों के मस्तिष्क नहीं होता, मन नहीं होता, उनकी कोशिकाएं सारा ज्ञान करती हैं। वनस्पति के जीव जितने संवेदनशील होते हैं, मनुष्य उतने संवेदनशील नहीं होते। वनस्पति में अध्यवसाय का सीधा परिणाम होता है, इसलिए उन जीवों में जितनी पहचान, जितनी स्मृति और दूसरों के मनोभावों को जानने की जितनी क्षमता होती है, वैसी क्षमता बहुत सारे मनुष्यों में भी नहीं होती।

वैज्ञानिक वेकस्टन ने वनस्पति पर अनेक प्रयोग किए। उसने एक प्रयोग यह किया—उसने कागज के छह टुकड़े लिये। पांच टुकड़ों पर कुछ नहीं लिखा। एक टुकड़े पर लिखा—इस कमरे में जो दो पौधे हैं, उनमें से एक पौधे को उखाड़ देना है, नष्ट कर देना है, पैरों से रौंद डालना है। उसने कागज के छहों टुकड़े कमरे में रख दिए। फिर उसने छह व्यक्तियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे कहा—‘कमरे में जाओ और एक-एक टुकड़ा उठा लो।’ छहों व्यक्ति कमरे में गए। जो हाथ में आया वह टुकड़ा उन्होंने एक-एक कर उठा लिया। एक व्यक्ति के हाथ में वह लिखा हुआ कागज आया। छहों ने आंख की पट्टियां खोलीं। अपना-अपना कागज देखा। पांच के कागज खाली थे। छठे के कागज पर कुछ लिखा था। वह व्यक्ति कमरे में गया और लिखे अनुसार एक पौधे को उखाड़ा, पैरों से रौंदा और उसे नष्ट कर डाला। वेकस्टन को भी पता नहीं था कि छहों व्यक्तियों में से किसने यह काम किया है। अब वेकस्टन ने एक-एक कर छहों व्यक्तियों को कमरे में जाने के लिए कहा। कमरे में जो एक पौधा बचा था, उस पर पोलीग्राफ लगा दिया गया। पहला व्यक्ति गया। पौधे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां व्यक्ति गया। पौधे ने कोई प्रतिक्रिया अंकित नहीं की। वह शांत था, सहज-सरल था। ज्योंही साथी पौधे को उखाड़ फेंकने वाला छठा व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ, सारा पौधा कांप उठा। उसके कंपन पोलीग्राफ पर अंकित होने लगे।

इस छाप, जो देशप्रभु दीक्षामिक ने जान किया कि इस अवलित ने उनी पीछे रोने न दिया है। इन्होंने भी आदमका इस मार्गी जान को और दोषा जान का, पहचान मार्ग। इनका विदेश सरेदार और दिल्ली के हजारों जान हीं देखते रहे।

दीक्षामिक ने इस इसरो अवलित की दिया। उनी पर योनीगांठ का दृश्य था। एक एक प्रतीक था वह था था। प्रथोग करने के लिये उसके मन में एक बात थी। उसमें भली भन सत्ता कि दिल्लीमार्ट नवायाकर इस पीछे की जला था। उनी ही इसके मन में एक बात थी, जो कि उसी पूर्णमें थी। अभिन का अल्प उभर आया। इसमें आए भी नीता ही उक्ता। वह वर्ष से उठा। अमरे में शब्द दिल्लीमार्ट थामे। इसमें भव वश्व थया। उसने जीवा—जी पीछे वो नहीं आवाज़ की। वह गोवर्हर वह पीछे के जान का। आए रोनी पूर्ण दिल्ली। लोदि आप ही थम।

एकाह भी इसरे के भवीतासीं वो इस प्रभाव नहीं जान का, यकराति का जीव एवं ज्ञान वह जाता है। एक प्रत्यन भावार्ति कि एवं उकराति में वा एक दीक्षिय शरि जीवा से भन दी ही जो दिये हैं इसमा गृहम ज्ञान वोने शर क्षेत्र है? वह प्रत्यन भावार्ति, दिल्ली का जान भवाता है। दिल्ली जान वा जाप्ति नहीं है। अप्रत्यन में भन इन्हें जो जाप्ति नहीं है। जोना से जान वा जीव प्रवालित होता है, वह ही जीवदाय। जीव जाप्तिनाय वी उपिधा वह जाय भार देवारि भन पर वारि दिया। ऐसा जाया ही दिल्ली वा भार करे पर जान दिया। वह उठाए वह जीव ही।

* * * * *

चित्त-तंत्र केवल जेय को जानने का साधन मात्र है। अध्यवसाय की अनेक रश्मियां फूटती हैं। उसके अनेक स्पंदन अनेक दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। 'असंखेज्जा अज्ञवसायणठाणा'—'अध्यवसाय के असंख्य स्थान हैं।' लोक के जितने आकाश-प्रदेश हैं उतने ही हमारे अध्यवसाय हैं। लोक-प्रदेश असंख्य हैं और अध्यवसाय भी असंख्य हैं। वे चित्त पर उत्तरते हैं। उनकी एक धारा चलती है। वह है भाव की धारालेख्या। अध्यवसाय की एक धारा, चित्त की एक धारा जो रंग के परमाणुओं से प्रभावित होती है, रंग के परमाणुओं के साथ जुड़कर भावों का निर्माण करती है, वह है हमारा लेश्या-तंत्र या भाव-तंत्र। इसके द्वारा ही सारे भाव निर्मित होते हैं। जितने भी अच्छे या बुरे भाव हैं, वे सारे लेश्या-तंत्र के द्वारा निर्मित होते हैं। अध्यवसाय प्रभावित करते हैं नाड़ी-संस्थान को, मस्तिष्क को। जब ये चित्त की दिशा में आगे बढ़ते हैं और जब ये लेश्या की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब ये प्रभावित करते हैं हमारी ग्रन्थियों को और उनके माध्यम से हमारे सारे शरीर-तंत्र को प्रभावित करते हैं।

लेश्या की एक परिभाषा है—कर्म निर्झर। लेश्या कर्म का ज्ञरना है, कर्म का प्रवाह है। कर्म के प्रवाह जो प्रवाहित होकर बाहर आते हैं, वे ग्रन्थियों के माध्यम से बाहर आते हैं। ये हैं : ग्रन्थियों के स्राव, ग्रन्थियों के रसायन और रसानुवंध यानी कर्म का अनुभाग वंध। अनुभाग वंध भी रसायन है। कर्म का रसायन इन ग्रन्थियों के माध्यम से बाहर आकर हमारे समूचे तंत्र को प्रभावित करता है। अब तक भी वेचारे मन का कोई स्थान नहीं आया। यह चित्त-तंत्र और लेश्या-तंत्र हमारे क्रिया-तंत्र को प्रभावित करता है।

क्रिया-तंत्र के तीन अंग हैं—मन, वचन और शरीर। क्रिया-तंत्र का एक अंग है—मन। वह तो एक पुर्जा है। इसका कार्य है—काम करना। मन का कार्य ज्ञान करना नहीं है। मन का कार्य कर्म को वांधना नहीं है। मन का कार्य कर्म को तोड़ना भी नहीं है। मन का काम है ऊपर से मिलने वाले निर्देशों का पालन करना, उनको क्रियान्वित करना। इसी प्रकार वचन भी निर्देशों की क्रियान्विति करता है और शरीर भी निर्देशों की क्रियान्विति करता है। ये तीनों क्रियान्विति के साधन हैं, ज्ञान के साधन नहीं हैं। ज्ञान-तंत्र चित्त-तंत्र तक समाप्त हो जाता है। भाव-तंत्र लेश्या-तंत्र तक समाप्त हो जाता है। इन दोनों के निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए क्रिया-तंत्र सक्रिय होता है। उसके ये तीन मैनिक हैं—मन, वचन और शरीर। ये तीनों काम करते हैं। मन का काम है—स्मृति करना, कल्पना करना और चिन्तन करना। ये तीनों काम एक अच्छा कम्प्यूटर भी कर सकता है। इस स्थिति में मन और कम्प्यूटर में अन्तर ही क्या है? मुझे लगता है, उनमें कोई अन्तर नहीं है।

गुण नोग यह कहते हैं कि जो काम मन करता है वह काम एक कम्प्यूटर भी

नित-नव केवल ज्येष्ठ को जितने का माध्यन मात्र है। अध्यवसाय की अनेक रश्मियाँ हुड़ती हैं। उनके अनेक संदर्भ अनेक दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। 'असंयेज्जा अध्यवसायठाणा'—'अध्यवसाय के असंख्य स्थान हैं।' लोक के जितने आकाश-प्रदेश हैं उनमें ही हमारे अध्यवसाय हैं। लोक-प्रदेश असंख्य हैं और अध्यवसाय भी असंख्य हैं। वे नित पर उगते हैं। उनकी एक धारा चलती है। वह ही भाव की धारानिया। अध्यवसाय की एक धारा, चित्त की एक धारा जो रंग के परमाणुओं ने प्रभावित होती है, रंग के परमाणुओं के साथ जुड़कर भावों का निर्माण करती है, वह ही हमारा लेश्या-तंत्र या भाव-तंत्र। इसके द्वारा ही सारे भाव निर्मित होते हैं। जितने भी अच्छे या बुरे भाव हैं, वे सारे लेश्या-तंत्र के द्वारा निर्मित होते हैं। अध्यवसाय प्रभावित करते हैं नाड़ी-संस्थान को, मस्तिष्क को। जब ये चित्त की दिशा में आगे बढ़ते हैं और जब ये लेश्या की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब ये प्रभावित करते हैं हमारी ग्रन्थियों को और उनके माध्यम से हमारे सारे शरीर-तंत्र को प्रभावित करते हैं।

लेश्या की एक परिभाषा है—कर्म निर्झर। लेश्या कर्म का झरना है, कर्म का प्रवाह है। कर्म के प्रवाह जो प्रवाहित होकर बाहर आते हैं, वे ग्रन्थियों के माध्यम से बाहर आते हैं। ये हैं : ग्रन्थियों के स्राव, ग्रन्थियों के रसायन और रसानुवंध यानी कर्म का अनुभाग वंध। अनुभाग वंध भी रसायन है। कर्म का रसायन इन ग्रन्थियों के माध्यम से बाहर आकर हमारे समूचे तंत्र को प्रभावित करता है। अब तक भी दैनारे मन का कोई स्थान नहीं आया। यह चित्त-तंत्र और लेश्या-तंत्र हमारे क्रिया-तंत्र को प्रभावित करता है।

क्रिया-नंत्र के तीन अंग हैं—मन, वचन और शरीर। क्रिया-तंत्र का एक अंग है—मन। वह तो एक पुर्जा है। इसका कार्य है—काम करना। मन का कार्य ज्ञान करना नहीं है। मन का कार्य कर्म को वांधना नहीं है। मन का कार्य कर्म को तोड़ना भी नहीं है। मन का काम है ऊपर से मिलने वाले निर्देशों का पालन करना, उन्हींने क्रियान्वित करना। इसी प्रकार वचन भी निर्देशों की क्रियान्विति होता है और जरीर भी निर्देशों की क्रियान्विति करता है। ये तीनों क्रियान्विति के माध्यन हैं, ज्ञान के माध्यन नहीं हैं। ज्ञान-तंत्र चित्त-तंत्र तक समाप्त हो जाता है। भाव-नंत्र लेश्या-तंत्र तक समाप्त हो जाता है। इन दोनों के निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए क्रिया-तंत्र संग्रिय होता है। उसके ये तीन सैनिक हैं—मन, वचन और शरीर। ये तीनों का काम करते हैं। मन का काम है—सृजन करना, ज्ञान करना और निर्जन करना। ये तीनों का काम एक अच्छा कम्प्यूटर भी कर सकता है। उस स्थिति में मन और कम्प्यूटर में अन्तर ही क्या है? मुझे लगता है, कहाँमें कोई अन्तर नहीं है।

कुछ लोग यह कहते हैं कि जो काम मन करता है, वह काम एक कम्प्यूटर भी

कर लेता है, फिर आत्मा का अस्तित्व ही क्या है? उचित प्रश्न है। यदि हम मन को ही वास्तविक मान लें तो फिर आत्मा के अस्तित्व का साधना हमारे लिए सम्भव नहीं होता क्योंकि मन और कम्प्यूटर में कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता। इतना-सा अन्तर है कि कम्प्यूटर का निर्माण आदमी के हाथों हुआ है और मन का निर्माण अति सूक्ष्म शरीर ने किया है। वह अति सूक्ष्म शरीर वहुत शक्ति-शाली कुशल कारीगर है कि वह इतने सूक्ष्म पुर्जे बनाने में सक्षम हुआ है। आदमी इतने सूक्ष्म पुर्जे नहीं बना सकता। वस, इतना-सा अन्तर है। कितना उलझन-भरा है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग और हमारा मन। आदमी इनका निर्माण करने में सक्षम नहीं है। कई दशकों तक वह इनके निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह मस्तिष्क जैसे जटिल और सूक्ष्म यंत्र का निर्माण नहीं कर सकता। कम्प्यूटर स्मृति कर लेता है। सारी वातें आपको याद दिला देता है। आप कहीं भूल करते हैं तो आपको सावधान भी कर देता है। गणित के प्रश्न हल कर देता है। कविता भी कर लेता है। वात सोच लेता है और निष्कर्ष भी निकाल लेता है। निष्कर्ष वता देता है और भविष्य की योजना, कल्पना भी समझा देता है। जो तीन क्रियाएं मस्तिष्क करता है वे तीनों क्रियाएं कम्प्यूटर भी कर लेता है। इस स्थिति में हम मन को वहुत महत्व देकर चलते हैं फिर भी मन के आधार पर आत्मा को स्थापित नहीं कर पाते।

मन क्रिया तंत्र का एक अंग है। यह कर्मचारी है। इसका काम है निर्देशों का पालन करना। यह न अच्छा करता है और न बुरा। अच्छे या बुरे का सारा दायित्व स्वामी का होता है, कर्मचारी का नहीं। मन एक नौकर है। इसका काम है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। इसको कहा कि यह ले जाओ और वहां पहुंचा दो। यह ले जाता है, उचित स्थान पर पहुंचा देता है। अच्छे-बुरे का दायित्व इसपर नहीं है। विन्तु सारा दोष मन पर ही मढ़ा जाता है। यही सामने आता है। काम करने वाला ही सीधा सामने आता है। आदेश देने वाला सामने नहीं आता, वह पर्दे के पीछे खड़ा रहता है। व्यवहार में भी देखते हैं कि नौकर किसी का आदेश लेकर आता है और वह आदेश प्रिय नहीं है तो सबसे पहले नौकर ही रोष का भाजन बनता है। सारा रोष उस पर उत्तर आता है। प्राचीन काल में जब एक दूत अपने राजा का संदेश लेकर दूसरे राजा के पास जाता था, और यदि वह संदेश प्रतिकूल होता तो राजा के मन में आता कि इस दूत को मार डालना चाहिए। किन्तु उस समय राजाओं के बीच ऐसी संधि होती थी कि दूत को नहीं मारा जाता था। मन के साथ भी सन्धि है। वह वेचारा दूत है। अनकूल और प्रतिकूल निर्देशों का वह उत्तरदायी नहीं है। वह तो मात्र संदेशयाहक है। यदि मन के साथ कोई संधि नहीं होती तो मन कभी मार डाला जाता। वेचारा निर्देश है, फिर भी सारा दोष उसी का माना जाता है। अध्यवसाय और चित्त ने उसे जो काम सौंपा, उसका वह निर्वाह करता है।

मूल है द्रव्य आत्मा, मूल चैतन्य। उस पर पहला वलय है—कषाय-तंत्र का। दूसरा वलय है—योग-तंत्र का। योग का अर्थ है—प्रवृत्ति। मन योग का ही अंग है। मन का काम है प्रवृत्ति करना। इसका स्वभाव है प्रवृत्ति करना। यह कैसे बदलेगा? मन का काम है प्रवृत्ति करना। वचन का काम है प्रवृत्ति करना और शरीर का काम है प्रवृत्ति करना। मन को यदि आप पैदा करेंगे तो वह प्रवृत्ति करेगा। मन स्थायी तत्त्व नहीं है। जब आप उसको पैदा करते हैं तब वह उत्पन्न होता है और जब आप उसे पैदा नहीं करते, वह उत्पन्न ही नहीं होता। जब आदमी मनोवर्गण के पुद्गलों को ग्रहण करता है तब मन उत्पन्न हो जाता है। जब आपने मनोवर्गण के पुद्गलों को ग्रहण करने की भावना नहीं की तो मन नहीं बनेगा। मन को जब चाहें तब पैदा कर सकते हैं और जब चाहें तब पैदा नहीं भी कर सकते। वचन को भी चाहें पैदा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो पैदा नहीं कर सकते। शरीर की वात थोड़ी भिन्न पड़ती है, क्योंकि उसके साथ एक बार जब सम्बन्ध जोड़ लिया जाता है तब शरीर की प्रवृत्ति चालू हो जाती है। पर शरीर का प्रयोग हम चाहें तो कर सकते हैं, न चाहें तो नहीं कर सकते। प्रयोग में दोनों-तीनों समान हैं। इसलिए इस बात को बहुत गहरे में जाकर हम समझें कि हमें शरीर के प्रति जागृत होना है, वचन के प्रति जागृत होना है और मन के प्रति जागृत होना है, हमें जागृत इसलिए होना है कि इन तीनों का कोई दोष न आने पाए। बाहरी परिस्थिति का इन पर कोई प्रभाव न हो। यदि ऐसा होगा तो ये अच्छे रह पाएंगे। क्रिया-तंत्र स्वस्थ रहेगा तो वह भीतर से आने वाले प्रवाह की क्रियान्विति करे या न भी करे। यह उसके अधीन की वात होगी। नौकर कभी-कभी काम करने से इन्कार भी कर सकता है। काम करवाने के लिए उसे राजी रखना पड़ता है। राजी रखे बिना कर्मचारी पूरा सहयोग नहीं करता। हमारे अध्यवसाय जब क्रियातंत्र को राजी रखते हैं तो वह उनका पूरा काम करता है, उनका पूरा सहयोग करता है। यदि हम उल्टा चर्चे—क्रिया तंत्र को हम बाहर से राजी रखना शुरू कर दें और अध्यवसाय तंत्र को असहयोग करना सिखा दें तो हमारी साधना की पहली मंजिल तय हो जाएगी। इसलिए उपशमन की प्रक्रिया में हमें मन पर जागृत होना है, वचन पर जागृत होना है और शरीर पर जागृत होना है।

क्षय की प्रक्रिया इससे भिन्न है। दोषों को क्षीण करने के लिए हमें जहां जागना है, उसकी कोई दूसरी पद्धति है। इस पद्धति पर हम और कभी विचार करेंगे।

हमारे अभ्यास का क्रम है—श्वास-प्रेक्षा, शरीर-प्रेक्षा और लेश्या-ध्यान। यह सारा इसीलिए चल रहा है कि बाहरी रंगों को भी हम अपने भावों तक ले जाएं, अपनी साधना में ले जाएं। रंगों को मना लें ताकि वे हमारा सहयोग करें।

शरीर को भी मना लें, वचन को भी मना लें और मन को भी मना लें। क्योंकि इनकी दोतरफी कठिनाई है। भीतर से जो आदेश आते हैं, उनकी क्रियान्विति करते-करते उनकी भी एक आदत बन जाती है और व्यक्ति की भी आदत बन जाती है। एक व्यक्ति को क्रोध आता है तो भृकुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, हँठ फड़कने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। क्रोध आता है तब ऐसा होता है। कुछ भाइयों की आदत पढ़ जाती है कि क्रोध न आने पर भी वे भृकुटी तान लेते हैं, आंखें लाल कर लेते हैं, शरीर को प्रकंपित करते हैं और क्रोध उत्तर आता है।

नाटक हो रहा था। अनेक दृश्य सामने आ रहे थे। एक अभिनेता आया और उसने इतनी कुशलता से अभिनय किया, ऐसा दृश्य बना कि जार्ज वर्नर्ड शा दर्शकों में से उठकर आए और अभिनेता को एक चांटा जड़ दिया। उसने कहा—‘यह क्या किया आपने?’ दूसरे ही क्षण जार्ज वर्नर्ड शा संभले। उन्होंने कहा—‘भूल हो गई। मुझे भान ही नहीं रहा कि तुम नाटक कर रहे हो। मैंने तो तुमको असली ही समझ लिया था। मैंने सोचा, तुम बुरा काम कर रहे हो, इसलिए मैंने चांटा लगा दिया।’

हमारे शरीर और स्नायुओं को भी एक ऐसी आदत बन जाती है कि जब क्रोध आता है तब शरीर की वह स्थिति बन जाती है या शरीर की वह स्थिति बनने पर क्रोध उत्तर आता है। क्रोध भी कहेगा कि मुझे क्या पता कि तुम शरीर की ऐसी स्थिति का निर्माण कर लेते हो। मैंने तो देखा कि तुम ऐसा करते हो तो मुझे आना ही चाहिए। तुममें उत्तरना ही चाहिए।

पहले हम इस बात से निपटें कि स्नायुओं की जो आदत बन गई है, मन और चाणी की जो आदत बन गई है, जो वे वाहरी प्रभावों से तत्काल प्रभावित हो जाते हैं, उनको उपशमन की प्रक्रिया के द्वारा उन प्रभावों से बचाएं और जो आदतें बनी हैं उन आदतों से बचाएं। यह काम पहला है। दूसरा काम होगा कि भीतर से निर्देश इन तक न पहुंचे, उनको समाप्त कर दें; क्षीण कर दें।

उपशमन और क्षय की प्रक्रिया जब हमारी साधना के साथ जुड़ती है तो साधना में विकास होता है और हम जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर चलते हैं, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में अवश्य ही सफल हो जाते हैं।

३. अच्छे-बुरे का नियंत्रण-कहाँ

- १ ० हम क्रिया को देखते हैं—क्रोध के लक्षण को देखते हैं।
 - ० भाव को नहीं देखते—क्रोध को नहीं देखते।
 - ० लेश्या तक पहुँच, भाव को देखते हैं, तरंगों को नहीं देखते।
 - ० अद्यवसाय तक पहुँच, तरंगों को देखते हैं, जल को नहीं देखते।
 - ० अतिसूक्ष्म शरीर तक पहुँच, जल को भी देख लेते हैं।
 - ० जल में तरंग : तरंग का सघनरूप भाव और भाव का सघनरूप क्रिया ॥
- २ ० कषाय मंद कैसे हो ? बाह्यसंग मुक्ति से ।
- ३ ० शरीर की व्यवस्था को मिन्न बना लेना—
 - ० अच्छे आचरण की आदत बनाएं, हानिकारक को देखें।
 - ० नई आदत जड़ न पकड़ें, तब तक अपवाद न करें।
 - ० आदत को बल देने वाले मनोयोगों से लाभ उठाएं।
 - ० अभ्यास द्वारा चेष्टा को जीवित रखा जाए ।
- ४ ० निश्चय की अपेक्षा आदत का महत्व अधिक ।
- ५ ० अच्छे जीवन की पहली शर्त आत्म-नियन्त्रण ।
आत्म-नियन्त्रण की पहली शर्त उपवास ।
- ६ ० मौलिक इच्छाएं इन्हीं पर फलती हैं।
जटिल इच्छाएं इन्हीं पर फलती हैं ।

तीन

हमारा शरीर एक दर्पण है। इस दर्पण में मन के भाव प्रतिविवित होते रहते हैं। हम भावों को देखकर अदृश्य को भी देख लेते हैं। जो दूर है उसे भी पहचान लेते हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती, वहाँ तक पहुँच जाते हैं इस दर्पण के प्रतिविम्बों के द्वारा। जब देखते हैं आंखों में एक धृणा का भाव तैर रहा है, आंख को देखते हैं और भाव तक पहुँच जाते हैं। जब देखते हैं कि आंख में से कुछ टपक रही है, हम प्रियता के भाव तक पहुँच जाते हैं। आंखों में देखते हैं, आकृति में देखते हैं। यह समूची आकृति कितना स्वच्छ दर्पण है कि उसमें भीतर का सब कुछ प्रतिविम्बित हो जाता है। यदि यह आकृति नहीं होती तो शायद भावों को जानने का हमारे पास कोई माध्यम नहीं होता। आकृति को देखकर जान जाते हैं कि आदमी प्रूढ़ है। आकृति को देखकर जान जाते हैं कि आदमी क्षमारत है, सहिष्णु है। प्रोग्राम और क्षमा—दोनों हमारे सामने प्रकट नहीं होते। क्योंकि सहिष्णुता और प्रोग्राम—दोनों इस शरीर के धर्म नहीं हैं। वे जहाँ जन्म लेते हैं और प्रकट होते हैं, उनका स्थान कोई दूसरा है। हमारे सारे भाव सूक्ष्म जगत् में जन्म लेते हैं और इस स्थूल शरीर में प्रतिविम्बित होते हैं। एक है हमारा प्रतिविम्ब का जगत् या प्रतिविम्बों को पकड़ने का जगत् और दूसरा है हमारे भावों के जन्म लेने का जगत्। हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। स्थूल को छोड़ते हैं तब सूक्ष्म की ओर यात्रा शुरू करते हैं। हम स्थूल शरीर को छोड़कर भाव-शरीर तक पहुँच जाते हैं। लेश्या तक पहुँच जाते हैं। लेश्या से भी आगे यात्रा शुरू करते हैं तो अध्यवसाय तक पहुँच जाते हैं। अध्यवसाय से आगे यात्रा शुरू करते हैं तो कपाय तक पहुँच जाते हैं। कपाय से आगे यात्रा शुरू करते हैं तो परमतत्त्व—जात्मा तक पहुँच जाते हैं।

कपाय या अतिसूक्ष्म शरीर में केवल स्पंदन हैं, कोरी तरंगे। वहाँ भाव नहीं हैं, कोरी तरंगे हैं। वहाँ चेतना के स्पंदन भी हैं और कपाय के स्पंदन भी हैं। दोनों स्पंदन हैं। दोनों महासागर हैं। एक है चैतन्य का महासागर और एक है कपाय का महासागर। दोनों में स्पंदन ही स्पंदन हैं, तरंगे ही तरंगे हैं। वे तरंगे बाहर आती

है। वे अध्यवसाय तक पहुँचती हैं, तब भी तरंगे, केवल स्पंदन। अध्यवसाय का मतावाही ही है कि सूक्ष्म चैतन्य का सपंदन। सूक्ष्म इसलिए कि उसका कोई केन्द्र-स्थित नहीं है। शरीर में उसका कोई विशेष केन्द्र नहीं है। वे अपने सूक्ष्म रूप में संदर्भ भी संदर्भ हैं। अध्यवसाय में हम देखेंगे तो क्रोध की तरंग होगी, क्रोध का भाव नहीं होगा। परम शरीर में, सूक्ष्म शरीर में क्रोध की तरंगे होंगी, क्रोध का भाव नहीं होगा। वहाँ तक कोई तरंगे होती हैं। वे तरंगें जब सघन होकर भाव बनता है और तरंगें ठोस रूप के नेतृत्वे हैं। जग्नि, ऊर्जा-पदार्थ में बदल जाती है। तरंग का सघनरूप भाव थोर भाव का सघनरूप भिन्न। जब भाव सघन बनता है तो वह क्रिया बन जाती है और हमारे स्थूल शरीर में प्रकट होती है और हमें दिखने लग जाती है। हम इया तो देखते हैं। क्रोध की क्रिया को देखते हैं, क्रोध के लक्षणों को देखते हैं, क्रोध के निक्षणों को देखते हैं, धमा के चिह्नों को देखते हैं, धमा के लक्षणों को देखते हैं। उन चिह्नों के सहारे आगे याक्षा शुरू करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म भी और, तब पहले भाव-तंत्र तक पहुँचते हैं, लेख्या-तंत्र तक पहुँचते हैं और किरण-तरंगों के जगत् में जाते हैं तो अध्यवसाय आता है और फिर कपाय-तंत्र आता है और फिर उस चैतन्य के स्पंदन तक भी पहुँच जाते हैं, जहाँ से चैतन्य के स्पंदन उत्तमता है। वहाँ वहाँ प्रश्न है। एक चैतन्य का महासागर है। उससे बाहर आने ही तो कपाय का महासागर मिलता है, जहाँ से सारी मनिनता बाहर आ रही है। लिन्ग चैतन्य तो मनिन नहीं है, वह तो शुद्ध है, फिर यह अशुद्धता वयों? कपाय सांड है। उस चैतन्य महासागर के चारों ओर एक बलय है—कपाय के महासागर का। एक प्रश्न और होता है कि कपाय का महासागर जब चैतन्य के महासागर को घेर रहा है तो फिर शुद्धि का प्रगत ही कहाँ उठता है। जो कुछ बाहर आएगा वह मारा अशुद्ध ही होगा। शुद्ध-नेतृश्या कौसे होगी? शुद्ध-भाव कौसे होगा? शुद्ध-अध्यवसाय कौसे होगा? कपाय से छनकर और कपाय के रस के साथ मिल-कर जो कुछ भी बाहर आएगा, वह मनिन, अपविव और अशुद्ध ही आएगा। शुद्ध कैसे होता? लेख्या की शुद्धि अध्यवसाय में होती है और अध्यवसाय की शुद्धि मन्द व्यायाम में होती है। लेख्या द्वारा भाव है। यदि अध्यवसाय शुद्ध न हो तो वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अध्यवसाय कभी शुद्ध नहीं होता, यदि कपाय के महासागर जब उस चैतन्य के मनिनों को ताते के लिए गमता न छोड़ दें। कपाय मंद होता है इससे जर्द होता है फि वयस्त-महासागर चैतन्य की रणियों को बाहर बाने रख सकता रहता है। चैतन्य की रणियों द्वारा स्तंष्म में बाहर जानी हैं जबां कपाय तो वैष्णव भूमि पर रहती रहती है। उस स्तंष्म में वैष्णवत्य की शुद्ध रणियों वाहर आ रही हैं और वे शुद्ध द्वारा शुद्ध अध्यवसाय का निर्माण करनी हैं। शुद्ध द्वारा द्वारा शुद्ध होनी है वैष्णव भूमि है और शुद्ध-भाव विकारों की शुद्ध बनानी

हैं—मन, वचन और काया को शुद्ध बनाते हैं।

शुद्ध और अशुद्ध होने के दो कारण बन गए। शुद्ध होने का कारण है कपाय ची मंदता और अशुद्ध होने का कारण है कपाय की तीव्रता।

प्रश्न होता है कि कपाय की मन्दता कैसे हो? इसका एकमात्र उपाय है—साधना। जो व्यक्ति साधना करता है वह व्यक्ति कपाय को मन्द करने का उपक्रम करता है। साधना ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है कपाय का मजबूत मोर्चा शिथिल होने लगता है, निपिक्ष होने लगता है। साधना का मूल प्रयोजन है—कपाय को मंद करना, कपाय की शक्ति को क्षीण करना, चैतन्य की पवित्र धारा में मिल जाने वाले कपाय के अपवित्र जल को निकाल देना जिससे कि वह शुद्ध बन जाए, पवित्र बन जाए। पवित्र शब्द भी समाप्त हो जाए और अपवित्र शब्द भी समाप्त हो जाए, चैतन्य दैसा का दैसा रह जाए। ज्योंकि जब अपवित्र होता है तब पवित्र करने की वात प्राप्त होती है। वास्तव में चैतन्य न अपवित्र है और न पवित्र। वह तो एक प्रकाण है, आलोक है, ज्योति है। वह जैसी है वैसी है। उसके लिए पवित्र या अपवित्र विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है। विशेषण को इसलिए लगाना पड़ता है कि कपाय के द्वारा जब चैतन्य की धारा अपवित्र हो जाती है, मलिन हो जाती है तो उसकी सापेक्षता में चैतन्य को पवित्र कहना पड़ता है। किन्तु हम साधना के द्वारा उस स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि चैतन्य कोरा चैतन्य ही रहे। यह पवित्र और अपवित्र विशेषण उससे कट जाए।

वह साधना क्या है जिसके द्वारा कपाय को मंद किया जा सकता है? यह एक प्रश्न है। इस पर हम सोचेंगे तो यह स्पष्ट प्रतिभासित होगा कि अध्यात्म का समूचा तंत्र, अध्यात्म का समूचा उपदेश और धर्म की सारी गाथाएं कपाय को मंद करने के लिए कही गई हैं। उनका एक मात्र प्रयोजन भी यही है। अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, न्यूनत्व, क्षमा, संतोष, दान, शील—इन सबका उपदेश इसीलिए है कि कपाय मंद हो। उपदेश और उपदेश का अगला चरण है—अभ्यास। यह सबने जान लिया कि कपाय को मंद करने के लिए आत्म-नियंत्रण जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, फिर प्रश्न होता है कि अभ्यास कहाँ से प्रारम्भ करें? सबसे पहले यथा करें? इस प्रश्न पर धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में चर्चाएं हुई हैं तो मनो-विज्ञान ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। दोनों विचारधाराओं की चर्चा कुछ मिलती-जुलती-सी है। अनेक दार्शनिकोंने इस प्रश्न पर चिंतन किया है। मैं वर्तमान के चिंतन को पहले प्रस्तुत कर, बाद में अतीत के चिंतन को प्रस्तुत करना चाहूँगा।

टालस्टाय ने इस प्रश्न का मुन्दर समाधान दिया। उन्होंने कहा—‘अच्छे जीवन की पहली शर्त है—आत्म-नियंत्रण और अत्म-नियंत्रण की पहली शर्त है—उपवास। हमें आत्म-नियंत्रण का अभ्यास उपवास से शुरू करना चाहिए।’ यह है

एक महर्षि का चितन, जो वर्तमान युग का साधक, साधु या महर्षि कहलाता था।

अब हम प्राचीन चितन को लें। भगवान् महावीर ने तपस्या के बारह प्रकार वतलाए। उन्होंने कहा—‘आत्म-नियंत्रण का प्रारम्भ तपस्या से करो, अनशन से शुरू करो।’ प्राचीन चितन और वर्तमान चितन—दोनों एक बिन्दु पर मिल गए। दोनों के कथन में पूर्ण साम्य है। यह यथार्थ है। जो भी आत्मा का अनुभव करने वाले साधक हैं वे दो मार्ग या दो लक्ष्य पर नहीं पहुंचते। सम्प्रदायों के विचार दो दिशाओं में पहुंच सकते हैं, दो दिशागामी हो सकते हैं, किन्तु अध्यात्म के विचार दो दिशागामी नहीं हो सकते। अध्यात्म को बांटा नहीं जा सकता। अध्यात्म के मार्ग से जो पहुंचेगा वह एक ही बिन्दु पर पहुंचेगा।

भगवान् महावीर ने कहा—‘अनशन से आत्म-नियंत्रण शुरू करो। आत्मा के नियंत्रण में सबसे बड़ी वाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है।’ टालस्टाय ने कहा—‘जो भोजन का संयम नहीं करता वह सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा? जो आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को नहीं मिटा पाता, वह आत्म-नियंत्रण कैसे कर पाएगा।’ उन्होंने कहा—‘हमारी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं। यदि हम उन इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते तो उन इच्छाओं के आधार पर पलने वाली दूसरी जटिल इच्छाओं को कभी समाप्त नहीं कर सकते। जीने की कामना, भोजन की कामना, काम की कामना और लड़ने की कामना—ये मौलिक इच्छाएं हैं। सभी प्राणियों में ये बनी रहती हैं। यदि इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इनके आधार पर पलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले मौलिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे, उन पर नियंत्रण करे।’

मौलिक इच्छाओं में पहली है भोजन की इच्छा। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण इच्छा है, क्योंकि हमारे सारे शरीर की क्रियाएं भोजन के द्वारा संचालित होती हैं। हमारी प्राण-ऊर्जा भोजन से बनती है। हम जो खाते हैं, उसका एक रसायन बनता है और वह रसायन हमारे जीवन की प्राण-ऊर्जा बनकर शरीर-तंत्र का संचालन करता है। हमारे शरीर में दो महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं—तैजस्-केन्द्र और शक्ति-केन्द्र। तैजस्-केन्द्र वह है जो खाए हुए भोजन को प्राण की ऊर्जा में बदल देता है। शक्ति-केन्द्र वह है जो प्राण की ऊर्जा का स्रोत है, संग्रह-स्थान है। एक ऊर्जा को पैदा करने का स्थान है और एक ऊर्जा का संग्रह-स्थान है। हम जो कुछ भोजन करते हैं, उसका रसायन बनता है और वह प्राणशक्ति के रूप में बदलता है और उसका सहयोग करता है। जैसा खाते हैं वैसा रसायन बनता है। अब प्रश्न होता है कि कैसा खाएं? क्या खाएं? कितना खाएं? इन प्रश्नों की चर्चा में प्रस्तुत प्रसंग में नहीं करूँगा।

इस सारे चिन्तन से एक महत्त्व का सूत्र उपलब्ध हुआ कि हम आत्म-नियंत्रण का अभ्यास उपवास से शुरू करें, अनशन से शुरू करें, कम खाने से करें और खाने

की वृत्तियों का संक्षेप करके करें और हमारी वृत्तियों को उभारने वाले रसों के संयम के द्वारा करें—उपवास द्वारा करें। यह आत्म-नियंत्रण का पहला सूत्र है।

आत्म-नियंत्रण का दूसरा सूत्र है—शरीर। हम शरीर को साधें यह बहुत आवश्यक है। जब तक स्नायुओं को नया अभ्यास नहीं दिया जाता, स्नायुओं को नई आदत के निर्माण का अभ्यास नहीं दिया जाता तब तक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक 'दि प्रिन्सिपल ऑफ साइकोलॉजी' में मनोवैज्ञानिक ढंग से चर्चा करते हुए लिखा है—'अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी आदतों का बनाना जरूरी है। और अच्छी आदतों के निर्माण के लिए अभ्यास जरूरी है। यदि हम अभ्यास किए विना ही यह चाहें कि हमारी आदतें बदल जाएं तो ऐसा कभी नहीं होगा। असफलता ही हाथ लगेगी।' उन्होंने अच्छी आदतों के निर्माण के लिए कुछ सूत्र प्रस्तुत किए हैं—

१. अच्छी आदतें डालनी हों तो सबसे पहले अच्छी आदतों का चिन्तन करो, अभ्यास करो और पुरानी बुरी आदतों को रोको।
२. अच्छी आदतें डालने के लिए शरीर को एक विशेष प्रकार का अभ्यास दो, ज्योंकि शरीर की विशेष स्थिति का निर्माण किए विना हमारी आदतें अच्छी नहीं हो सकती। स्नायुओं को हमने जो पहले से आदतें दे रखी हैं, उनको यदि हम नहीं बदलते तो वे एक चक्र की भाँति चलती रहती हैं। ठीक समय आता है और मिठाई खाने की बात याद वा जाती है, क्योंकि हमने जीभ को एक आदत दे रखी है। ठीक समय आता है थीर स्नायु उस वस्तु की मांग कर लेते हैं। खाने की, सोचने की, विचार करने की, कार्य करने की जैसी आदत हम स्नायुओं में डाल देते हैं, वैसी आदत हो जाती है। जो लोग बहुत ऊचे मकानों में रहते हैं, वे पहली बार जब सीढ़ियों से उतरते हैं तब बहुत सावधानी से उतरते हैं। दूसरी-तीसरी बार उतरते हैं तो सावधानी कम हो जाती है और जब सीवीं बार उतरते हैं तो कोई सावधानी की जरूरत नहीं होती। पैर अपने आप एक-एक सीढ़ी उतरते हुए नीचे आ जाते हैं। चलने के साथ मन को जोड़ने की बहां आवश्यकता नहीं होती। टाइप करने वाले प्रारंभ में अक्षरों को देख-देख कर टाइप करना सीखते हैं। जब वे अभ्यस्त हो जाते हैं, तब उनकी अंगुलियां अमीट अक्षरों पर पड़ती हैं और जैसा चाहा वैसा टाइप हो जाता है। फिर 'की दोर्ड' को देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अंगुलियां अभ्यस्त हो चुकी हैं। हम स्नायुओं को जैसी आदत देते हैं, वे अपने आप काम करने लग जाते हैं। उस काम की संपूर्ति में मन की संपूर्णता आवश्यक नहीं होती।

इसी प्रमाण में उन्होंने यह भी कहा—जब आदत डालो तो कोई अपवाद मत रखो, छूट मत रखो। पूरी आदत बना दो। आद व्यान किया। स्नायुओं

अप्रियता होगी । मध्यस्थ भाव, समता भाव रहेगा ।

कपायों की प्रतिसंलीनता भी होती है । कषाय चार है—क्रोध, मान, माया-
और लोभ । ये चारों हमारे मस्तिष्क के विशेष केन्द्रों द्वारा वाहर आते हैं, प्रकट होते-
हैं । यह प्रकृति है, स्वभाव है ।

एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ दर्शन करने आया । उसने अपने पिता-
से कहा—‘जो पुस्तक और कापी खरीद कर लाए हैं, उसपर मेरा नाम लिख दें ।’
पिता ने कहा—‘नाम लिखने की क्या जरूरत है ? ऐसे ही इनका उपयोग करो ।’
बच्चे ने धाग्रह किया, पर पिता ने नाम नहीं लिखा । बच्चा गुस्से में आ गया ।
वह हाथ-पैर पटकने लगा । पिता को एड़ियों से भारने लगा । यह देखकर मैं हैरान-
रह गया । इतना छोटा बच्चा और इतना तेज गुस्सा ! यह प्रकृति का अनुदान है ।
यह हमारे जन्म के साथ भीतर से आने वाला अनुदान है । इसके लिए साधना करने-
की जरूरत नहीं, यह स्वर्ण प्राप्त होता है । क्रोध आना स्वाभाविक है । यह प्रकृति-
का अनुदान है । इसमें आशर्च्य नहीं होता ।

साधना के द्वारा जब हम प्रतिसंलीनता करते हैं तब उन संस्थानों को बदल-
डालते हैं, प्रतिसंलीन कर डालते हैं । यह है हमारी साधना की उपलब्धि । यह तब-
हो सकती है जब क्रोध आदि को उभारने वाले निमित्तों से बचा जाए । कुछ लोग-
कहते हैं—‘निमित्तों से बचने की क्या जरूरत है ? कोई जरूरत नहीं है । अपने-
अन्तर्-मैं वैराग्य होना चाहिए । व्यवहार की भूमिका की हमें जहरत क्या है ?
हमें तो निश्चय की भूमिका पर चलना चाहिए ।’ मैं मानता हूँ कि ऐसा करने वाले-
सामान्य जनता के साथ अन्याय करते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं ।
जब निमित्तों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे और निमित्तों से नहीं बचेंगे तो-
कपाय को कभी नहीं छोड़ा जा सकेगा । कपाय के रास्ते को नहीं बदला जा-
सकता । कपाय मंद तभी हो सकते हैं जबकि हम कपाय को उत्तेजित करने वाले-
पदार्थों से भी बचें ।

पास में कोई व्यक्ति एक करोड़ रुपया रखकर कहे कि मुझे संतोष है । कोई-
लोभ नहीं है, ममत्व नहीं है । पढ़ा है मेरा क्या लिया । मैं समझता हूँ, इसके पीछे
शत-प्रतिशत चंचना है । एकाध व्यक्ति लाखों में कोई अपवादस्वरूप निकल सकता
है । अन्यथा धोखा ही धोखा है । वाह्य संवंधों से हम मुक्त नहीं हो सकते और-
कपाय को मंद करने की वात सोचते हैं तो वड़ा धोखा होता है । जो व्यक्ति कपाय-
को मंद करना चाहता है उसे कपाय की प्रतिसंलीनता करनी ही होगी ।

मन, बचन और काया—ये तीनों योग हैं । तीनों क्रिया-तंत्र के अंग हैं । इनका-
काम है—कार्य करना । जो काम करेगा वह चंचल होगा । वह कभी स्थिर नहीं
होगा । आपको कपड़े धोने हैं और आप चाहें कि हाथ स्थिर रहें, हिले ही नहीं,
यह नहीं हो सकता । कपड़े कभी नहीं धुलेंगे । रसोई पकानी है और आप कायोत्सर्गः

कर वैठ जाएं, स्थिर हो जाएं तो रसोई कभी नहीं बनेगी। काम करना है तो चंचलता करनी होगी। मन का काम चंचलता पैदा करना है, वचन और काया का काम भी चंचलता पैदा करना है। चंचलता इसका स्वभाव है, प्रकृति है। प्रतिसंलीनता करनी है तो इनकी दिशा बदलनी होगी। साधना के द्वारा प्रतिसंलीनता कर मन को स्थिर किया जा सकता है, वाणी को स्थिर किया जा सकता है, काया को स्थिर किया जा सकता है। एक ओर है प्रकृति का अनुदान और दूसरी ओर है साधना का प्रयत्न। साधना के प्रयत्न के द्वारा हम प्राकृतिक अनुदानों को बदल सकते हैं। इन प्राकृतिक अनुदानों को बदलने का नाम ही है साधना और यही है कषाय को मन्द करने की प्रक्रिया।

भगवान् महावीर ने आत्म-नियंत्रण के, लेश्या-शुद्धि के, अध्यवसाय-शुद्धि के तीन बाहरी सूक्ष्म बतलाए, जो बाहर से हमें प्रभावित करते हैं। वे तीन सूक्ष्म हैं—उपवास, कायोत्सर्ग और प्रतिसंलीनता। ये तीन बाहरी सूक्ष्म हैं जो हमारे कषाय को मंद करते हैं, लेश्या को शुद्ध करते हैं, अध्यवसाय को पवित्र बनाते हैं। जब ऐसा होता है तब कषाय अपने-आप मंद हो जाता है। कषाय को मंद करने के लिए भी हमें एक क्रम से चलना होगा। यदि सीधे ही हम कषाय को मंद करने चलेंगे तो विफल हो जाएंगे। क्योंकि कषायों का इतना तेज आक्रमण है कि हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि कषायों को पोषण कहां से मिलता है? जिस मार्ग से उन्हें पोषण मिलता है, हम उस मार्ग को नष्ट ही कर डालें। जब पोषण बंद हो जाता है तब कषाय मंद हो जाता है। मन, वचन और काया—ये तीन माध्यम हैं। इन तीनों के द्वारा मैल जब अन्दर पहुंचा है तब इन तीनों के द्वारा कषाय पुष्ट होते हैं। जब हम मन, वचन और काया के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अनशन शुरू कर देते हैं, काय-क्लेश और प्रतिसंलीनता शुरू कर देते हैं तो कषाय को मिलने वाला पोषण बंद हो जाता है। जब पोषण नहीं मिलता, बाहर की रसद प्राप्त नहीं होती, तब धीरे-धीरे मूल नष्ट हो जाता है। उसका बल क्षीण हो जाता है। जब हमारा कषाय मंद होता चला जाएगा तब चैतन्य की रश्मयां अपने-आप बाहर फूटेंगी।

दोनों स्थितियां हमारे सामने हैं। एक स्थिति है—विशुद्ध अध्यवसाय विशुद्ध लेश्या की। दूसरी स्थिति है—अशुद्ध अध्यवसाय और अशुद्ध जैसे-जैसे साधना का बल बढ़ेगा, वैसे-वैसे कषाय मंद होगा। जैसे-जैसे होगा, वैसे-वैसे अध्यवसाय, लेश्या, भाव, कर्म और विचले जाएंगे।

४. स्थूल और सूक्ष्म जगत् का संपर्क-सूत्र

- १ • व्यक्तित्व के दो खंड—
 - स्थूल व्यक्तित्व का नियन्त्रण ।
 - सूक्ष्म व्यक्तित्व का शोधन ।
 - केवल दमन या नियन्त्रण नहीं, शोधन ।
- २ • निषेध से बुरे रंगों के परमाणु भीतर नहीं जाते, फलतः लेश्या शुद्ध ।
- ३ • स्थूल और सूक्ष्म के मध्य दस संस्थान ।
- ४ • सम्पर्क सूत्र लेश्या—
 - यह स्थूल जगत् के कच्चे माल को भीतर पहुंचाता है और सूक्ष्म जगत् के पवके माल को बाहर पहुंचाता है ।

चार

अच्छे जीवन के लिए आत्म-नियंत्रण आवश्यक है। किन्तु वर्तमान का मनो-विज्ञान इस भाषा को कम पसंद करता है। आत्म-नियंत्रण और आत्मदमन की भाषा को पुरानी भाषा माना जाता है। वर्तमान का विचार है कि मनोभावों का दमन नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मनोभावों का नियंत्रण करने से अनेक विकृतियां पैदा होती हैं। यदि स्वाभाविक मनोभावों को दबाया जाता है, रोका जाता है तो वे दमित वासनाएं व्यक्ति को विकृत बनाती हैं और मस्तिष्क में एक प्रकार का पागलपन भर देती हैं। इसलिए उनका दमन नहीं होना चाहिए। इस बात में कुछ सचाई है, किन्तु किसी भी बात को हम पूरे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो स्वयं सत्य का अपलाप हो जाता है। प्रत्येक विचार सापेक्ष होता है। उस सापेक्षता को समझे विना, उसे सर्वांगीण या सार्वभौम विचार मान-कर जैसा होता है वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया जाता है तो सत्य की दिशा उलट जाती है और हम स्वयं असत्य की ओर प्रस्थान कर देते हैं।

यदि केवल दमन ही होता तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। किन्तु अध्यात्म की साधना में दमन के साथ-साथ शोधन की क्रिया भी प्रस्तुत है। कोरा दमन नहीं, कोरा नियंत्रण नहीं। आत्म-नियंत्रण, आत्म-शोधन—दोनों साथ-साथ चलते हैं। आत्म-नियंत्रण आत्म-शोधन के लिए है। आत्म-शोधन उद्देश्य है तो आत्म-नियंत्रण उसका साधन है। आत्म-शोधन साध्य है तो आत्म-नियंत्रण उसका साधन है। किन्तु साधन का उपयोग न किया जाए, यह बात समझ में नहीं आती। साधन का उपयोग बहुत ही आवश्यक है, किन्तु इस बात को भी विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि आत्म-शोधन परम आवश्यक है। शोधन की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। यह निरंतर चालू रहनी चाहिए। आत्म-शोधन या अन्तर्-शोधन की सबसे बड़ी वाधा है—अहं। यह बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति कुछ अर्जित किए हुए होता है। न जाने उसने कितनी गलत आदतें, गलत संस्कार अर्जित किए हुए हैं। किन्तु आदमी उनका प्रायश्चित्त करना नहीं चाहता, उनका शोधन, परिमार्जन और परिष्कार करना नहीं चाहता और इसलिए नहीं चाहता कि अहं उसमें वाधक

वन वैठा है। 'मैंने यह किया और मैं यह स्वीकार करूँ कि यह अच्छा, नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता।' अहं की एक ग्रन्थि भन में निर्मित हो जाती है। उसका शोधन नहीं होता, प्रायश्चित्त नहीं होता। वह आदमी दुष्कृत की गर्ही नहीं कर सकता, सुकृत की अनुमोदना नहीं कर सकता और अध्यात्म की शरण में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति दुष्कृत की गर्ही नहीं कर सकता, सुकृत की अनुमोदना नहीं कर सकता और अध्यात्म की शरण में—आत्मा की शरण में नहीं जा सकता, वह प्रायश्चित्त नहीं कर सकता। अहं की सबसे बड़ी वाधा है इसमें। जो अहं भाव से पीड़ित है वह विनम्र नहीं हो सकता। वह दूसरों को सहयोग नहीं दे सकता, संयम का भी योग नहीं दे सकता। उसे पग-पग पर अहं सताने लग जाता है। अहं जब विस्तृत होता है तब ममकार बन जाता है। ममकार कोई अलग नहीं है। अहं का ही एक रूप है—ममकार। जब अहंकार किसी के साथ घनिष्ठ संवंध जोड़ लेता है, किसी को घनिष्ठ मान लेता है तो वह अहंकार ममकार के रूप में बदल जाता है। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर—यह जो मेरापन है वह सारा ममकार है। यह अहं का ही विस्तार है। अहंकार ने शरीर, धन आदि के साथ घनिष्ठा स्थापित कर ली, और वह ममकार के रूप में बदल गया। इस अहं का विसर्जन कठिन होता है। आत्म-शोधन में यह बहुत बड़ी वाधा है। जो व्यक्ति आत्म-नियंत्रण करता है, उसके लिए यह सुविधा हो जाती है कि जब वह आत्म-नियंत्रण करता है, वाहरी आवेगों और वाहरी निमित्तों से बचता है तो अहं के शोधन की, अहं के विसर्जन की संभावनाएं उसके सामने सहजरूप में उपस्थित हो जाती हैं।

अहं की ग्रन्थि बहुत जटिल होती है। उसको तोड़ना कठिन होता है। उसके शोधन की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण सूक्त हैं—स्वाध्याय और ध्यान। इन दो साधनों के द्वारा अहं की ग्रन्थि को काटा जा सकता है। अपने-आपको जानने का प्रयत्न, अध्ययन, मनन और चिन्तन स्वाध्याय है। जब यह ज्ञान और चिंतन एकाग्रता की निरिन्तत विन्दु पर पहुँचता है, तब वह ध्यान बन जाता है। ज्ञान और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान एक ही हैं; वास्तव में, दो नहीं हैं। केवल मात्रा का अन्तर है, परिमाण का अंतर है। पानी पानी है और पानी वरफ भी है। पानी में और वर्फ में फोई अन्तर नहीं है। फिल्तु विन्दु का अन्तर है। तापमान के एक विन्दु पर पानी पानी है और अंतिम विन्दु पर वही वरफ बन जाता है, जम जाता है। पानी तरल है। ज्ञान तरल है। वरफ ठोस है, सम्पन है। ध्यान ठोस है, सघन है। ज्ञान ही एक दिन्दु पर पहुँच पर ध्यान बन जाता है। ज्ञान और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान—ये दो ऐसे साधन हैं जो अहं की ग्रन्थि को तोड़ डालते हैं।

नियंत्रण की प्रक्रिया आत्म-शोधन के साथ-साथ चलती है। जहां कोरा आत्म-नियंत्रण होता है, आत्म-शोधन नहीं होता, कोरा उपवास होता है, कोरा कायकलेश होता है, कोरी प्रतिसंलीनता होती है, यदि उनके साथ ज्ञान और ध्यान नहीं होता तो मनोविज्ञान की बात सही हो जाती है कि कोरे आत्म-नियंत्रण से मनुष्य में विकृतियां उभरती हैं। किन्तु अध्यात्म के साक्षात् दण्डाओं ने किसी एक ही सत्य का प्रतिपादन नहीं किया और किसी एकांगी साधना का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने समग्र मार्ग प्रस्तुत करते हुए कहा कि आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए, उन्नत जीवन की उपलब्धि के लिए, अच्छे जीवन के निर्माण के लिए आत्म-नियंत्रण और आत्म-शोधन—दोनों जरूरी हैं। दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। दोनों का योग होना चाहिए।

महावीर से पूछा गया—‘क्या ज्ञान मोक्ष का मार्ग है ?’

‘नहीं, कोरा ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है।’

‘क्या दर्शन मोक्ष का मार्ग है ?’

‘नहीं।’

‘क्या चारित्र मोक्ष का मार्ग है ?’

‘नहीं।’

आप आश्चर्य करेंगे यह सुनकर कि महावीर कहते हैं—‘ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है। दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है। चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है।’ फिर प्रश्न होता है कि मोक्ष का मार्ग कौन-सा है ? फिर महावीर से पूछा—‘भंते ! तो फिर मोक्ष का मार्ग कौन-सा है ?’ महावीर ने कहा—‘अकेला ज्ञान, अकेला दर्शन, अकेला चारित्र मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते। जब तीनों का योग होता है तब मोक्ष घटित होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र—तीनों का समन्वित प्रयोग ही मोक्ष का मार्ग है। ये अकेले मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते।’

हम किसी एक बात को पूरी बात न मान लें। हम इस दृष्टि से सोचें कि कोई व्यक्ति किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, चिन्तन प्रस्तुत करता है तो वह मात्र एक स्फुर्लिंग है, एक चिनगारी है। हम एक चिनगारी को पूरी आग न मान लें, उसे मात्र एक चिनगारी ही मानें। आग और है, चिनगारी और है। एक कथन को, एक प्रतिपादन या चिन्तन को पूरा न मानें।

हम कोरे आत्म-नियंत्रण को भी साधक न मानें और कोरे आत्म-शोधन को भी साधक न मानें। जब आत्म-नियंत्रण और आत्म-शोधन—दोनों हैं, दोनों का योग होता है, तब अध्यात्म की यात्रा सम्पन्न होती है और हम जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं।

हम दो व्यक्तित्वों में जीते हैं। एक है स्थूल व्यक्तित्व और दूसरा है सूक्ष्म व्यक्तित्व। इस भौतिक शरीर से, पौद्गलिक शरीर से जो हमारा संवंध है वह

यारा स्थूल व्यक्तित्व है। हमें जीव माना जाता है। हम जीव हो तब में उहूँ के जाते हैं, इत्तिए कि हमारे स्थूल जरीर में कुछ ऐसी जिधाएँ हैं, जिन्हें हमें केवल प्राणी में निश्चित है, पदार्थ में नहीं। पदार्थ और प्राणी के बीच एक देवरेडा खोंची गई। पदार्थ अचेतन होता है और प्राणी अचेतन। अचेतन और अचेतन के बीच देवरेडा खोंची गई, कुछ लक्षण निर्धारित किए। जिनमें उन्हें लक्षण निश्चित हैं वह प्राणी, और जिनमें वे लक्षण नहीं निश्चित वह प्राणी नहीं होता। वह स्थूल है, पदार्थ है, पांचवांशिक है। हमारे इस स्थूल जरीर की जो भेद रेडार है वे हमें जीव प्रनापित करती हैं। हम उनके द्वारा जीव प्रनापित होते हैं। हमारा सूक्ष्म व्यक्तित्व, हमारी दृष्टि में, जीव नहीं है, जाता नहीं है। हमारा स्थूल व्यक्तित्व, हमारी दृष्टि में, जीव है, जाता कोई माने दा न माने। सूक्ष्म व्यक्तित्व के स्थूल व्यक्तित्व के लिए इस संस्थानों का निर्माण किया गया है। गर्भ, इन्द्रिय, कपाय, नेत्रिया, धोग, उत्पान, ज्ञान, वर्जन, चारिद्र और वेद। ये सभी वहैं-वहैं मंस्थान हैं, कारबाने हैं। याज के वहैं-वहैं-वहैं कारबाने इनकी तुलना में छोटे पड़ते हैं। छोटे भी इनके एक ओर एकत्र हो तो एक ओर गई है। बहुनान की दृष्टिया के सारे जीवोंगिक मंस्थानों के लांकड़े हम एकत्र करें और एक स्थूल जरीर के कारबाने के लांकड़े एकत्र करें तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती। हमारे जरीर का कारबाना सबसे बड़ा प्रनापित होता। याज के विज्ञान के सूक्ष्मता के जगत् में हमारी दृष्टि को इनका समझ कर डाला है कि याज दुर्गार्ता सूक्ष्म वातों को पुष्ट करने के लिए या प्रनापित करने के लिए हमारे नन में नहम है, तनिक भी हितक नहीं है। विज्ञान की इस सूक्ष्म जगत् की याकूब से पूर्व हम स्वयं प्राचीन तथ्यों को सचेट कहने में हितकरे थे, और कमीज़सी मन-हृत्त्वत उनकी व्यायामों के प्रति संदेह भी अभियन्त कर देने थे। विन्दु हम विज्ञान के बहुत आभासी हैं। याज के वैज्ञानिकों ने इनके सूक्ष्म तथ्य प्रतिवादित किए हैं कि उन्हींने में प्रतिपादित गूर्म सत्यों को प्रकट करने में हमें कोई संकेत नहीं होता। एक ऊपरान्ता उत्तराहरण प्रस्तुत करता है। हमारा यह गणित के से बना है, कोणांगुदों से निर्मित है। गणिर की प्रत्येक कोणिका पृथक अवदान का निर्माण करती है। ये सेल बहुत सूक्ष्म हैं। एक ठंडे की लंबाई में २५०० कोणांगुदों की सीधी लाइन में रखा जा सकता है। हम सूक्ष्म कोणांगु एक बड़ा कारबाना है। उसके ग्यारह विनाम हैं। उसका असामा विन्दु-नूब है, जो विन्दु-पैदा करता है। प्रत्येक कोणिका के पास असामा निर्मित है जो सामा निर्मित करता है। पृथक अवदान है। उसका ग्यारह विनाम है। जो ग्रन्त वस्तुओं को रसायन में बदल देता है, उसे विन्दुनित करता है। प्रत्येक सेल में उस हजार से लेकर एक लाख तक विन्दु विन्दे हूए होते हैं। पृथक असामा द्वारा जाए तो छिंटन के एक्स्ट्राक्टोर्सीट्रिया उसे दो हजार लग. १००० विन्दु सम्भव हैं। ऐसे अन्दरों-बाहरों सेल हैं हमारे जरीर में। इनकी उपरान्त विन्दे

करें, किमे करें? यह स्थूल शरीर के सूक्ष्म जगत् की बात है। सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत् ऐसा होगा, कहना भी नहीं की जा सकती। जिस सूक्ष्म शरीर ने इस स्थूल शरीर पर निर्माण किया, उस स्थूल शरीर की यह सूक्ष्म रचना है। तो जो निर्माण है सूक्ष्म शरीर, उसकी सूक्ष्मता पर विचार करें तो शायद आदमी का निर्माण काम ही नहीं कर पाएगा। बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत्।

इस सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर के शाय संपर्क स्थापित करने के लिए गा मात्र स्थूल शरीर को जीव का व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए दस बड़े कारणों द्योल रखे हैं। इन कारणों का काम यह है कि जो सूक्ष्म आए उसे स्थूल बनाना, उसे स्थूल शरीर में भेजना और इस स्थूल शरीर के व्यक्तित्व को जीव का स्वरूप प्रशस्त करना, जिसमें कि इस प्रकार सर्वे कि यह जीव है।

यही का कारणाना ऐसा है जो किसी को मनुष्य, किसी को पशु, तिर्यक्च बनाता है, प्राणियों नी जितनी जातियाँ-उपजातियाँ हैं वे सारी इसी की निर्मितियाँ हैं। वह अमुक-अमुक प्रकार के ऐनों का निर्माण करता है और आपने-अपने ढंग के प्राणी निर्मित हो जाते हैं। हर प्राणी के सेन भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं और वे भिन्न-भिन्न प्रकार का काम करते हैं। वही बुद्धि से काम नेना पड़ता है इस गति के कारणाने को। एक छोटा-गा उदाहरण नें। इन वर्षों में मच्छरों को मारने के लिए १०० रु० ८०० रु० का प्रयोग किया गया। प्रारंभिक वर्षों में मच्छर कम होने लगा। फिन्नु मन्दारम् के कोशाणुओं ने ऐसा परिवर्तन कर लिया हि अब १०० रु० ८०० रु० का पर भी अधिक अमर नहीं होता। वे बढ़ रहे हैं।

इन्द्रियों का भव्यान भी बढ़ा रहा है। यह मारी इन्द्रियों का काम मंचालित करता है। यी इसका लक्षण है—मति। जो मनुष्य होता है, पशु होता है, हम उसे भी मालती है। यी का इमरा नहाना है—इन्द्रिय। जिसके इन्द्रियों होती है यह भी भी होता है। प्रतीत में इन्द्रिया नहीं होती।

हैं। पदार्थ का लक्षण ही है—रश्मियों को विकीर्ण 'करना। हर पदार्थ से रश्मियां निकलती हैं। रश्मियां औरा बन जाती हैं। एक ईंट की रश्मियां भी ओरा बन जाती हैं। ऐसी श्विति में हम यह कैसे मानें कि जिसमें लेश्या होती है, ओरा होती है वह जीव होता है और जिसमें लेश्या नहीं होती, ओरा नहीं होती वह अजीव होता है? यह लक्षण परिचय नहीं होता। इसमें दोष है। ओरा जीव और अजीव दोनों में होती है। यह प्रश्न आता है। हम इसे समझें। यह सच है कि पदार्थ में, अजीव में भी ओरा होती है। किन्तु उसकी ओरा निश्चित होती है, वह बदलती नहीं। जीव की ओरा अनिश्चित होती है, बदलती रहती है। कभी उसके रंग अच्छे हो जाते हैं और कभी बुरे हो जाते हैं। और यह इसलिए होता है कि उसको बदलने वाला लेश्या-तंत्र, भाव-तंत्र भीतर विद्यमान है। पदार्थ में कोरा विकिरण होता है, किन्तु उस विकिरण को बदलने वाला, परावर्तित करने वाला कोई तत्त्व भीतर नहीं है। प्राणी की ओरा वा निगमक तत्त्व है—लेश्या। लेश्या के दो भेद हैं—द्रव्य-लेश्या और भाव-लेश्या, पांडगिक-लेश्या और आत्मिक-लेश्या। वह निरंतर बदलती रहती है। पदार्थ में यह परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के बारे में एक वैज्ञानिक निश्चित बात यह सकता है, निश्चित नियम बना सकता है। उनके नार्वेशीम नियमों की व्याख्या की जा सकती है किन्तु प्राणी के बारे में कोई निश्चित नियम या व्याख्या नहीं की जा सकती। यह भाग्यमाना वंधा है। यह इच्छा हो तो छाया करे, इच्छा न हो तो न करे, ऐसा कभी नहीं होता। यदि यह वंधा है तो निश्चित ही छाया करेगा, किन्तु प्राणी के लिए यह परिवर्तन नहीं होता। वह जब इच्छा होती है तब धूप में वैठ जाता है। और जब इच्छा होती है तब धूप में चला जाता है। गर्भी लगती है तो छाया में भा जाता है और गर्भी लगती है तो धूप में चला जाता है। प्राणी की यह स्वतंत्रता है। अ-प्राणी की यह स्वतंत्रता नहीं होती। रेनगाढ़ी के लिए यह संभव नहीं है कि यह यह गोंगे, ये पटरी पर इतने भील चली हूँ, अब सीधे रास्ते से चलूँ। किन्तु एक छोटी-सी लीटी के लिए यह संभव है। प्राणी की जो विशेषता है, वह है उसकी स्वतंत्रता। उसकी विचार की स्वतंत्रता। विचार का संस्थान, भाव का नंस्थान इतना यहाँ है कि उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, उसकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। आज के मनोवैज्ञानिकों के हजारों-हजारों प्रयोगों और अन्यपत्तों के बादजूद उन्हीं प्राणियों के लिए कोई नार्वेशीम नियम नहीं बनाया जा सकता और भविष्य में भी नहीं बनाया जा सकेगा।

प्राणी और पदार्थ में यह मौलिक अन्तर है कि पदार्थ की ओरा निश्चित होती है। उसमें परिवर्तन बरने वाला नियमक द्रव्य नहीं होता। प्राणी की ओरा द्रव्यनी रहती है। उसमें कभी बाला, जनी जान, कनी रीना, दर्नी नीला और कनी कर्मों रें उभर आता है। जाईनी के भव्यों के अनुग्रह रें द्रव्यते रहते हैं। आदर्शी गुरुओं

में होता है तो लाल रंग का ओरा बन जाता है। आदमी शांत होता है तो सफेद रंग का ओरा बन जाता है। ओरा प्राणी का लक्षण है, किन्तु इसके साथ इतना और जोड़ देना चाहिए कि परिवर्तनशील ओरा प्राणी का लक्षण है। लेश्या प्राणी का लक्षण है।

यह लेश्या का बहुत बड़ा कारखाना है। कषाय की तरंगें और कपाय की शुद्धि होने पर आनेवाली चैतन्य की तरंगें—इन सब तरंगों को भाव के सांचे में ढालना, भाव के रूप में इनका निर्माण करना, और उन्हें विचार तक, कर्म तक, क्रिया तक पहुंचा देना—यह इसका काम है। यह सबसे बड़ा संस्थान है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में यदि कोई संपर्क-सूक्ष्म है तो वह बास्तव में है लेश्या। लेश्या ही संपर्क सूक्ष्म है। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के द्वारा जो कुछ बाहर से आता है वह कच्चा माल होता है। लेश्या उसे लेती है और उसे कषाय तक पहुंचा देती है। वह कच्चा माल कषाय के संस्थान तक पहुंच जाता है। यह लेश्या का काम है। फिर भीतर से वह कच्चा माल पक्का बनकर आता है। जो कर्म जाता है वह फिर विपाक होकर आता है। भीतरी स्राव जो रसायन बनकर आता है उसे लेश्या फिर अध्यवसाय से लेकर हमारे सारे स्थूल तंत्र तक, मस्तिष्क और अन्तःस्रावी ग्रन्थियों तक पहुंचा देती है। इसलिए यदि हमारे स्थूल शरीर में लेश्या के प्रतिनिधि संस्थानों को खोजें, उनके बिक्री संस्थानों को खोजें तो जितनी अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ हैं, ये सारी लेश्या की प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, बिक्री संस्थान हैं। उनके सेल्स मैनेजर वहां बैठे हैं। अच्छे ढंग से उनके माल की सप्लाई कर रहे हैं।

अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के जो स्राव हैं, वे कर्मों के स्राव भीतर से आते हैं लेश्या के द्वारा और यहां आकर वे सारे बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सारा बाहरी व्यक्तित्व उससे बदल जाता है। जो भी माल आता है, वह रंगीन आता है। भीतर जाता है वह भी रंगीन जाता है। बाहर आता है वह भी रंगीन आता है। कषाय शब्द का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। कषाय का अर्थ होता है—रंगा हुआ। लाल रंग से रंगा हुआ या केवल रंगा हुआ। रंगे हुए कपड़े को काषायिक कपड़ा कहा जाता है।

भीतर में बड़ा रंग का संस्थान है—कषाय का तंत्र। वहां जो कुछ भी जाता है वह रंगीन होकर ही जाता है। वहां बिना रंग की कोई वस्तु नहीं है। वहां जो कुछ है वह सारा रंगा हुआ है। रंग ही रंग का सारा संस्थान है। वहां से जो कुछ भी आता है वह रंगकर आता है। जितने कर्म के परमाणु हैं वे सारे के सारे रंग के परमाणु हैं।

एक आदमी हिंसा का विचार करता है तो काले रंग के परमाणुओं को आकर्षित करता है। एक आदमी असत्य बोलता है तो काले रंग के परमाणुओं को आकर्षित करता है। गन्दले काले रंग के परमाणु। एक आदमी ब्रोध करता है तो

मनिन आनं रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। रंग दो प्रकार के होते हैं। एक है— प्रशासनिक रंग और अन्य है—गन्दना रंग। एक आदमी माया का व्यवहार करता है तो गन्दने की रंग के परमाणु आकर्षित करता है। जो आदमी बुरे कार्य करता है, अद्वागह पाप-ग्रन्थानों का सेवन करता है, उनका आचरण करता है तो गन्दा काना, गन्दा भीला, गन्दा नान, गन्दा पीला, गन्दा शफेद पांचों गन्दे रंगों के परमाणु आकर्षित होते हैं। और वे भीतर के कथाय-तंत्र तक पहुँच जाते हैं। उनको पहुँचने याचाहे हैं—विषय। गंदक-मूल्य का नारा कायं नेष्या के हाथ में है। फिर वहाँ से पक-पकालर जब विषाक होता है, पूरे रंग कर जब वे बाहर आते हैं, तब नेष्या उन्हें नेष्यालाली है। और उन्हें बाहर तक पहुँचा देनी है, विषाक तक पहुँचा देनी है। जो विषाक हमारे भिन्न-भिन्न अन्तःकारी ग्रन्थियों में आधार भिन्न-भिन्न प्रकार की खेड़ाएँ और प्रतिशिल्पाएँ प्रकट करते हैं। यह रंग का नदर से बड़ा संस्थान है—नेष्या-नदर। हमारा नारा जीवन-तंत्र रंगों के आधार पर चलता है। आज के गतोंदोस्तियों और वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि व्यक्ति के अन्तर्मन को, धर्मज्ञन गत को और मरिताक को नदर में अधिक प्रभावित करने वाला है—रंग। रंग हमारे समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह बहुत बड़ी सचाई है। हम नदर में उपासा रंग से प्रभावित होते हैं। यह ना भी प्रभाव होता है, गन्ध और स्पर्श पा भी प्रभाव होता है, किन्तु यह जितना प्रभाव लाता है, उतना कोई नहीं लाता। इस नदर रंगों से प्रभावित होने हैं। हमारे जीवन का नंवंध रंग से है। हमारी मृगु का नवध रंग ने है। हमारे पुनर्जन्म का नंवंध रंग से है। हमारे भावों-विचारों का नंवंध रंग से है। जिस प्रकार के रंग हम घटृण करते हैं, वैसी ही हमारे भाव दल जाते हैं। जब इस हिस्सा का विचार करने हैं तब काले रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। और इसारी आत्मा के परिषाम भी काने रंग के अनुहृष्ट वन जाते हैं। जैसा सानिध्य मिलता है, देना वन जाता है। एकटिक के सामने जैसा रंग आता है, यह वैसा ही दीखते रुग जाता है। एकटिक का अपना रंग नहीं होता। उससे गामने आगा रंग आता है तो वह काना, पीला रंग आता है तो वह पीला, लाल रंग आता है तो यह लाल और नीला रंग आता है तो वह नीला वन जाता है। आत्मा के परिषामों का अपना ऐसी रंग नहीं होता। सामने जिस रंग के परमाणु आते हैं। आत्मा जो परिषाम उस रंग में दृढ़ जाता है। वैसी ही हमारी भाव-विद्या हो जाती है। यह मन्दसाम हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि से संबद्ध संपर्क है। इसलिए इस विषय पर हमें दृढ़ विज्ञान से चर्चा करनी होगी।

साथ—सबके साथ रंगों का सम्बन्ध है। स्थूल व्यक्तित्व का ऐसा कौन-सा विषय है, जिसके साथ रंग का सम्बन्ध न हो। यह अंगुली हिलती है। इसका भी अपना रंग है। एक अंगुली का नाम है—तर्जनी। इसका काम है तर्जना देना। इसे ही तर्जनी क्यों कहा गया? दूसरी अंगुली को तर्जनी क्यों नहीं कहा गया? इसे तर्जनी इसलिए कहा गया कि इसका रंग तर्जना देने वाला है। हमारी अंगुलियों का, हमारे घुटने और एड़ी का, हमारे पैर तक के भाग का रंग, हमारे कटि तक के भाग का रंग और शरीर के ऊपरी भाग का रंग अलग-अलग है। सारा रंग ही रंग है। जो भी हम खाते हैं, वह आहार-पर्याप्ति के कोष में जाता है। आहार-पर्याप्ति की वे कोशिकाएं सबसे पहले उन परमाणुओं को रंग और रूप में बदलती हैं। उनको रंग देती हैं। हमारा सारा विचार रंग से संबद्ध है। हमारा चिन्तन, स्मृति रंग से संबद्ध है। सारे व्यक्तित्व को लेख्या रंग प्रभावित किए हुए हैं। इसलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है।

पांचवां संस्थान है—योग का, प्रवृत्ति का। यह भी व्यक्तित्व के पहचान का एक लक्षण है। योग का अर्थ है—चंचलता। प्रश्न हो सकता है कि यह जीव का लक्षण कैसे बन सकता है? चंचलता परमाणु में भी होती है। इसका उत्तर है कि जीव में स्वेच्छाकृत चंचलता होती है, परमाणु में स्वेच्छाकृत चंचलता नहीं होती। प्राणी का लक्षण केवल गति नहीं है, किन्तु स्वेच्छाकृत गति है। गति अचेतन में भी होती है। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें गति न हो। पुद्गल और जीव—दोनों में गति है। पुद्गल में स्वेच्छाकृत गति नहीं होती, जीव में स्वेच्छाकृत गति होती है। इसलिए योग भी जीव का एक लक्षण है।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग और वेद—ये पांचों ही जीवों के लक्षण हैं। जिसमें ज्ञान होता है, वह जीव और जिसमें ज्ञान नहीं होता, वह अजीव। जिसमें देखने की शक्ति होती है, वह जीव और जिसमें देखने की शक्ति नहीं होती, वह अजीव। जिसमें अनियत आचरण की क्षमता होती है, वह जीव और जिसमें यह क्षमता नहीं होती, वह अजीव। जिसमें उपयोग की शक्ति—चाहे तो जानना और न चाहे तो न जानना—होती है वह जीव और बाकी अजीव। जिसमें दूसरे प्राणी को उत्पन्न करने या जन्म देने की क्षमता होती है, वह जीव और जिसमें यह क्षमता नहीं होती, वह अजीव।

ये दस ऐसे संस्थान हैं जो हमारे सूक्ष्म व्यक्तित्व और स्थूल व्यक्तित्व के बीच में बैठे हैं और सूक्ष्म शरीर से आने वाले अनुदान को उपलब्ध कर, उसे स्थूल बनाकर स्थूल व्यक्तित्व में संप्रेषित करते हैं और स्थूल व्यक्तित्व को एक जीव होने का गौरव प्रदान करते हैं।

५. जो व्यक्तित्व का सूपान्तररा करता हैं [३]

१ • अविन वदनना चाहता है :

अनिवार्य के तीन धग—भाव, विचार, व्यवहार
सोधन, नियन्त्रण, नियन्त्रण

२ • शोधन की महत्वपूर्ण प्रगति—नेत्रया या भावकेन्द्र पर जागना।

३ • भावकेन्द्र अमः और दाता—दोनों से प्रभावित होता है।

४ • युरे के नियन्त्रण ने वाहरी तस्व नेत्रया को प्रभावित नहीं करते तब भावकेन्द्र
प्रभावितशामी होकर भीतर में आने वाले युरे त्वावां या विषाकों को निपिलय
यानामार चाहत फैलने में मर्मर्य होता है।

५ • अशुद्ध भाव

० शुद्ध—अजितेन्द्रिय	शुद्ध भाव
० शुद्ध—चापना	पद्म—जितेन्द्रिय
० शुद्ध—मन की असाति	संज्ञ—स्थिरता
० नीत—रस लांगुपता	पद्म—मन की शांति
० पापोत—दक्षता	पद्म—रस विजय
	तंजस्—सरलता

पांच

हर समझदार व्यक्ति अपना रूपान्तरण चाहता है, व्यक्तित्व को बदलना चाहता है। जो जैसा है, वैसे में संतुष्ट नहीं होता, और अच्छा बनना चाहता है। व्यवित्तत्व के रूपान्तरण की यह भावना प्रत्येक व्यक्ति में सतत् बनी रहती है। परन्तु प्रश्न है कि व्यक्तित्व का रूपान्तरण कैसे हो और कहाँ हो? वह कौन-सा केन्द्र है जहाँ पहुँचकर व्यक्ति रूपान्तरित हो सकता है, अपने व्यक्तित्व को बदल सकता है। व्यवित्तत्व का आवरण और व्यक्तित्व का रूपान्तरण—ये दो बातें हैं। व्यक्तित्व पर आवरण तो जब चाहे तब डाला जा सकता है। जो व्यक्ति जैसा है, वैसा दीखना कम पसन्द करता है। वह बहुत बार अपने व्यक्तित्व पर आवरण डाले रहता है जिससे कि दूसरा उसे पहचान न सके, उसके असली रूप को जान न सके। आदमी को यथार्थ में जान पाना, पहचान पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि उसके व्यक्तित्व पर इतने आवरण हैं कि कोई भी मूलरूप को नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आपको क्रोधी या मायावी प्रदर्शित करना नहीं चाहता। क्रोधी व्यक्ति अपने आपको अत्यन्त शान्त और क्षमाशील प्रदर्शित करना चाहता है और मायावी व्यक्ति भी अपने आपको बहुत ऋजु और सरल दिखाना चाहता है। वह स्वयं को बीतराग जैसा दिखाना चाहता है। इस प्रकार व्यक्तित्व पर अनेक आवरण डाल दिए जाते हैं। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। व्यक्ति को समझने में जितना धोखा होता है उतना धोखा और किसी को समझने में नहीं होता। पदार्थ को समझने में कोई धोखा नहीं होता। किन्तु व्यक्ति को सही रूप में पहचानने में धोखा होता है और इसका कारण स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर आवरण डालना जानता है। उसमें आवरण डालने की तीव्र वुद्धि है, क्षमता है।

व्यक्तित्व का रूपान्तरण दूसरी बात है। रूपान्तरण करना आवरण डालना नहीं है। रूपान्तरण में व्यक्ति विलकुल बदल जाता है। व्यक्ति नया हो जाता है। उसका नया जन्म हो जाता है। फिर आवरण डालने की बात नहीं होती। रूपान्तरण से व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा

पांच

हर समझदार व्यक्ति अपना रूपान्तरण चाहता है, व्यक्तित्व को बदलना चाहता है। जो जैसा है, वैसे में संतुष्ट नहीं होता, और अच्छा बनना चाहता है। व्यक्तित्व के रूपान्तरण की यह भावना प्रत्येक व्यक्ति में सतत् बनी रहती है। परन्तु प्रश्न है कि व्यक्तित्व का रूपान्तरण कैसे हो और कहां हो? वह कौन-सा केन्द्र है जहां पहुँचकर व्यक्ति रूपान्तरित हो सकता है, अपने व्यक्तित्व को बदल सकता है। व्यक्तित्व का आवरण और व्यक्तित्व का रूपान्तरण—ये दो बातें हैं। व्यक्तित्व पर आवरण तो जब चाहे तब डाला जा सकता है। जो व्यक्ति जैसा है, वैसा दीखना कम पसन्द करता है। वह बहुत बार अपने व्यक्तित्व पर आवरण डाले रहता है जिससे कि दूसरा उसे पहचान न सके, उसके असली रूप को जान न सके। आदमी को यथार्थ में जान पाना, पहचान पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि उसके व्यक्तित्व पर इतने आवरण हैं कि कोई भी मूलरूप को नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आपको क्रोधी या मायावी प्रदर्शित करना नहीं चाहता। क्रोधी व्यक्ति अपने आपको अत्यन्त शान्त और क्षमाशील प्रदर्शित करना चाहता है और मायावी व्यक्ति भी अपने आपको बहुत ऋजु और सरल दिखाना चाहता है। वह स्वयं को वीतराग जैसा दिखाना चाहता है। इस प्रकार व्यक्तित्व पर अनेक आवरण डाल दिए जाते हैं। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। व्यक्ति को समझने में जितना धोखा होता है उतना धोखा और किसी को समझने में नहीं होता। पदार्थ को समझने में कोई धोखा नहीं होता। किन्तु व्यक्ति को सही रूप में पहचानने में धोखा होता है और इसका कारण स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर आवरण डालना जानता है। उसमें आवरण डालने की तीव्र वुद्धि है, क्षमता है।

व्यक्तित्व का रूपान्तरण दूसरी बात है। रूपान्तरण करना आवरण डालना नहीं है। रूपान्तरण में व्यक्ति बिलकुल बदल जाता है। व्यक्ति नया हो जाता है। उसका नया जन्म हो जाता है। फिर आवरण डालने की बात नहीं होती। रूपान्तरण से व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा

पृथग् यस सम्बन्धादेही और बुरा अच्छा बन नहींता है। हमारी इस दुनिया में एक भी व्याल पेंगा जानी है जिसे नवंयोग अच्छा कहा जा सके और तोई भी व्यक्ति पेंगा जानी है जिसे नवंयोग बुरा कहा जा सके। हम जिसको बुरा मानते हैं वह अच्छा भी है और जिसे अच्छा मानते हैं वह बुरा भी है। अच्छाई और बुराई—दोनों वायन्याय वर्करी हैं। अगर इन्हान्हा होता है कि अच्छाई जब उभरकर आपसे आती है, तब बुराई तीखे रह जाती है और जब बुराई उभरकर आपसे आती है, तब अच्छाई तीखे रह जाती है। इसलिए हमें उस विन्दु की योजना करनी है, जहाँ व्याल वा व्यान्याय होता है या जो व्यक्ति को रूपान्तरण करता है। पोरा ये कहा निष्पत्ति पूर्ण हित है—लेखा। लेखा एक पेंगा चैतन्य-केन्द्र है, जहाँ पशुओं पर व्यक्ति का रूपान्तरण प्रटित होता है।

जीवन के नीन स्तर है—

- (१) व्यान्याय का स्तर—यह स्थूल शरीर के साथ कार्यजील रहता है।
- (२) लेखा का स्तर—यह विग्रह शरीर—तीजस् शरीर के साथ काम करता है।
- (३) अध्यवसाय का स्तर—यह अति नूर्धम शरीर (कर्म शरीर) के साथ काम करता है।

परीक्षीय है—स्थूल शरीर, नूर्धम शरीर और अति-नूर्धम शरीर। स्थूल परीक्षीय है वौशिक, नूर्धम परीक्षीय है—तीजस् वीर अति-नूर्धम शरीर है—कर्म परीक्षीय है। इन नीन स्तरों पर नीन चेतना-केन्द्र काम होते हैं। एक है—चित्त चेतना-केन्द्र, द्वयग है—लेखा चेतना-केन्द्र और तीजस् है—अध्यवसाय चेतना-केन्द्र। ये नीन नीन स्तरों पर काम करते हैं। चित्त जा नवंय द्वारे स्थूल शरीर से है। लिपि, जन और इन्द्रिय—ये सब स्थूल शरीर से संबद्ध हैं। लेखा हमारे स्थूल से गवद्य होती है। जिसके मस्तिष्क है, मुपुन्ना है, नाड़ी-मस्त्यान है उनके लेखा होती है जिन जीवों में ये नहीं होते, केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है उनके भी कोश होती है। यह लेखा-नीन, जाऊँ का निर्माण करने वाला तंत्र, यह चेतना-केन्द्र वर्षने इष्टिस मन्त्रिय और जाग्रत होता है। जिसनी स्नायविक किया है, वह जागे शरीर से नहीं रखती है। मन का लोई भी विचार, जाणी की कोई भी प्रश्नित, शरीर से लोई भी किया और बुद्धि या चित्त की कोई भी किया इस परीक्षन के लिए, न्यायिक धोने के लिना नहीं होती। जानवाही स्नायु और विद्यायी स्नायु—दोनों शरार के स्नायु इन सारी कियाओं का नियादन करते हैं, किन्तु लेखा के लिए इन स्नायुओं की लोई अपेक्षा नहीं है। यह स्नायु के पार, स्थूल परीक्षीय पर है। यह यह भी स्पष्ट ही जाता है कि आत्म-नियंत्रण स्नायविक और पर होता है और आत्म-योग्यता के स्तर पर होता है।

इसरे व्यक्तिगत के नीन पहुँच है—जाय, विचार और अव्यवहार। व्यवहार

हमारी कायिक प्रवृत्ति है, कायिक आचरण है। विचार हमारी मानसिक प्रवृत्ति है। ये दोनों स्नायुओं से संबंधित हैं। मन भी स्नायविक प्रवृत्ति है और व्यवहार भी स्नायविक प्रवृत्ति है। भाव स्नायविक प्रवृत्ति नहीं है। वह लेश्या-केन्द्र से होने वाली क्रिया है। व्यवहार का नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार वैठो, इस प्रकार मत बैठो। यह करो, वह मत करो। यह सब स्नायविक प्रवृत्ति है। इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। वाणी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है और मन की क्रिया पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। किन्तु जब हम व्यवहार और विचार से परे जाते हैं, भाव के जगत् में प्रवेश करते हैं और उस चेतना के स्तर पर जाते हैं, वहां नियंत्रण कोई काम नहीं देता। हमारा यह प्रसिद्ध सूत्र है कि योग की प्रवृत्ति का, क्रियात्मक आचरण का त्याग किया जा सकता है, प्रत्याख्यान किया जा सकता है। किन्तु आन्तरिक मलिनता का त्याग और प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। प्रमाद और कपाय का त्याग कभी नहीं होता। जितना त्याग या प्रत्याख्यान होता है, वह सारा-का-सारा क्रियात्मक प्रवृत्तियों का होता है। वह क्रियात्मक प्रवृत्ति चाहे मन की हो, चाहे वाणी की हो चाहे शरीर की हो। सारा नियंत्रण, त्याग या प्रत्याख्यान होगा इन क्रियात्मक प्रवृत्तियों का। इसका तात्पर्य है कि स्थूल शरीर की चेतना तक, स्थूल शरीर की स्नायविक क्रिया तक ही त्याग और नियंत्रण होता है। इससे आगे जो कुछ होता है, वह स्वाभाविक होता है, किया हुआ नहीं होता। भाव और लेश्या के क्षेत्र में नियंत्रण नहीं, शोधन होता है। हमारे में नियंत्रण का भी अवकाश है—और शोधन का भी अवकाश है। हम नियंत्रण के क्षेत्र में शोधन को न लाएं और शोधन के क्षेत्र में नियंत्रण को न लाएं। दोनों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। एक है—नियंत्रण की सीमा, एक है—शोधन की सीमा।

बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नियंत्रण करना चाहता है, शोधन करना चाहता है, संकल्प करना चाहता है, अच्छा होना चाहता है, फिर भी वह वैसा हो नहीं पाता। त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है, दृढ़ निश्चय करता है, परन्तु जो अन्तर में बदलना चाहिए वह नहीं बदलता, जो आदत बननी चाहिए वह नहीं बनती। तब व्यक्ति के मन में प्रश्न उभरता है। इसका अच्छा समाधान इस लेश्या-तंत्र के द्वारा मिलता है। यदि हम स्नायविक स्तर पर इस प्रश्न को समाहित करना चाहें तो हो नहीं सकता। स्नायविक स्तर की साधना केवल नियंत्रण तक ले जाती है, रूपान्तरण तक नहीं ले जाती। जब तक हम रूपान्तरण के स्तर पर नहीं जागते, वहां चित्तवृत्तियों का जागरण नहीं करते, चेतना को वहां नहीं जगाते, वहां ध्यान नहीं करते तो नियंत्रण हो सकता है, शोधन नहीं हो सकता। जब तक शोधन नहीं होता तब तक नियंत्रण की बात सामने आती रहेगी, रूपान्तरण नहीं होगा। रूपान्तरण के बाद नियंत्रण समाप्त हो जाता है, क्योंकि

सामिलन अक्षित के निए नियंत्रण की बहरत नहीं होती । वो अक्षित शुल्क-
भेद्या में, पद्मनेत्रया में और तेजो-नेत्रया में भ्रुंच चढ़ता है, उस अक्षित के निए
नियंत्रण की यात बहुत कम आवश्यक होती है । वो अक्षित नियंत्रण का रूप
उसके निए नियंत्रण की बहरत ही नहीं होती । वो अक्षित अन्तर्मुखी अवस्था में
बता जाता है, उसके निए नियंत्रण लिप्त करता है । उस उक्त लिप्ताके छोड़
प्राप्ति व्यक्तिगत रूप नियंत्रण नहीं है बल्कि, उस उक्त लिप्ताके छोड़ का
प्राप्ति वे शोषी सीकता है इसलिए उस शोषी का छोड़ होते भ्रुंच है ॥१३॥

उस लेश्या की चेतना के स्तर पर कैसे पहुंचे ? किस माध्यम से पहुंचे जिससे कि हमारा व्यक्तित्व रूपान्तरित हो ?

हमें यह यात्रा स्थूल-शरीर से ही प्रारंभ करनी होगी । हमें रंग का सहारा लेना होगा । रंग हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं । वे व्यक्तित्व पर जितना प्रभाव डालते हैं, उतना प्रभाव और कोई नहीं डालता । रंग स्थूल व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं और सूक्ष्म व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं । वे तैजस्-शरीर और लेश्या-तंत्र को भी प्रभावित करते हैं । रंगों का अखंड साम्राज्य है । वे अध्यवसाय ठेट कर्म-शरीर तक काम करते हैं । आगे-पीछे चारों ओर रंग ही रंग हैं । यदि हम रंगों की क्रियाओं और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझ लेते हैं तो व्यक्तित्व के रूपान्तरण में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है । जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उदात्त करना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है तो वह सबसे पहले कुछ नियंत्रण करेगा । वह अपने मन और इन्द्रियों पर नियंत्रण करेगा । उनको वश में रखेगा । क्योंकि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, मन पर नियंत्रण नहीं होता, वह समाज में प्रतिष्ठित नहीं होता । इसलिए वह सबसे पहले मन और इन्द्रियों पर एक सीमातक नियंत्रण करता है । समाज में जो व्यक्ति ऊंचे आसन पर है, उनके लिए नियंत्रण करना और अधिक जरूरी हो जाता है । इसीलिए राजनीति के आचार्यों ने कहा—‘जो बड़ा नेता होना चाहे वह सबसे पहले अपने पर नियंत्रण करे । अपनी इन्द्रियों पर काबू रखे । वे इन्द्रियों पर इतना नियंत्रण तो अवश्य ही रखे जिससे समाज में उनकी उच्छृंखलता प्रदर्शित न हो । लोग व्यवहार को देखते हैं । अध्यात्म सामने नहीं आता । व्यवहार सामने आता है । व्यवहार में भद्वा रूप प्रदर्शित न हो, यह अपेक्षित है । व्यक्ति में भद्वापन हो या न हो, समाज उसकी चिंता नहीं करता । वह इस बात की चिंता करता है कि व्यक्ति का भद्वापन प्रदर्शित न हो । नेता अपनी जबान पर इतना नियंत्रण तो अवश्य ही रखे कि वह ऐसी बात कभी न कहे जिससे सारा संगठन विघटित हो जाए । कभी-कभी नेता की एक बात पर सारा शासन-तंत्र ही टूट जाता है । नेता अपने मन पर भी इतना नियंत्रण तो अवश्य ही रखे कि वह अपने मन में आया और वह कर ले—ऐसा कभी न हो । कुछ सोच-समझकर करे ।

मन पर, इन्द्रियों पर, वाणी पर और व्यवहार पर एक सीमित नियंत्रण की अपेक्षा सबको रहती है । किन्तु यदि कृष्ण लेश्या है, काले रंग के परमाणु निरंतर खींचे जा रहे हैं तो व्यक्ति के भाव बुरे बन जाते हैं । वह हजार बार ऐसा निश्चय कर ले, राजनीति का पाठ पढ़े, उपदेश सुने, फिर भी जब प्रसंग आएगा तो वह ऐसी बात कह देगा, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है । ये काले रंग के परमाणु उसे संचालित कर रहे हैं । काले रंग के परमाणुओं से बनने वाले भाव उसे

मनानि कर रहे हैं। ये भाव विचारों पर उत्पन्न हैं। विचार व्यवहार पर उत्पन्न है और व्यक्ति जांदा या न जांदा, वह अभद्र वास कह दी जाती है। व्यक्ति ने मन में किस विषय प्राप्त है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए वा।

उत्तर के कांत रंग के परमाणु, नींवे और ग्राहीतर्थ के परमाणु आर्द्धित होते हैं और वे नेत्रया-तंत्र और भाव-तंत्र की प्रताक्षित करते हैं, ताकि व्यक्ति या विचार हो या न हो, वह वैसा व्यवहार करता जांदा या न जांदा, किन्तु वह व्यवहार पठित हो जाएगा। इस विन्दु पर आकर पुरुषार्थ की भीमा हो भी समझा दी जाता है। यह एक ऐसा विन्दु है जहाँ पुरुषार्थ की सीमा का मूल्य समझ में आ सकता है।

आत्मा का कर्तृत्व स्वतंत्र है। आत्मा का कर्तृत्व स्वतंत्र है। हम पुरुषार्थ करते हैं, किन्तु पुरुषार्थ की भीमा है विचार, सूक्ष्म शरीर तत्त्व, स्वायत्तिक जगत् यह। ताकि भाव या जगत् है, वहाँ पुरुषार्थ की भीमा बदल जाती है। यदि हमारे द्वारे परमाणुओं का नियन्त्रण हो रहा है, या हम वैसा नियन्त्रण करते जा रहे हैं तो वह आपना सूक्ष्म पुरुषार्थ—जित, मन और शरीर-तंत्र का पुरुषार्थ—वहाँ आप नहीं हो सकता। सूक्ष्म-जगत् में हमें कभी-कभी ऐसा नहीं है, कि पुरुषार्थ तो नहा, किंतु यह नहीं जाती है। यह तारी व्याख्या सूक्ष्म-जगत् में नहा जाहता है। यह इस प्रकार-जगत् में, सूक्ष्म-शरीर की भीमा नकार करने यादी भेजना में समाधान निकाल जाता है। यहाँ उसला समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आपरे पुरुषार्थ के लियरीत, परपार्थ करने तो भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो

सामने है कि क्या नियंत्रण से ही जितेन्द्रिय हो सकते हैं ? बहुत कठिन वात है । जितेन्द्रिय होने के लिए इस नियंत्रण कक्ष से परे जाकर रंगों की समस्या पर भी हमें ध्यान देना होगा । यदि हम चमकते हुए पीले रंग के परमाणुओं को आकर्षित करते हैं तो जितेन्द्रिय होने की स्थिति निर्मित हो जाती है । हम जितेन्द्रिय हो सकते हैं । पञ्च-लेश्या का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जितेन्द्रिय हो जाता है । कृष्ण और नील लेश्या में रहने वाला व्यक्ति अजितेन्द्रिय होता है । कृष्ण-लेश्या का सूक्ष्म है—अजिंदिओं—अजितेन्द्रिय । पञ्च लेश्या का सूक्ष्म है—जिंदिओं—जितेन्द्रिय । ये दोनों प्रकार के परमाणु एक दूसरे से विरोधी हैं । जब तक काले रंग के परमाणुओं का प्रभाव बना रहता है, तब तक हम जितेन्द्रिय नहीं हो सकते । जब पीले रंग के परमाणुओं से हमारा लेश्या-तंत्र और आभा-मंडल सक्रिय होता है, तब हमें जितेन्द्रिय होने की सुविधा मिल जाती है ।

सूक्ष्म और स्थूल—इन दोनों जगत् के प्रभावों को समझकर हम अपने व्यक्तित्व के रूपान्तरण के लिए प्रयत्न करें । वह पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होगा ।

६. जो व्यक्तिका का रूपान्तररण करता है [२]

- १ • भावना या असमृद्धि—जरा, नहीं, फिर-मिसांग।
- २ • एवो का ध्यान
- ३ • विनाय ध्यान
- ४ • गोंदेर देखा
- ५ • फैलकरोड़ देखा
- ६ • वै-न्यानिक द्वारा शुल्क-आगरण
 - ७ • आधिकारिक—हृसा, गर्व, दूरदूरी, अवश्यता, अविवरत।
 - ८ • मालपूर शुष्टि, पृष्ठा, ईर्ष्या, पेंगुन, नरजी, भय, गोह, कराय, दियाद, तुषाण।
 - ९ • कानारा—जोन, गोडफोइ, सपट, चितके, आशा, फिला, ममता, दंभ, देव-व, अविवेक, जहुकार, गर्मीदा।

छुड़

आत्म-नियंत्रण से परे आत्म-शोधन की चर्चा प्राप्त होती है। आत्म-शोधन हुए विना आत्म-नियंत्रण का कार्य पूरा नहीं होता। आत्म-नियंत्रण की अपनी सीमा है। आदत को बदलने के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए, व्यक्तित्व के पूरे रूप को बदलने के लिए आत्म-शोधन आवश्यक है। यह कोरा दिशान्तरण नहीं है मार्गान्तरीकरण नहीं है किन्तु सम्पूर्ण रूपान्तरीकरण है। मनोविज्ञान का मार्गान्तरीकरण एक मौलिक वृत्ति के मार्ग को बदलने की प्रक्रिया है, उसको दूसरी दिशा में ले जाने की पद्धति है। एक व्यक्ति में काम की मनोवृत्ति है। जब वह वृत्ति उदात्त बनती है, तब कला, सौन्दर्य आदि अनेक विशिष्ट अभिव्यक्तियों में बदल जाती है। आत्म-शोधन में दिशान्तरण नहीं होता, किन्तु स्वभाव मूलतः बदल जाता है। उसका सर्वथा विलय हो जाता है और वह वृत्ति बदल जाती है। उसके तीव्र विपाकों, तीव्र अनुभवों को इतना मंद कर दिया जाता है कि वह आदत या स्वभाव कोई वाधा उपस्थित न कर सके।

प्रश्न है कि आत्म-शोधन की प्रक्रिया क्या है और उसके सूच कीन-कीन-से हैं? अध्यात्म के साधकोंने, आत्म-द्रष्टाओंने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें कीं और तीमार्ग है कि उनकी खोजें आज भी हमारे समक्ष सुरक्षित हैं।

गनुभ्य की जितनी आदतें बनती हैं, उनका मूल उद्गम-स्थल है—ग्रन्थि-तंत्र। हमारे शरीर के दो मुख्य भाग हैं—एक है नाड़ी-तंत्र और दूसरा है—ग्रन्थि-तंत्र। नाड़ी-तंत्र में हमारी मारी वृत्तियां अभिव्यक्त होती हैं, अनुभव में आती हैं और फिर व्यवहार में उत्तरती हैं। व्यवहार, अनुभव या अभिव्यक्तीकरण—यह सब नाड़ी-तंत्र का काम है। किन्तु आदतों का जन्म, आदतों की उत्पत्ति ग्रन्थि-तंत्र में होती है। जो हमारी अन्तःक्षारी ग्रन्थियां हैं, उनमें आदतें जन्म लेती हैं। वे ही आदतें मस्तिष्क के पास पांचती हैं, अभिव्यक्त होती हैं और व्यवहार में उत्तरती हैं। इमीलिंग विज्ञान के क्षेत्र में एक नए शब्द का प्रचलन हुआ है—‘न्यूरो एण्डो-ग्रीन मिस्टर्स’। इसका अर्थ है—ग्रन्थि-तंत्र और नाड़ी-तंत्र का संयुक्त कार्य।

हमारी वृत्तियां, भाव या आदतें—इन सबको उत्पन्न करने वाला सशक्त

वरहे - नियम-स्व। यह तक नियम-स्व गुद सी होता, जब तक प्रादनी में परिकल्पना नहीं तभी तक। नियम-स्व को गुद होता जायगा है। उसको गुद करने की प्रक्रिया (उत्तमता में परिकल्पना करने की) कि भवुति कहाँ जन्म लेती है, ये एक बड़ा प्राद (दीर्घी)। यह एक उत्तम अवधि की शरण की है तो, उसे गुद रखना ही है। ये अवधि में एकी विधि ही आयी है।

कुरी जातियों के स्वतंत्रत्वे वासी नाम देखा है।—इसनीला, गीतनीला
मौज और बिला। तथा, अपारी भाका, अट, अख्ति दोनों की भाषणा,
दूसरा, पाताली द्वितीयी भीड़ुला, प्रभाट, आनंद—यादि जिन्हें देख लूं,
वे चार जातियों के नाम हैं इसने लिए हैं। अब इस चूहानशीर में जल-देवताओं
के नाम हैं जाल तो जिसे देख लूं तुम्हारा है। अधिकार-विभिन्ना
(प्रतिवेदनों) और जल-गीत्या (गीता श्लोक) — वे जो व्रतिका हैं—ये इन
नामों के अनुकूल नामों की भाषण हैं। इन नामों वेद्याओं के भाषण यहाँ उपलब्ध हैं।

जब जन-साक्षरता को दूषित, गोप्या के विभाग की दृष्टि कार संसाक्ष के पर्याप्त वाहनों की दृष्टि—जन सेवा के लिए न हो जाए तो उसका असुविधा बढ़ जाएगा।

अजितेन्द्रियता—ये कृष्ण-लेश्या के परिणमन हैं। ईर्ष्या, कदाग्रह, अज्ञान, माया, निर्लज्जता, विषय-वासना, क्लेश, रस-लोलुपता—ये नील-लेश्या के परिणमन हैं। वक्रता—वक्र आचरण, अपने दोषों को ढाँकने की मनोवृत्ति, परिग्रह का भाव, मिथ्या दृष्टिकोण, दूसरे के मर्म को भेदने की वृत्ति, अप्रिय कथन—ये कापोत-लेश्या के परिणमन हैं।

शरीर-शास्त्रीय दृष्टि, योग-शास्त्रीय दृष्टि और लेश्या-दृष्टि—इन तीनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें। लेश्या के सिद्धान्त में जो तीन लेश्याएँ हैं, योग-शास्त्र की दृष्टि में जो तीन चक्र हैं और शरीर-शास्त्रीय दृष्टि में जो एड्रीनल और गोनाड्स ग्रन्थियाँ हैं—इन सबका वर्णन समान-सा है। लेश्या का सिद्धान्त मानता है कि सारी आदतें तीन लेश्याओं में जन्म लेती हैं। योग-शास्त्र मानता है कि सारी आदतें तीन चक्रों में जन्म लेती हैं और शरीर-शास्त्र के अनुसार ये सारी आदतें दो ग्रन्थियों में जन्म लेती हैं। अद्भुत समानता है—तीनों प्रतिपादनों में। यह सत्य स्पष्ट हो गया कि सारी बुरी वृत्तियाँ पेड़ के पास वाले स्थान से लेकर नाभि के स्थान तक या हृदय के स्थान तक जन्म लेती हैं। इतना ही स्थान है इनका। इस सत्य को समझ लेने पर वदलने की बात को समझने में बहुत सरलता हो जाती है।

शरीर के तीन भाग हैं—एक भाग है नाभि के ऊपर का जो ऊर्ध्वलोक कहलाता है। दूसरा भाग है—नाभि का जो तिर्यग् लोक या मध्यलोक कहलाता है। तीसरा भाग है—नाभि के नीचे का जो अधोलोक कहलाता है। आदतें या बुरी वृत्तियाँ अधोलोक में या मध्यलोक में जन्म लेती हैं। ऊर्ध्वलोक का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। जब हमारा मन, हमारे विचार नाभि से नीचे के भाग में शक्ति-केन्द्र तक दौड़ते रहते हैं, तब बुरी वृत्तियाँ उभरती हैं, विकसित होती हैं। उनका चक्र चलता रहता है। वाद में आदत बन जाती है। उसका अनुबंध हो जाता है। हमें सबसे पहले यह करना होगा कि हमारा मन नाभि-केन्द्र पर न जाए। उसे हृदय से ऊपर के भाग में याक्ता करने दें। उसी भाग में लगाए रखें। हमारा मन यदि ऊपरी भाग की याक्ता में लगा रहेगा तो आदतों में स्वतः परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मन की याक्ता जितनी नीची होगी उतनी ही आदतें विगड़ती जाएंगी। आदतों का बनना-विगड़ना मन के रमण और विरमण पर आधूत है। मन शरीर के नीचे के भाग में रमण न करे, विरमण करे। मन शरीर के ऊपरी भाग में रमण करे, विरमण न करे।

भगवान् महावीर ने कहा—‘जे आसवा ते परिसवा । जे परिसवा ते आसवा ।’ जो आने के मार्ग हैं, वे ही जाने के मार्ग हैं और जो जाने के मार्ग हैं, वे ही आने के मार्ग हैं। आने और जाने के मार्ग दो नहीं होते। जो भीतर जाते हैं, वे बाहर आते हैं और जो बाहर आते हैं, वे भीतर जाते हैं। जिनका आसव होता है, उनका परिसव होता है। यह चक्र वरावर चलता रहता है।

नेताजी यस्मिन्दर के बीच वाराण्सी भीमज्ञयाचार्य ने राजस्थानी भाषा में एक प्रश्न के सवाल की उत्तर दिया गया है। वह प्रश्न है—

‘विष कर्म भा उदयकी, दगे कोइ पर प्राण।

प्रिय दूसरे, महिला, प्राप्तानि यात् पापादाम् ॥

— फिर कर्म कुड़ाये ने हिंसा कर्म के परमाणु विभाग में आए, अन्त द्वारा वी
प्राप्तवाया के द्वारा रखाए राए, मनि-कृष्ण वहाँ रहने और व्यक्ति में हिंसा करने
की आवश्यकता उत्पन्न थी। व्यक्ति में वह जास्ता प्रस्तु वर्ती चोर वह व्यवहार में हिंसा
करने का लक्ष्य था। अब वह व्यक्ति पर में हिंसा करने उनसा थीं फिर उसे छोड़ द्या व्यष्ट
द्या, फिर वे उसी वर्गमाण, जाप और धीरोगत खेल गए। पुरा पर्वत बल गया।
इस ने बड़ी दूरी तक उपर जाने में राह दी और फिर ने उनसा आकर्षण होता
होता देखा। अब वहाँ ने वाहा निरुक्ता लिया होता है।

कोई गंध नहीं होता और कोई स्पर्श नहीं होता। क्योंकि ये सब चैतन्य की रश्मियां हैं।' रमण है—पुद्गल और विरमण है—चैतन्य। रमण है रंगयुक्त और विरमण है रंगमुक्त। जब हम प्रेक्षा-ध्यान का प्रयोग करते हैं, राग और द्वेष—दोनों से छूटकर केवल जानने की दृष्टि से शरीर को देखते हैं, तब हम केवल जानते हैं, देखते हैं। प्रेक्षा-ध्यान में हम केवल जानें, देखें, कोई संवेदन न करें। प्रिय-अप्रिय की कोई प्रतिक्रिया न करें। केवल जानें, देखें। समताभाव, तटस्थभाव और द्रष्टा भाव को बनाए रखें। जब मन की यह स्थिति बनती है और रागद्वेष से शून्य मन से हम शरीर की प्रेक्षा करते हैं, तब हमारा समूचा शरीर करण बन जाता है—पारदर्शी, शुद्ध और पवित्र बन जाता है। हम ग्रन्थि-तंत्र को बदलने के लिए चैतन्य केन्द्रों की प्रेक्षा करते हैं। समूचे शरीर को करण करने के लिए पूरे शरीर की प्रेक्षा करते हैं।

स्थानांग सूक्त का एक मार्मिक प्रसंग है। जिस व्यक्ति को अतीन्द्रिय ज्ञान—अवधिज्ञान उपलब्ध होता है, तो वह अवधिज्ञानी व्यक्ति किस माध्यम से देखता है? देखने का माध्यम है—शरीर। शरीर से ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी। अवधिज्ञान की ज्योति प्रकट होगी तो इसी शरीर से होगी। यह शरीर एक ढक्कन है। हम जब तक केवल स्नायविक संस्थान के भीतर यात्रा करते हैं और स्नायु-संस्थान के माध्यम से ही जानते-देखते हैं, तब तक शरीर करण नहीं बनता। किन्तु जब हम प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं—अपाय विचय, विपाक विचय, और संस्थान विचय का प्रयोग करते हैं, तब यह समूचा शरीर करण बन जाता है। जब पूरा शरीर करण बन जाता है, तब अवधिज्ञानी पूरे शरीर से देखता है। यदि पूरा शरीर करण नहीं बनता, केवल दायां कंधा करण बनता है, तब अवधिज्ञानी दाएं कंधे से देखेगा। यदि बांयां कंधा करण बनता है, तो अवधिज्ञानी बांए कंधे से देखेगा। यदि आगे के चैतन्य-केन्द्र करण बन गए तो अवधिज्ञानी आगे से देखेगा। यदि पीछे सुषुम्ना में कोई चैतन्य-केन्द्र करण बन गया तो अवधिज्ञानी पीछे से देखेगा। यदि सहस्र केन्द्र जागृत हो गया, करण बन गया तो अवधिज्ञानी सिर से देखेगा। यह देशावधिज्ञान है। जिसे देशावधिज्ञान प्राप्त होता है, वह व्यक्ति शरीर के किसी एक हिस्से से जानता-देखता है। जिसे सर्वावधिज्ञान प्राप्त होता है, वह पूरे शरीर से जानता-देखता है।

हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में करण बनने की क्षमता है। वह पारदर्शी, निर्मल और तैजस् बन सकती है और सारे आवरणों को दूर कर सकती है। आवश्यकता है करण बनाने की।

करण के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है शरीर का संस्थान और दूसरा अर्थ है चित्त की धारा, परिणाम। हमारे इस भौतिक शरीर का सबसे बड़ा शासक है—चित्त। समूचे शरीर में चित्त का शासन है। मन उसी का अनुचर है, उसके पीछे चलने

शुरू हो जाता है। पद्म-लेश्या में और बदलता है। शुक्ल-लेश्या में पहुँचते ही आवृत्ति कम हो जाती है, केवल तरंग की लम्बाई मात्र रह जाती है। एक ही तरंग बन जाती है। इस लेश्या में व्यक्तित्व का पूरा रूपान्तरण हो जाता है।

व्यक्तित्व के रूपान्तरण की प्रक्रिया है—लेश्या का शोधन, लेश्या के शोधन की प्रक्रिया है—ग्रन्थि-तंत्र का शोधन और ग्रन्थि-तंत्र के शोधन की प्रक्रिया है—प्रेक्षा-ध्यान। यदि हम प्रेक्षा-ध्यान के द्वारा समूचे शरीर को देखते हैं तो पूरा शरीर करण बन जाता है। वह एक दर्पण बन जाता है। निर्मल दर्पण। उसकी मलिनता समाप्त हो जाती है। उसका आवरण समाप्त हो जाता है। ज्ञान का आवरण और दर्शन का आवरण समाप्त हो जाता है। शक्ति का प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। मोह या मूर्च्छा का बलय टूट जाता है। देखने की शक्ति तीव्र हो जाती है। जिस व्यक्ति की विद्युत् तीव्र हो गई, तैजस् तीव्र हो गई, उस व्यक्ति के देखने मात्र से शरीर वज्र-सा बन जाता है।

गान्धारी की घटना है। गान्धारी ने दुर्योधन को देखा। उसके देखने मात्र से दुर्योधन का शरीर वज्रमय बन गया। वह अभेद बन गया। उसे भेद पाना कठिन हो गया।

कौरव पांडव का युद्ध हुआ। दुर्योधन अजेय था। उसको मार पाना सरल नहीं था, क्योंकि उसका समूचा शरीर वज्रमय था। सबके सामने कठिन समस्या थी। भीम और अर्जुन जैसे बीर भी उसे मार डालने में असमर्थ थे। वज्र पर कोई प्रहार टिकता नहीं। आखिर रहस्यदाता वहां थे। उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि यदि दुर्योधन को मारना है तो उसके कटिभाग पर प्रहार करो, क्योंकि वह भाग वज्रमय नहीं बन सका है। जब गान्धारी ने दुर्योधन की ओर देखा, तब दुर्योधन कटिवस्त्र पहने हुए था। शरीर का जितना भाग निर्वस्त्र था, वह गान्धारी की तैजस्-शक्ति से वज्रमय बन गया और कटिभाग, जो सवस्त्र था, वह ज्यों का त्यों रह गया। पांडवों को रहस्य का पता लगा। दुर्योधन की कटि पर प्रहार हुआ और वह तत्काल धराशायी हो गया।

तैजस्-शरीर के विकास के साथ निकलने वाली रश्मियों के कारण, दर्शन-शक्ति के कारण शरीर का कण-कण वज्रमय बन जाता है। जब निर्मल मन, निर्मल चेतना और तैजस्-शरीर की विकसित शक्ति के साथ शरीर के कण-कण को देखा जाता है, तब शरीर का आवरण टूटता है और शरीर के सोये हुए चैतन्य-केन्द्र जाग जाते हैं। उनकी मूर्च्छा टूट जाती है और शक्ति का बलय बन जाता है।

स्वभाव को बदलने के लिए, व्यक्तित्व को रूपान्तरित करने के लिए दो साधन हैं—ज्ञान और दर्शन, केवल जानना और केवल देखना। इनसे बड़ा कोई साधन नहीं है। साधन वही होता है, जो उपादान होता है। मिट्टी के घड़े का सा गन मिट्टी ही हो सकती है। यदि मिट्टी न हो तो मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता, चाहे

विनाही दृष्टि कुपर हो, जाक ही, प्रेरणी यारे उत्तरण हो। उत्तरण
शक्ति। उत्तरण के विना दृष्टि भित्ति नहीं होता।

मूल उत्तराधिकार है—जानका बीर देखना। अहमा का मूल रक्षणात्मक है—जानका बीर देखना। कब तक आय जाते हैं, इनके देखने बीर जानका थी यह भिन्न सा उत्तराधिकार है। यद्यपि यह विषय या वस्तु एवं देखने बीर जानका थी वह जानका नामाचरण विहार विषय-कल्प न हो जानका है, ऐसा ही तरह विषय-कल्प युद्ध की लड़ाई है। यद्यपि विषय, मूर्छांशुभूष्य बीर प्रसिद्धेष्ठ थी जिसे गृह्ण ही नहीं करका है। यद्यपि विषय-कल्प युद्ध होता है, कब जानके जान विषय-कल्प युद्ध नहीं करका है। क्षेत्रफल निष्पालवर के पास जी युद्ध जाना है, यद्यपि-कल्प है माध्यम से यी जाना है।

वह काम जी भी आकर्षण है। वह इसलिए हि का पूर्णता रखा है। उसके
में याना है। काम में व्याप में यानी है। यानी पर उस यानी है। यानुर यानुर
प्रयोग करने के लिए यह अधिक योगदान भरती है। यह यह अवसरा ही उत्तम है।

यही गोपनीय है कि यहां पर्याप्त विद्या से निपत्ति होने का अवसर भी नहीं मिल सकता है।

१. वृत्तियों के सूपान्तररण की प्रक्रिया

० भावना के प्रयोग की पद्धति—

- कायोत्सर्ग (आँटो रिलेक्शेसन)
- अनुप्रेक्षा (सेल्फ एनेलिसिस, आँटो एनेलिसिस)
- भय क्या है ? क्या मैं परिष्कार कर सकता हूँ ?
मैं क्या होना चाहता हूँ ?
परिणाम-भय से शक्ति क्षीण होती है ।
- अपाय विचय
- विपाक विचय
- दर्शनकेन्द्र पर ध्यान
- विवेक
- आत्मसूचन-भावना (आँटो सजेशन)
- व्युत्सर्ग-विसर्जन (आँटो थेरेपी)
- प्रतिपक्ष-भावना का चित्त-निर्माण ।

साधन के द्वारा साध्य को जाना जाता है। धूएं को देखकर व्यक्ति अग्नि का अनुमान करता है। वैसे ही उपर्युक्त लक्षणों को देखकर जान लिया जाता है कि अमुक आदमी में धर्म सिद्ध हो चुका है। जिस व्यक्ति में उदारता है, दाक्षिण्य है—हर बात को अनुकूलता से स्वीकार करता है, पापजुगुप्ता है—वुरी आदतों के प्रतिघृणा है, दूसरों की वुरी आदतों के प्रति ही घृणा नहीं, अपनी वुरी आदतों के प्रति भी घृणा है। उसका ज्ञान इतना निर्मल होता है कि हर बात सत्यपूर्ण ही निकलती है, उसके मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकलती। वह जो सोचता है, जो भाव करता है ज्ञान की प्रत्येक रश्मि, प्रत्येक धारा निर्मलता के साथ प्रवाहित होती है—ये लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति में धर्म सिद्ध हो गया है। पांचवा लक्षण है कि धार्मिक व्यक्ति जनप्रिय होता है। यह हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। चार लक्षण होने जरूरी हैं।

लेश्या के परिवर्तन के द्वारा ही जीवन में धर्म सिद्ध हो सकता है। जब कृष्ण, नील और कपोत—ये तीन लेश्याएं बदल जाती हैं और तेजो, पद्म और शुक्ल—ये तीन लेश्याएं अवतरित होती हैं, तब परिवर्तन घटित होता है। लेश्याओं के बदले विना जीवन नहीं बदल सकता। लेश्याएं कोरी जानने की नहीं हैं। यह कोरा तत्त्वज्ञान नहीं है। ये बदलने के सूक्ष्म हैं। ये रटने के सूक्ष्म नहीं, अभ्यास के सूक्ष्म हैं।

मार्क्स ने ठीक ही कहा था—दर्शन कोरा ज्ञान देता है, जीवन को परिवर्तित नहीं करता, रूपान्तरित नहीं करता। आज धर्म का रूप भी लगभग ऐसा ही हो गया है कि व्यक्ति जीवन भर धर्म का आचरण करता है और मौत के समय उसका लेखा-जोखा किया जाए तो परिणाम शून्य आता है। जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जो विचार बनते हैं, वे अस्वाभाविक नहीं लगते कि धर्म केवल प्रियता की अनुभूति देता है, कोरा ज्ञान देता है, व्यक्ति को बदलता नहीं हैं। किन्तु यह सचाई धर्म के आवरण की सचाई है, धर्म की सचाई नहीं है। यह केवल धर्म की चमड़ी की सचाई है, धर्म की आत्मा की सचाई नहीं है। धर्म की सचाई यह है कि जो धार्मिक होगा वह निश्चित ही बदलेगा। यह हो नहीं सकता कि धार्मिक हो, धर्म का आचरण करता हो और पहले से न बदला हो। धार्मिक होने का अर्थ ही है कि परिवर्तन की यात्रा पर चल पड़ना, रूपान्तरण की ओर प्रस्थान कर देना। यहां से तेजो-लेश्या की यात्रा शुरू हो जाती है, अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। जब तेजो-लेश्या की यात्रा प्रारम्भ होती है तब अध्यात्म के स्पंदन जाग जाते हैं। जब अध्यात्म के स्पंदन जागते हैं, तब परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। इस प्रकार के सुखद स्पंदन जागते हैं कि जिन स्पंदनों का जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत बड़ी भ्रान्ति टूट जाती है। व्यक्ति ने मान रखा था कि सुख पदार्थ से ही उपलब्ध होता है। किन्तु तेजो-लेश्या





सारीरिक दृष्टि में प्रतातित जैसा हो जाता है। हमारे भीतरी जगत् में घटित होने वाली घटनाएँ बड़ी विचित्र हैं। हम केवल वाहरी निमित्तों से ही नहीं होते। वाहर के जम्मने जाते हैं, हम नीमार पड़ जाते हैं। ऐसा ही नहीं है। विना वाहरी जम्स के भी हम वीमार हो जाते हैं। हमारे भीतर भी वीमारी के अनेक निमित्त हैं। होमियो-पैथियो-प्रैचिन के प्रधर्णक डॉ हनीमेन ने कहा था—‘वीमारी की जड़ में कीटाणु नहीं, छिन्न वीमारी की जड़ हमारे बहुत गहरे में है।’ यथार्थ में वीमारी की जड़ें लेश्याओं में हैं। जब तक लेश्या शुद्ध रहेगी, आदमी कभी वीमार नहीं होगा। जब-जब लेश्या विशुद्ध होती है, आदमी वीमार होना शुरू हो जाता है। इस शरीर में तो उस वीमारी की अभिव्यक्ति मात्र होती है। वाहरी कीटाणु मिलते हैं, तो वे भी वीमारी के निमित्त बन जाते हैं। वाहरी कीटाणु न भी मिलें, तो भी वीमारी व्यक्त हो जाती है।

साधना में भावना का बहुत महत्व है। बुरी आदतों की जड़ों को उखाड़ डालने का यह एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा पुरानी आदतें मिटती हैं और नई आदतों का निर्माण होता है। भावना दोनों काम करती है—ध्वंस भी करती है और निर्माण भी करती है। बुरी आदतों के बदलने और नई आदतों के निर्माण का विन्दु है—लेश्या-तंत्र, भाव-तंत्र। वहां हृपान्तरण घटित होता है। क्योंकि लेश्या के पास तैत्रस् गी शक्ति है, विद्युत् की शक्ति है। विद्युत् की शक्ति के बिना इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। आज का सारा वैज्ञानिक-चमत्कार विद्युत् पर आधृत है। यदि आज के युग से विद्युत् समाप्त हो जाए तो सारा विज्ञान ही धराशायी ही गापगा। विज्ञान का आगा कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है। तैजस्-शरीर में जो शमता है, जो विद्युत् है, उसके द्वारा ही जीवन-तंत्र का सारा परिवर्तन घटित होता है। लेश्या के पास विद्युत् की यह बहुत बड़ी शक्ति है। तैजस्-शरीर और लेश्या भी चेतना—ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। दोनों सहजारी हैं। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए परिवर्तन घटित करने के लिए लेश्या पर ध्यान देना होता है। उसमें तम्मोहन का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसका कारण स्पष्ट है कि हम जिस चेतना के स्तर पर प्रभावित होते हैं, वह चेतना ही लेश्या। यहीं हम प्रभावित होते हैं—दुसरों के द्वारा, वाहरी सावों से और भीतरी सावों से। यह प्रभावित होने जा जो विद्युत् चुम्बकीय-दोत्र हमारे शरीर में है, वह ही लेश्या। भम्मोदृग का प्रभाव यहीं होता है। इसीलिए भावना का महत्व है। भावना, मनोदृग, मंत्र—ये नारे एवं ही कोटि में आ जाते हैं। यात्रा है? एवं ही यात्रा हो सकती है। वार-धार दोहराने-दोहराने यह चाल भीतरत ह पढ़ने जाती है। तेज मन तादृ? यहीं जो है मन। हम मन का जा लगाने हैं, मन ही आगवाना करता है। यह द्वाग इमरी आगवाना, ऊर्जा भीतर ही निम्न-जगती नहीं जाती। यह उक्त द्वा नहीं पहुंचती, मंत्र का यागवर्ग नहीं जाता। मंत्र का

शिथिलीकरण नहीं होगा, स्नायविक अनुरोध नहीं मिटेंगे, वात भीतर तक नहीं पहुंच पायेगी। कायोत्सर्ग अत्यन्त आवश्यक है। शरीर की प्रवृत्तियों का विसर्जन करें, शिथिलीकरण करें, मांसपेशियों का, हाथों का, पैरों का शिथिलीकरण करें। अध्यात्म की यात्रा कब शुरू हो सकती है? समाधि कब उपलब्ध हो सकती है? इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है—कोई प्रवृत्ति न करें। हाथ का संयम करें। प्रश्न होगा कि हाथ संयम करना कौन-सी बड़ी वात है? हाथ वहुत महत्त्वपूर्ण अवयव है हमारे शरीर का। एक्यूपंक्चर पद्धति के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे मस्तिष्क में जो चैतन्य-केन्द्र, जैविक सक्रिय-विन्दु हैं वे सारे के सारे केन्द्र हाथ में हैं। हाथ में क्या नहीं है। जो शरीर में है वह सारा हाथ में है। फिर कहा—पैरों को संयम करो। यह और अजीव वात है। क्योंकि हाथ तो फिर भी एक उत्तम अवयव है। पैर शरीर का निम्नतम भाग है। पैर वहुत महत्त्वपूर्ण अवश्य है। पैर के अंगूठे और अंगुली में चैतन्य केन्द्र हैं, ग्लैन्ड्स हैं। पैर के अंगूठे में पिच्यूटरी ग्लैड है। पैर के अंगूठे में आंख है, कान है। प्राचीनकाल में यह बताया जाता था कि जब आंख की ज्योति कम हो जाए तो पैर की अंगुलियों पर तेल की मालिश की जाए। यह कहां का सम्बन्ध? ज्योति कम हुई आंख की और तेल मालिश करना होता है पैर की अंगुलियों पर। आज यह वात विचित्र-सी नहीं लगती। जब हमें यह पता लग गया कि पैर की अंगुलियों में आंख हैं, कान हैं, तब ये वातें अनहोनी-सी नहीं लगतीं। आंख और कान का इलाज पैर की अंगुलियों से किया जा सकता है और पिच्यूटरी या पिनियल ग्लैण्ड का समाधान पैर के अंगूठे से किया जा सकता है।

प्राचीन काल में जैन परंपरा में महाप्राण ध्यान की पद्धति प्रचलित थी। यह ध्यान की महत्त्वपूर्ण पद्धति थी। आचार्य भद्रबाहु ने वारह वर्ष तक महाप्राण ध्यान की साधना की थी। जो महाप्राण-ध्यान में जाता है वह संसार से पूर्णरूप से विलग हो जाता है। कोई संपर्क नहीं रहता। सारे बाह्य संपर्क टूट जाते हैं। साधक गहरी समाधि की अवस्था में चला जाता है। यदि परिस्थितिवश साधक को अवधि से पहले सचेत करना होता है तो उसका एकमात्र उपाय है—पैर के अंगूठे को दबाना।

आचार्य पुष्यमित्र महाप्राण-ध्यान की साधना में लगे। एक शिष्य उनकी देखरेख के लिए नियुक्त था। कुछ दिन बीते। किसी को पता नहीं था कि आचार्य विशिष्ट साधना में संलग्न है। ऊहापोह होने लगा। कुछ शिष्यों ने सोचा—इसने आचार्य को मार डाला है। ऊहापोह बढ़ा। राजा तक यह बात गई। राजा आया। उत्तर साधक से पूछताछ की। उसने कहा—‘आचार्य विशिष्ट साधना में संलग्न हैं। अभी साधना का काल पूरा नहीं हुआ है।’ राजा ने कहा—‘मैं अभी आचार्य से मिलना चाहता हूँ। आवश्यक काम है।’ उत्तर साधक अन्दर गया। आचार्य के

५. स्वभाव-परिवर्तन का दूसरा चरण

१० स्वभाव परिवर्तन के छह सूत्र—

- कायोत्सर्ग
- अनुप्रेक्षा
- विवेक
- ध्यान
- शरण
- भावना ।

२० अध्यात्म से रूपान्तरण। साधक कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओं का अतिक्रमण कर तैजस्, पद्म और शुक्ल लेश्याओं में चला जाता है।

३० लौकिक और लोकोत्तर की भेदरेखा।

४० रूपान्तरण का अंतिम चरण है—प्रतिपक्ष भावना का निर्माण।

की पद्धति का दूसरा सूत्र है—अनुप्रेक्षा। दोनों समानान्तर रेखाओं पर चलते हैं। यदि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपना 'आत्म-विश्लेषण करना होगा कि क्रोध क्यों बुरा है? क्यों छोड़ना चाहता हूँ। यदि वह बुरा नहीं है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्रोध बुरा है—इसका मैं विश्लेषण करूँ। इस विश्लेषण पर जाऊंगा, अनुप्रेक्षा करूंगा, गहरे मैं उतरूंगा, अपाप्य विचय ध्यान की स्थिति तक पहुँच जाऊंगा। वहाँ मुझे ज्ञात होगा कि क्रोध एक प्रकार का ज्वर है। वह जब शरीर मैं उतरता है तब शरीर को तोड़ देता है और शक्तियों को क्षीण कर देता है। क्रोध मस्तिष्क का ज्वर है, हृदय का ज्वर है और एड़ीनल ग्रन्थि का ज्वर है। वह तीनों की शक्तियों को क्षीण करता है। व्यक्ति जब क्रोध करता है तब सबसे पहला प्रहार मस्तिष्क पर होता है। मस्तिष्क ज्वर-पीड़ित हो जाता है। उस समय इतनी उत्तेजना और इतनी अतिरिक्त ऊर्जा खपती है कि वड़ी बेचैनी छा जाती है और सारा अंग-प्रत्यंग प्रतप्त जैसा हो जाता है। क्रोध का दूसरा प्रहार होता है—हृदय पर। क्रोध आते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। उसकी गति तेज हो जाती है और उसे अस्वाभाविक ढंग से काम करना पड़ता है। क्रोध का तीसरा प्रहार होता है—एड़ीनल ग्रन्थि पर। क्रोध के आते ही एड़ीनल ग्रन्थि को अतिरिक्त स्राव करना पड़ता है और उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इस प्रकार मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है, हृदय की शक्ति क्षीण होती है और एड़ीनल ग्रन्थि की शक्ति क्षीण होती है। ये तीनों—मस्तिष्क, हृदय और एड़ीनल ग्रन्थि—जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। क्रोध के कारण इन तीनों की शक्तियां क्षीण होती हैं। जब मस्तिष्क की शक्तियां क्षीण होती हैं, तब सारा नाड़ी-तंत्र गड़वड़ा जाता है। जब हृदय की शक्ति क्षीण होती है तब समूचा रक्त-संचार अस्त-व्यस्त हो जाता है। जब एड़ीनल ग्रन्थि-तंत्र की शक्तियां क्षीण होती हैं तब व्यक्ति की कर्मजा शक्ति नष्ट हो जाती है।

ये हैं—क्रोध के परिणाम। यह उसका विपाक विचय है। अनुप्रेक्षा करते-करते जब मैं इन परिणामों तक पहुँचता हूँ तब मुझे लगता है कि क्रोध कम करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए।

फिर एक प्रश्न होता है—क्या मैं क्रोध को छोड़ सकता हूँ? साधक इस पर विचार करता है। इस प्रश्न पर विचार करते-करते वह इस तथ्य पर पहुँचता है कि मुझमें बहुत बड़ी क्षमता है। मैं क्रोध को छोड़ सकता हूँ। इस चिंतन से वह अनुप्रेक्षा के अगले चरण पर पहुँच जाता है। वह विवेक पर पहुँच जाता है।

क्षायोत्सर्ग का तीसरा सूत्र है—विवेक। साधक सोचता है कि मैं क्रोध को इन्तिहा छोड़ सकता हूँ कि मैं क्रोध नहीं हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। यदि क्रोध मेरा स्वभाव होता तो मैं क्रोध को कभी नहीं छोड़ पाता। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव हो नहीं छोड़ सकता। किन्तु क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, मैं

की पद्धति का दूसरा सूत्र है—अनुप्रेक्षा । दोनों समानान्तर रेखाओं पर चलते हैं । यदि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपना आत्म-विश्लेषण करना होगा कि क्रोध क्यों बुरा है ? क्यों छोड़ना चाहता हूँ । यदि वह बुरा नहीं है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है । क्या क्रोध बुरा है—इसका मैं विश्लेषण करूँ । इस विश्लेषण पर जाऊँगा, अनुप्रेक्षा करूँगा, गहरे मैं उत्तरूँगा, अपाय विचय ध्यान की स्थिति तक पहुँच जाऊँगा । वहाँ मुझे ज्ञात होगा कि क्रोध एक प्रकार का ज्वर है । वह जब शरीर मैं उत्तरता है तब शरीर को तोड़ देता है और शक्तियों को क्षीण कर देता है । क्रोध मस्तिष्क का ज्वर है, हृदय का ज्वर है और एड़ीनल ग्रन्थि का ज्वर है । वह तीनों की शक्तियों को क्षीण करता है । व्यक्ति जब क्रोध करता है तब सबसे पहला प्रहार मस्तिष्क पर होता है । मस्तिष्क ज्वर-पीड़ित हो जाता है । उस समय इतनी उत्तेजना और इतनी अतिरिक्त ऊर्जा खपती है कि बड़ी बैचैनी छा जाती है और सारा अंग-प्रत्यंग प्रतप्त जैसा हो जाता है । क्रोध का दूसरा प्रहार होता है—हृदय पर । क्रोध आते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है । उसकी गति तेज हो जाती है और उसे अस्वाभाविक ढंग से काम करना पड़ता है । क्रोध का तीसरा प्रहार होता है—एड़ीनल ग्रन्थि पर । क्रोध के आते ही एड़ीनल ग्रन्थि को अतिरिक्त साव करना पड़ता है और उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं । इस प्रकार मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है, हृदय की शक्ति क्षीण होती है और एड़ीनल ग्रन्थि की शक्ति क्षीण होती है । ये तीनों—मस्तिष्क, हृदय और एड़ीनल ग्रन्थि—जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं । क्रोध के कारण इन तीनों की शक्तियां क्षीण होती हैं । जब मस्तिष्क की शक्तियां क्षीण होती हैं, तब सारा नाड़ी-तंत्र गड़वड़ा जाता है । जब हृदय की शक्ति क्षीण होती है तब समूचा रक्त-संचार अस्त-व्यस्त हो जाता है । जब एड़ीनल ग्रन्थि-तंत्र की शक्तियां क्षीण होती हैं तब व्यक्ति की कर्मजा शक्ति नष्ट हो जाती है ।

ये हैं—क्रोध के परिणाम । यह उसका विपाक विचय है । अनुप्रेक्षा करते-करते जब मैं इन परिणामों तक पहुँचता हूँ तब मुझे लगता है कि क्रोध कम करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए ।

फिर एक प्रश्न होता है—क्या मैं क्रोध को छोड़ सकता हूँ ? साधक इस पर विचार करता है । इस प्रश्न पर विचार करते-करते वह इस तथ्य पर पहुँचता है कि मुझमें बहुत बड़ी क्षमता है । मैं क्रोध को छोड़ सकता हूँ । इस चितन से वह अनुप्रेक्षा के अगले चरण पर पहुँच जाता है । वह विवेक पर पहुँच जाता है ।

कायोत्सर्ग का तीसरा सूत्र है—विवेक । साधक सोचता है कि मैं क्रोध को इसलिए छोड़ सकता हूँ कि मैं क्रोध नहीं हूँ । क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है । यदि क्रोध मेरा स्वभाव होता तो मैं क्रोध को कभी नहीं छोड़ पाता । कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता । किन्तु क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, मैं

सोध नहीं है। मैं उनमें भिन्न हूँ। मैं ज्ञानवाप्त हूँ। मैं दर्शनवाप्त हूँ। मैं आनन्दवाप्त हूँ। सोध मेरे जान की आवृत्त करता है। सोध मेरे दर्शन की आवृत्त करता है। सोध मेरे आनन्द की आवृत्त करता है। उमेर बिल्कुल करता है। यह मेरी चकितियों को विनष्ट करता है। इस चित्तमें यह दृश्य पर पहुँच जाता है—मैं सोध नहीं हूँ और सोध मेरा स्वभाव नहीं है।

स्वभाव-परिवर्तन के बीच गुप्त है—जारी-जरूर, अमुखिया और विनष्ट।

जब ताथ्रह ने यह माम लिया कि सोध जैव स्वभाव नहीं है, मैं सोध नहीं हूँ, तब यात बहुत मुश्त जाती है, जान रक्षण हो जाता है। कब जान रक्षण हो जाता है, तब यरण अपने खाए जाने वड्हने लगते हैं।

भगवान् ने कहा—‘षट्यम् वाचं वर्तो दद्या’। यहीं माम स्वाट लीना चाहिया। आत्म-सम्मोहन का एक कथग है—जाम एवं चित्त है। जाम जब स्वाट हो जाता है, तब आचरण की मुश्पित हो जाती है।

स्वभाव परिवर्तन का गोप्य गुप्त है—ध्यान। दर्शन-केन्द्र पर ध्यान केन्द्रित करें। दोनों भूमुखियों के बीच यह ध्यान है—ध्यान-केन्द्र। यह दृश्यरे अन्तर्दृश्यम् का केन्द्र है। यह अनन्द-स्थिति और सम्बूद्ध-स्थिति का केन्द्र है। किनारा यस-स्थिति ज्ञान प्राप्त होता है, यह इसी केन्द्र से प्राप्त होता है। यह ध्यान दर्शन-केन्द्र पर स्थापित होता है, तब अपनी जान की बीजर यह पहुँचाने में दृश्य मुश्पित हो जाती है। यन्त्रोदिवान् जानता है कि यो जात इमरि स्फुरा मन तक पहुँची है, यह जांचें-कर नहीं होती। उमर्से व्यवित्त-व का परिवर्तन नहीं हो सकता। यह हम दर्शन-केन्द्र पर ध्यान करते हैं तब हमारा दिवार, हमारा मन-क्लॉब, अन्तर्मन उह पहुँच जाता है। यह संकल्प खेड्यान्तर और ब्रह्मगमन-व तक पहुँच जाता है। परिवर्तन घटित होने लगता है।

दर्शन-केन्द्र पर ध्यान करना जीवा चरण है।

स्वभाव-परिवर्तन का पांचवा गुरु है—यरण। इसे यरण में जाना होता। आत्म-सम्मोहन के कर्तव्यान भिडान्त में यरण की जात नहीं लियी। यह यरण-गियिनीकरण, आत्म-विरलेपण और जाटी-भविशन की जात लियती है, इसका नृचना की जात लियती है। किन्तु यरण की जात नहीं लियती।

यरण में जाना—वहूत भृत्य का गुप्त है। प्रश्न है—किसी यरण में जाना ? और किसी दूसरे की यरण में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ही याकि की यरण में जाना है या हमें उसकी यरण में जाना है यो अनन्त-ज्ञान, अनन्त-आनन्द और अनन्त-शक्ति का धनी है। जिसमें ये चारों अनन्त प्रस्फुटित हो चुके हैं, उसकी यरण में जाना है, जिसमें ये बीज अंमुखियहो चुके हैं, पल्लवित, पुष्पित और फलित हो चुके हैं, उसकी यरण में जाना है। किसी व्यवित विशेष की यरण में नहीं जाना है। इस अनन्त चतुष्टयों की यरण में जाना है। जब यह

की पद्धति का दूसरा सूक्त है—अनुप्रेक्षा । दोनों समानान्तर रेखाओं पर चलते हैं । यदि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपना 'आत्म-विश्लेषण करना होगा कि क्रोध क्यों बुरा है ? क्यों छोड़ना चाहता हूँ । यदि वह बुरा नहीं है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है । क्या क्रोध बुरा है—इसका मैं विश्लेषण करूँ । इस विश्लेषण पर जाऊंगा, अनुप्रेक्षा करूंगा, गहरे में उतरूंगा, अपाय विचय ध्यान की स्थिति तक पहुँच जाऊंगा । वहाँ मुझे ज्ञात होगा कि क्रोध एक प्रकार का ज्वर है । वह जब शरीर में उतरता है तब शरीर को तोड़ देता है और शक्तियों को क्षीण कर देता है । क्रोध मस्तिष्क का ज्वर है, हृदय का ज्वर है और एड़ीनल ग्रन्थि का ज्वर है । वह तीनों की शक्तियों को क्षीण करता है । व्यक्ति जब क्रोध करता है तब सबसे पहला प्रहार मस्तिष्क पर होता है । मस्तिष्क ज्वर-पीड़ित हो जाता है । उस समय इतनी उत्तेजना और इतनी अतिरिक्त ऊर्जा खपती है कि बड़ी बेचैनी छा जाती है और सारा अंग-प्रत्यंग प्रतप्त जैसा हो जाता है । क्रोध का दूसरा प्रहार होता है—हृदय पर । क्रोध आते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है । उसकी गति तेज हो जाती है और उसे अस्वाभाविक ढंग से काम करना पड़ता है । क्रोध का तीसरा प्रहार होता है—एड़ीनल ग्रन्थि पर । क्रोध के आते ही एड़ीनल ग्रन्थि को अतिरिक्त स्वाव करना पड़ता है और उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं । इस प्रकार मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है, हृदय की शक्ति क्षीण होती है और एड़ीनल ग्रन्थि की शक्ति क्षीण होती है । ये तीनों—मस्तिष्क, हृदय और एड़ीनल ग्रन्थि—जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं । क्रोध के कारण इन तीनों की शक्तियां क्षीण होती हैं । जब मस्तिष्क की शक्तियां क्षीण होती हैं, तब सारा नाड़ी-तंत्र गड़वड़ा जाता है । जब हृदय की शक्ति क्षीण होती है तब समूचा रक्त-संचार अस्त-व्यस्त हो जाता है । जब एड़ीनल ग्रन्थि-तंत्र की शक्तियां क्षीण होती हैं तब व्यक्ति की कर्मजा शक्ति नष्ट हो जाती है ।

ये हैं—क्रोध के परिणाम । यह उसका विपाक विचय है । अनुप्रेक्षा करते-करते जब मैं इन परिणामों तक पहुँचता हूँ तब मुझे लगता है कि क्रोध कम करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए ।

फिर एक प्रश्न होता है—क्या मैं क्रोध को छोड़ सकता हूँ ? साधक इस पर विचार करता है । इस प्रश्न पर विचार करते-करते वह इस तथ्य पर पहुँचता है कि मुझमें बहुत बड़ी क्षमता है । मैं क्रोध को छोड़ सकता हूँ । इस चिंतन से वह अनुप्रेक्षा के अगले चरण पर पहुँच जाता है । वह विवेक पर पहुँच जाता है ।

कायोत्सर्ग का तीसरा सूक्त है—विवेक । साधक सोचता है कि मैं क्रोध को इसलिए छोड़ सकता हूँ कि मैं क्रोध नहीं हूँ । क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है । यदि क्रोध मेरा स्वभाव होता तो मैं क्रोध को कभी नहीं छोड़ पाता । कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता । किन्तु क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, मैं

कोष नहीं है। मैं उसमें जिल्हा हूँ। मैं आनंदग्रह हूँ। मैं दर्शनग्रह हूँ। मैं चाकूग्रह हूँ। कोष मेरे जान को आदृत करता है। कोष मेरे दर्शन को आदृत करता है। कोष मेरे आनन्द को आदृत करता है। उसे विजय करता है। वह मैंने गविलों को विनाश करता है। इस विजय में यह इस विरह पर पहुँच जाता है—मैं उसी नहीं हूँ और औपेक्षा स्वभाव नहीं है।

स्वभाव-परिवर्तन के सीन मूर्त है—जार्येश्वर, अनुरोधा और विष्वामी।

जब आधुक ने यह जान किया कि उपर्युक्त मैंने स्वभाव नहीं है, मैं उपर्युक्त हूँ, तब यात वहुत मुश्किल जाती है, जान खटक हो जाता है। जब जान रास्ता ही जाता है, तब शरण अपने पाप जापे बड़ने लगते हैं।

भगवान् ने कहा—‘पठन जाप सबो दशा’। अर्थात् जान रास्ता हीना आहिए। आत्म-सम्मोहन का पृष्ठ करन है—जान एवं विजय है। जान रास्ता हीना जाता है, तब आचरण की युक्तिया ही जाती है।

स्वभाव परिवर्तन का घोषा गृह्ण है—ध्यान। द्वेष-केन्द्र पर ध्यान कोई नहीं करते। दोनों भृकुटियों के धोन को उपाय है—ध्येय-केन्द्र। यह हमारे कुरुक्षेत्रानं का केन्द्र है। यह अनन्द-विट्ठि और यम्भु-हल्दी-विट्ठि का केन्द्र है। विजया आत्मरिक जान प्रस्तु होता है, क्योंकि केन्द्र में प्रस्तु तैयार है। वह जान रास्ते के एवं पर स्थापित होता है, तब जानी जान को जीवन जन्म पहुँचाने के बड़ी युक्तियां ही जाती हैं। मनोविज्ञान मानता है कि यो जान हमारे सूक्ष्म जन्म तथा यहुँ सी है, यह अप्रे-कर नहीं होती। उसमें व्यवित्रण का परिवर्तन नहीं होता यह जान। वह इस द्वेष-केन्द्र पर ध्यान करते हैं तब हमारा विचार, द्वयाग जहां का वर्णन महा पर्वत जाता है। यह नंगला लेख्या-नंदा और ब्रह्म स्वरूप वह महा पर्वत जाता है। परिवर्तन विट्ठि हीने लगता है।

द्वेष-केन्द्र पर ध्यान करता घोषा जरूर है।

स्वभाव-परिवर्तन का पांचवा मूर्त है—शरण। उसे शरण में जाना होता। आत्म-सम्मोहन के वर्तमान निदानत में जरूर यही जान नहीं मिलती। यह विद्य-विजिलीकरण, आत्म-विश्वेषण और आटो-विज्ञान की जान मिलती है, इसका युक्ता की जात मिलती है। लिङ्गु शरण की जात नहीं मिलती।

शरण में जाना—वहुत महूल्य एवं मूर्त है। प्रथम है—विस्तीर्ण शरण में जाना ? और लिङ्गी द्वूरे की शरण में जानी की जरूरत नहीं है, जानी ही जन्म की शरण में जाना है। यहमें उसकी शरण में जाना है जो ब्रह्म-ज्ञान, ब्रह्म-दर्शन, अनन्त-आनन्द और अनन्त-शमित का धनी है। विसमें जारी प्रगता प्रशुद्धित हो चुके हैं, उसकी शरण में जाना है, विसमें ये धीर वंशुदिव्य हुए हैं, प्रवृत्ति, युक्तिया और फलित हो चुके हैं, उसकी शरण में जाना है। लिङ्गी विजित विवरण की शरण में नहीं जाना है। इस अनन्त चतुर्दशी की शरण में जाना है। जान यह

शरण उपलब्ध हो जाती है तब तैजस्-शक्ति का विकास होता है। उस समय विद्युत् की इतनी तीव्र तरंगे उपलब्ध होती हैं कि रूपान्तरण का क्रम प्रारंभ हो जाता है।

एक सूफी संत थे—संत खैयाद। बहुत बड़े साधक थे। जा रहे थे धोर जंगल से। शिष्य साथ में था। समय हुआ और वे नमाज पढ़ने वैठे। कंवल विछाया। उस पर वैठ गए। शिष्य भी वैठ गया। इतने में शेर के दहाड़ने की आवाज आई। शिष्य डरा। उसने अपना कंवल समेटा और वह तत्काल पेड़ पर चढ़कर वैठ गया। किन्तु संत खैयाद अविचल भाव से वैसे ही वैठे रहे। नमाज पढ़ते रहे। शेर वहाँ आ पहुंचा। आस-पास में सूंधकर चला गया। नमाज पूरी हुई। शिष्य पेड़ से उतरकर नीचे आया। दोनों आगे बढ़ गए। जा रहे थे। इतने में एक जंगली कुत्ता सामने आ गया। जैसे ही कुत्ता सामने आया, संत खैयाद ने अपना डंडा संभाला और डंडा लेकर प्रतिरोध की मुद्रा में खड़े हो गए। शिष्य देखता रहा। वह पूछ वैठा—‘गुरुदेव ! यह क्या ? जब शेर आया तब तो आप अविचल भाव से वैठे रहे और एक कुत्ता सामने आया तो आप प्रतिरोध की मुद्रा में खड़े हो गए। मैं रहस्य समझ नहीं पाया।’ संत खैयाद बोले—‘उस समय खुदा मेरे साथ था और अब तुम मेरे साथ हो। उस समय मैं परम आत्मा की शरण में था, खुदा मेरी रक्षा कर रहा था। अब तुम मनुष्य मेरे साथ हो।’

सचमुच जब हम अनन्त की शरण में जाते हैं, अनन्त-चतुष्टयी की शरण में चले जाते हैं, तब अनन्त-चतुष्टयी के स्पंदन से तैजस्-शरीर और चेतना का कण-कण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तादात्म्य का अनुभव करता है, उस समय हमारी तैजस् की धाराएं इतनी फूट पड़ती हैं, फिर किसी का भय नहीं हो सकता।

शरण में जाना—स्वभाव-परिवर्तन का पांचवां सूत्र है। जब हम अनन्त-चतुष्टयी की शरण में जाते हैं, तब हमारे सामने अनन्त-ज्ञान दौड़ता है। अनन्त-दर्शन की धाराएं दौड़ती हैं। अनन्त-आनन्द की धाराएं विकसित होती हैं और अनन्त-शक्ति के अनुभव के बीज फूटने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में रूपान्तरण कैसे नहीं होगा ? जो उन क्षणों में विद्यमान होते हैं, उनमें वैसा परिणमन होने लग जाता है। भीतरी परिणमन शुरू हो जाता है। एक बिन्दु ऐसा आता है कि परिणमन होते-होते वह स्थूल रूप ले लेता है, सघन रूप ले लेता है और व्यक्ति सचमुच बदल जाता है।

स्वभाव-परिवर्तन का छठा सूत्र है—भावना। यह है आत्म-सूचन—सेल्फ़-सजेशन। हम अपने आपको सूचना दें। जब हम गहरे ध्यान की स्थिति में वैठे हों, तब सूचना दें कि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूँ। मैं क्रोध से मुक्त हो रहा हूँ। मैं क्रोध को नहीं चाहता। क्रोध के परमाणु मेरे पास नहीं रह सकते। क्रोध मुझे

दत्तेजित नहीं कर सकता। योग्य भोर भावित के बोर भर भवन्तु-त्रय में उसी तरंग कीरी नहीं फैला सकता। पूरे निष्ठ्य और दृष्टि के साथ व वृक्षताम्, व नुमाय दै, अपने आपकी निर्णयित करें, भावित करें। जिन जो इन्हाँ भावित करें तो, उस पर इन्हीं पुट लगा से हि जित दिन-उक्त भावित ही जाए।

एक नामान्य वस्तु है, किन्तु उसकी भावित करने पर उसकी जिक्र नहीं जाती है, धमता वह जाती है। जिस भावित विद्युतीयी भी वस्तु की पात्रता नहीं होती। अन्न जब आग पर पकाया जाता है तब वह जाय ते भावित हो जाता है। अपने बीतों में पासी गुण वीर शक्तियों में चला जाता है। उन रसों से उस भावित हो जाता है। नामान्य पासी की जीवित है जोर लगे वीर गुणों की व गुणों वाली व द्वारा भावित पासी की खो जाती है। उसकी गुणता वही न होती। वह जीवित पासी में चिकित्सा के गुण उपलब्ध हो जाते हैं। इन पासी में इनके लिये उप भावित दिया जाता है, जीवी और कठीन भावित की जाती है और न जरूर दियी जीवी भावित की जाती है। अद्यत यह पासी नीर दीवान लड़ी जाती है और उसी चुंचक ने भावित ही जाना है, जबकीय वह जाना है। उन पासी में और ऐसे उप दृष्टि जाति है। नामा इकाई की जीवात्मियों की चित्तान के लिये, उन पासी का जाना है। जो जन और ऐसे पदार्थों की वर्दि पृथ्वी में रखे तो उनका वृक्षताम् दर्शन होता है। मंत्र दिया का प्रयोगता उनको भावित करता है। वह यद्यपि वह जाना है और जल को अभिमेहित करता जाता है। यद्यतन भावित करती है जाता है। उसमें इनी धमता आ जाती है हि वह वडेवडे डगडवा का दिया गया है। फिर वह केवल पासी नहीं रहता और कुछ दूसरा जाना है।

हम एक भावता को जै और ४-५० लिंगदस्त सर की भावित करते जाएँ। ऐसा प्रयत्न करें हि उस भावता में दृमाया पूरा दिन भावित हो जाएँ। करने एक-दो वार दोहराने से कुछ नहीं बनता। उसमें धमता जाना आहिए। पहले उच्च-स्वर में वोल-वोल कर मन को भावित करें, फिर मंद रुर में भावित करें और फिर उच्चारण दिए दिना मानवित स्तर पर दित खो भावित करें। हम जीवों प्रकार से मन को भावित करें और भावता वीर वहाँ उस पहुँचा है अहा उसे पहुँचना है।

जब मन भावित हो जाए, तब हम ध्युताने करें। मन के भावित ही जाने पर—मैं अपने पुराने स्वभाव का ध्युतान करता हूँ, छोड़ता हूँ, मैंसा इसके भाव कोई संवेदन नहीं है—ऐसा कहें।

जब तक 'मैं' और 'मेरा' वह मंवंध बना रहता है, तब वह आदत नहीं बदल सकती, स्वभाव नहीं बदल सकता। हमें ध्युतान करता हींगा—'मैं' और 'मेरे' का। अब मैं इस आदत को छोड़ता हूँ, मेरा इसके भाव कोई संवेदन नहीं है। यह

मेरी नहीं है और मैं इसका नहीं हूँ। इतना हो जाने पर किर वह साधक उद्यत होकर कहता है—‘मैं फिर नहीं करूँगा। इसके लिए मैं पूर्णरूप से सावधान और जागृत होता हूँ।’ यह पूरी प्रक्रिया है स्वभाव-परिवर्तन की, व्यक्तित्व के रूपान्तरण की, आदत को बदलने की।

सामान्य धारणा यह है कि स्वभाव नहीं बदलता, नहीं बदला जा सकता। किन्तु यह सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दो-तीन महीने तक इन सूत्रों का प्रयोग करता है तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आदत को बदलना होगा। वह पूर्ववत् रह नहीं सकती। जो सत्य है उस सत्य को हम कैसे टाल सकते हैं। निश्चय की भाषा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस प्रक्रिया के निष्कर्ष में कोई संदेह नहीं है। जो शाश्वत सत्य है, वहां संदिग्ध भाषा बोलने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि आदत बदलती है। यह ध्रुव सत्य है। जो प्रयोग करेगा, इस प्रक्रिया से गुजरेगा, वह अपनी आदतों को अवश्य ही बदल देगा। समय का अंतर हो सकता है, संकल्प-शक्ति का अन्तर हो सकता है, निश्चय और आंतरिक शक्तियों के श्रद्धा का अंतर हो सकता है, किन्तु निष्पत्ति का अंतर नहीं हो सकता। दृढ़ निश्चय के साथ प्रक्रिया का अभ्यास करने पर स्वभाव अपने आप बदल जाता है। यदि हम स्वभाव-परिवर्तन की बात न मानें तो मिथ्यादृष्टि कभी सम्यग्-दृष्टि नहीं हो सकता, सम्यग्-दृष्टि कभी व्रती नहीं हो सकता, व्रती कभी महाव्रती नहीं हो सकता, महाव्रती कभी अप्रमत्त नहीं हो सकता और अप्रमत्त कभी वीतराग और केवली नहीं हो सकता। जो धर्म स्वभाव-परिवर्तन की बात को नहीं मानता, वह धर्म अपने अनुयायियों को धोखे में डालता है, उनका विकास नहीं कर सकता। एक योग्य शिक्षक अपने शिष्यों को बदलने में सक्षम होता है, वह शिष्यों को बदल देता है, रूपान्तरित कर देता है। आइंस्टीन स्कूल में पढ़ रहा था। अध्यापक ने गणित का प्रश्न पूछा। उत्तर ठीक नहीं दिया जा सका। अध्यापक ने कहा—‘आइंस्टीन ! तुम बुद्ध हो और बुद्ध ही बने रहोगे। कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे।’ समय बदला और एक दिन वह आया कि आइंस्टीन और गणित पर्यायिवाची बन गए।

आनन्द में एक गुरु अपने पांच सौ शिष्यों को पढ़ा रहा था। उसके मन में भावना जागी। उसने एक प्रयोग शुरू किया और पांच सौ के पांच सौ शिष्य समृद्धि, वुद्धि और मेधा में अग्रणी बन गए।

मैं अपनी बात कहूँ। एक दिन था कि मैं अपने साथियों में सबसे पिछड़ा हुआ था। आचार्य तुलसी का मार्ग-दर्शन मिला। उनका वरद हस्त मुझे उपलब्ध हुआ। शीरे-धीरे रूपान्तरण घटित होने लगा—ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या और मेधा के क्षेत्र में, स्वभाव और व्यवहार के क्षेत्र में।

रूपान्तरण की प्रक्रिया से प्रत्येक मनुष्य तलहटी से शिखर तक पहुँच सकता

है। प्रलिया के बिना वह संभव नहीं है। बिना मार्ग पर चले, बिना आरोग्य किए कोई जीवर को नहीं छू सकता। जो जहा है, वही रहेगा। जहाँ पर्याप्त वर्ष पाले था, उसी बिन्दु पर वह पर्याप्त वार भी रहेगा। कोई जीवर नहीं आएगा। क्योंकि उसे प्रलिया उपचय नहीं है। और वहि प्रलिया उपचय जो है वो भी वह उसमा कम्यात नहीं रह रहा है। ऐसी विधि में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

अध्यात्म का नमूदा मार्ग पर्याप्तता की प्रतिया है। इन प्रतियों का अस्तित्व क्रम है। जो व्यक्ति इन पर्याप्त-उप की व्योतार कर सकता है, वह निश्चिन्ता से अपनी विज्ञानों को बदल सकता है। यह इष्ट, नीति और व्यापार जीवा से का अतिक्रमण कर या उन्हें बदलकर यह सेव, यह और शुद्ध जीवा से मैं पना जाता हूँ। वह इन विज्ञानों के संबंधों के अनुभव से मैं जना जाता हूँ। वह आमंत्र पर स्वकाव में अपने आप परिसर्वत प्राप्तम् हो जाता है। यह है लोकोत्तर व्याप्त परिवर्तन की प्रतिया।

मैं फिर इन बातों को दीहुयामा चाहता हूँ कि जो धार्मिक धर्म समाज को बदलना नहीं चाहता, वह योगार्थ में धार्मिक नहीं है। जो धर्म-युद्ध मारने परुषाधियों के स्वभाव की बदलने का उपर्युक्त नहीं कर सका, वह प्रथम नर्त-वर्त के प्रति जागरूक नहीं कहा जा सकता। शीर्णों और से उपर्युक्त बदलना चाहिए। प्रमुखार्थी यज्ञमाता चाहूँ और मार्ग-शंख के उन्हें बदलने की प्रतिया करनापूर्व, प्रम्याम-रूप बदलाए, ऐसा होने पर ही धर्म की वेजप्रतिक्रिया, धर्म की वाचविद्वा प्रकृट दीर्घी और धर्म का अर्जीकिरण रूप लोकोत्तर स्वरूप हमें प्राप्त होगा। धर्म लोकिक नहीं है, यह लोकोत्तर है। यह लोकोत्तर इन्दिरि है कि लोकिक परार्थ से जो नहीं भिजता, वह धर्म ने भिजता है। वहा लोकिक उपर्युक्त से भिजती है। दुनिया के सारे उपर्युक्त लोकिक हैं। इन लोकिक प्रथाओं से अनेक चीजें भिजती हैं, जिन्हु भल ली जानी, स्वभाव तो परिवर्तन, अतिकर का उपान्तरण, सहज और अनोदिक आनन्द प्राप्त नहीं होता। ये सब धर्म से भिजते हैं। अध्यात्म इनमीं उपचयित्र का माध्यन है। उसीलिए धर्म या अध्यात्म लोकोत्तर या लोकोत्तम तत्त्व है। जब हम लोकोत्तम तत्त्व के प्रति भलते हैं, उस दिशा में प्रस्थान करते हैं वीर यदि हमें यहीं प्राप्त हो, जो लोकिक प्रथाओं से प्राप्त होता है, वह शुद्ध भी न गिले जो लोकिक प्रथाओं से नहीं गिलता तो फिर लोकिक उपाय और लोकोत्तर उपाय के वीच में कोई भेदरेखा नहीं थीती जा सकेगी। लोकिक और लोकोत्तर के वीच में यहीं भेदरेखा हो सकती है कि जो लोकिक उपायों से नहीं भिजता वह लोकोत्तर उपायों से भिज जाता है। भेदरेखा का आदि विन्दु यहीं होगा। आज के इस वीदिक, तात्किक और वैज्ञानिक युग में इस प्रश्न पर और अधिक गहराई से चिन्तन करना आवश्यक है। हम धर्म और

अध्यात्म के लोकोत्तर स्वरूप का अभ्यास करें और उस अभ्यास के द्वारा ऐसी उपलब्धियाँ करें जो लौकिक अभ्यास से संभव नहीं हैं।

आज अपराधों की बाढ़-सी आ रही है। लौकिक साधनों के बावजूद भी आज अपराध बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में यदि अपराध हों तो माना जा सकता है कि यहाँ धन का अभाव है, गरीबी है, इसलिए लोग अपराध करते हैं। किन्तु दुनिया के सबसे वैभवशाली देश में यदि हिन्दुस्तान से हजार गुना अपराध हों तो इसे क्या माना जाए? यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ अपराध अभाव या गरीबी के कारण बढ़ रहे हैं। वहाँ अपराधों का मूल कारण है—अतिभाव। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लौकिक पदार्थों के विकास से अपराधों को नहीं मिटाया जा सकता, मनुष्य को नहीं बदला जा सकता। इस बिन्दु पर खड़े होकर ही हमें अध्यात्म की दिशा में जाने की या रूपान्तरित करने की आवश्यकता महसूस होती है। तब हमें ज्ञात होता है कि दुनिया में एक ऐसा तत्त्व भी है, जो लौकिक नहीं है, जो पदार्थ से संबद्ध नहीं है, किन्तु अलौकिक और पदार्थीत है। इस बिन्दु पर पहुंचकर ही हम अपराधों को कम कर सकते हैं, वुरी आदतों को बदल सकते हैं और व्यक्तित्व का रूपान्तरण कर सकते हैं।

स्वभाव-परिवर्तन के बाद एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है। व्युत्सर्ग घटित हो जाने के पश्चात् प्रतिपक्षी स्वभाव का चित्त-निर्माण आवश्यक होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए—मैं क्रोध को छोड़ने के लिए, उसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरता हूँ और व्युत्सर्ग तक पहुंच जाता हूँ। वहाँ पहुंचकर मुझे एक बात और करनी होती है कि जिसका मैं व्युत्सर्ग कर रहा हूँ, वह कहीं फिर न आ जाए, मुझसे संबद्ध न हो जाए।

एक बुढ़िया थी। उसके चार दामाद थे। चारों मरकर प्रेत हुए। वे बारी-बारी से बुढ़िया के घर आने लगे। वह एक प्रेत को गंगाजी में छोड़ आती तो दूसरा घर पर मौजूद रहता। उसे गंगाजी में डाल आती, तो तीसरा प्रेत घर पर मिलता और उसे भी गंगाजी में डाल आती, तो चौथा प्रेत घर पर मिलता। उसे जब गंगाजी में डाल आती, तो फिर पहला प्रेत आ जाता। यह क्रम चलता रहा। वह उन प्रेतों से छुटकारा नहीं पा सकी।

एक व्यक्ति ने दारिद्र्य से कहा—मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ, तुम यहीं रहकर मेरे घर की देखभाल करो। दारिद्र्य बोला—यह कैसे हो सकता है? आज तक मैंने तुम्हारा साथ निभाया है। आज मैं तुम्हें अकेले विदेश कैसे जाने दूँ? तुम विदेश में रहो और मैं यहाँ रहूँ। यह कैसे संभव हो सकता है? मैं कच्चा मित्र नहीं हूँ। मैं सर्वत्र साथ ही रहूँगा। तब उस व्यक्ति ने कहा—नुझे तब विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है।

यदि यही क्रम रहे कि हम जिस आदत को छोड़ें, जिनका हम अुन्नत करें, व्युत्कर्ष कर हम अपने पर पूर्ण और यह आदत आगे फिर सेवार मिले तो हमारी प्रविधि पूरी नहीं होगी। इसलिए हमें प्रतिमारी आदत के चिन का निर्माण करना होगा। यदि शोध को छोड़ना हे तो उनका प्रतिपाद 'आदा' का चिन हमें निर्मित करना होगा। धना का जित इतना रमण और प्रबुद्ध ही कि फिर शोध को आगे का नीका ही न मिले। पुरुषों के आदाएँ का निर्माण विनें और दारिद्र्य को साथ चलने का नीका न मिले।

स्वान्तरण का अतिग भरण है—प्रतिपाद आदत का निर्माण। शोध की वदनना हो तो उपचर के चित का निर्माण करो। निर्माण की वदनना हो तो मृदुता के चित का निर्माण करो। आदा को परन्ता ही तो मृदुता की परिमा का निर्माण करो और लोग ने छूटकाट पाना हो तो यही प्रतिपाद को उभारा।

हम प्रेक्षा-शास्त्र के प्रारम्भ में शास्त्रीयता के प्रभाव-एक छेप का निर्माण करते हैं कि मैं अपने नन की नियंत्र व्यापा आदा हूँ और नन की नियमान के कारण होने वाली आदतों को समाप्त करना चाहूँगा हूँ। इस छेप की प्रतिमा के पश्चात् कार्योत्तरी, प्रेक्षा-शास्त्र में परेव करते हैं तो हमारी यारी ऊर्जा उन आदतों को वदनने में, नन की नियंत्रा को निर्मित करने में आसे बाप बदल दी जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि इस प्रयोग में गुणर्थ नाना व्यक्ति सचमुच एक नया जन्म लेवा है और एक नया व्यक्ति यह जाता है।

६. रंगों का ध्यान और स्वभाव- परिवर्तन

१ • अंधकार के रंग लक्ष्मी के पास आकर बोले—हमारा सहयोग करें। लक्ष्मी ने पूछा—तुम्हें प्रिय कौन ?

उन्होंने कहा—० खुद्दों साहसिओ नरो

- ० निस्संसो अजिंदिओ
- ० गेही पओसे य सढे
- ० पमत्ते रसलोलुए
- ० वंके वंकसमायारे
- ० मिच्छिदिट्टी अणारिए
- ० उप्फालग दुड्डवाई
- ० तेणे यावि य मच्छरी ।

लक्ष्मी ने कहा—मैं जाऊंगी, पर अलिंद में रहूंगी, भीतर नहीं। फलतः मन की अशान्ति ।

२ • प्रकाश के रंग लक्ष्मी के पास आकर बोले—हमारा सहयोग करें। लक्ष्मी ने पूछा—तुम्हें प्रिय कौन ?

उन्होंने कहा—० नीयावित्ती अचवले

- ० अमाई अकुऊहले
- ० पियधम्मे दढधम्मे
- ० पयणुकोहमाणे य
- ० पसंतचित्ते दंतप्पा
- ० उवसंते जिइंदिए
- ० तहा पयणुवाई य
- ० वज्जभीरु हिएसए ।

फलतः—मन की शांति ।

नौ

एक बार लद्दमी के पास अंधकार के रंग मिलकर आए। जिसका व्यक्तित्व सार्वजनिक होता है, उसके पास सब धाते हैं। वह सबगा होता है। उसे सबके साथ सम्बन्ध रखना होता है। लद्दमी का व्यक्तित्व सार्वजनिक है। दुनिया में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है, जिसका सम्बन्ध लद्दमी से न हो या लद्दमी का सम्बन्ध उससे न हो। दुनिया का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो लद्दमी के बिना जी सके, उसकी छव्वछाया के बिना रह सके। इसलिए लद्दमी का व्यक्तित्व व्याग्र, विराट् और सार्वजनिक है। अंधकार के रंग लद्दमी के पास आकर बोले—‘देवि ! आप हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना, आपकी छव्वछाया के बिना हमारा राम्यान नहीं होता, हमारा कोई आदर नहीं करता। इसलिए जहां हमारा अस्तित्व है, हमारी प्रतिष्ठा है, वहां आपको हमारा सहयोग करना होगा और हमारे साथ रहना होगा। हम आपकी छव्वछाया के इच्छुक हैं।’ लद्दमी ने कहा—‘अच्छी बात है, आजगी।’ फिर लद्दमी के मन में प्रश्न उठा। उसने रंगों से पूछा—‘यह तो बताओ कि तुम्हारी छव्वछाया में रहने वाले लोग कौन हैं और कौन व्यक्ति तुम्हें अच्छे लगते हैं ?’ तब वे अंधकार के रंग बोले—‘जो व्यक्ति खुद होता है, ओर्छी वृत्ति वाला होता है, स्वार्थी होता है, जो बिना सोचे-समझे काम करने वाला होता है, जो नृशंस होता है, जिसका इन्द्रियों पर कोई अधिकार नहीं होता, जो आसन्न होता है, क्रोध करता है, बात-बात में द्वेष की भावना लाता है, जो शठता से परिपूर्ण है, प्रमत्त है, आलसी है, रसलोलुप और वरु आचरण वाला है, जिसका दृष्टि-कोण मिथ्या है, जो किसी भी बात को सम्यग् ग्रहण नहीं करता, जैसे—यदि उसे कोई कहे कि तुम भारी होते जा रहे हो तो वह कहता है—या तुम्हारे वाप की रोटी खाता हूँ ? कोई कहता है—तुम दुवले होते जा रहे हो तो वह कहता है—शरीर मेरा है, तुम्हें क्या चिन्ता ? वह किसी भी बात को सम्यग् ग्रहण नहीं करता, पत्नी खाने के लिए कहे तो भी लड़ेगा कि तुमने इतना जलदी खाने को क्यों कहा और यदि खाने के लिए न कहे तो भी लड़ेगा कि तुम मेरी देखभाल ही नहीं करती। वह पूरा का पूरा अन्यथा ग्रहण ही करता है, जो अप्रियमापी और कर्कश

लेते हैं तो प्रश्न स्वयं समाहित हो जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना वहिमुखी हो गया है कि हम मनुष्य का मूल्यांकन केवल पदार्थ के आधार पर करते हैं और केवल पदार्थ को ही धन या लक्ष्मी मानते हैं। दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मूल्यांकन का एक ही दृष्टिकोण नहीं है, कई दृष्टिकोण हैं।

भगवान् महावीर से पूछा गया—‘भंते! अल्प क्रृद्धिवाले जीव कौन हैं? महान् क्रृद्धिवाले जीवन कौन हैं?’ भगवान् ने कहा—‘नील-लेश्या के जीव अल्प क्रृद्धिवाले होते हैं, दरिद्र होते हैं। नील-लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा महर्द्धिक होते हैं, कापोत लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा से महर्द्धिक होते हैं, तेजो-लेश्या के जीव अधिक महर्द्धिक होते हैं, पद्म-लेश्या के जीव और अधिक क्रृद्धिशाली और शुक्ल लेश्या के जीव सबसे अधिक क्रृद्धिशाली होते हैं, वैभवशाली होते हैं। कृष्ण-लेश्या के जीव सबसे कम वैभवशाली होते हैं, और शुक्ल-लेश्या के जीव सबसे अधिक वैभवशाली होते हैं।’ महावीर ने यह नहीं कहा कि जो करोड़पति होता है, अरक्षपति होता है, वह महर्द्धिक है और जिसके पास सौ, हजार ही होता है, वह अल्प क्रृद्धिवाला है। उनके मूल्यांकन का दृष्टिकोण भिन्न है।

यदि वैभवशालिता और संपदा का यह दृष्टिकोण हमारे पास होता तो मन की अशान्ति का प्रश्न इतना जटिल नहीं होता। आज समूचे विश्व में मन की अशान्ति का प्रश्न बहुत ही जटिल बना हुआ है। उसका यही कारण है कि आदमी संपदा को एक आंख से देखता है। वाहर की संपदा को ही संपदा मानता है। एक आंख से देखे, किन्तु उसकी दूसरी आंख फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वह उस दूसरी आंख से भीतरी संपदा को भी देखे, भीतर भी ज्ञांके।

एक चारण कवि न्याय के लिए हाकिम के पास गया। हाकिम ने निर्णय ठीक नहीं किया, तब उसका कवि हृदय बोल उठा—

सुन हाकिम संग्राम कह, आंधो मत हवै यार।

औरां रे दो चाहिजै, थारै चाहिजै चार॥

—हाकिम साहब अंधे मत होओ। उचित न्याय करो। दो आंखें बाहर को देखने के लिए हैं और दो भीतर को देखने के लिए चाहिए।

लेश्या की भापा में मैं कह सकता हूँ कि हमारे भी चार आंखें होनी चाहिए। दो आंखें बाहर की संपदा को देखने के लिए और दो भीतर की संपदा को देखने के लिए? किन्तु लगता ऐसा है कि बाहर की संपदा को देखने के लिए तो हमारी ये दो आंखें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं, चार हो जाती हैं और भीतरी संपदा को देखने के लिए आंखें उपलब्ध ही नहीं हैं, आदमी अंधा बना हुआ है।

महावीर ने लेश्या के सिद्धान्त में, लेश्या के आधार पर क्रृद्धि और वैभव की चर्चा की। दो दृष्टिकोण होते हैं—एक है पदार्थ का और दूसरा है व्यक्ति का भाव और आचरण। जो व्यक्ति कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में रहता है, उसे बाहरी संपदा

कभी-कभार उपलब्ध भी हो जाती है, किन्तु व्यक्ति का आन्तरिक जीवन समाप्त हो जाता है। अध्यात्म साधना के संदर्भ में हम यह स्पष्ट समझें कि दीपावली के इस महान् पर्वपर हम केवल धन की ही कामना न करें, किन्तु गुणों की कामना करें। हम केवल बाहरी व्यक्तित्व को सुखी बनाने की ही कामना न करें, किन्तु आन्तरिक व्यक्तित्व को सुखी, समृद्ध और आनन्दमय बनाने की कामना करें। ये दोनों बातें होंगी तो सामाजिक व्यक्ति का जीवन पूरा बनेगा अन्यथा खिड़त रहेगा, टूटा हुआ रहेगा। बाहर का जीवन अखण्ड-सा लगेगा, पर भीतर सब कुछ टूटा-टूटा-सा होगा। बाहरी संपदा पाकर भी लगेगा कि भीतर रिक्तता है, खालीपन है। अभी कुछ पाया नहीं है। मन को कभी चैन नहीं होगा, शान्ति नहीं होगी। यह दरिद्रता वनी की वनी रहेगी। इसलिए इस अध्यात्म दीपावली को मनाने के लिए हम रंगों की उपासना करें, रंगों का ध्यान करें।

व्यक्तित्व को बदलने के तीन साधन हैं—

१. प्रेक्षा-ध्यान, २. भावना का प्रयोग, ३. रंगों का ध्यान।

दो साधनों की चर्चा हम कर चुके हैं। जो व्यक्ति प्रकाशमय रंगों का ध्यान करता है, वह अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। जो व्यक्ति अंधकार के रंगों का ध्यान करता है, वह अपने व्यक्तित्व को अंधकार से भर देता है, छिन्न-भिन्न कर देता है।

प्रकाश के दो-तीन रंगों की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। तेजो-लेश्या का बाल सूर्य जैसा लाल रंग है। लाल रंग निर्माण का रंग है। लाल रंग का तत्त्व है—अग्नि। हमारी सारी सक्रियता, शक्ति, तेजस्विता, दीप्ति, प्रवृत्ति—सबका स्रोत है, लाल रंग। लाल रंग हमारा स्वास्थ्य है। डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि रक्त में इवेत कण कितने हैं और लाल कण कितने हैं? लाल कण कम होते हैं तो वह अस्वास्थ्य का ढोतक है। लाल रंग प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है। वह बाहर से आने वाले को रोकता है, भीतर नहीं आने देता। लाल रंग में यह क्षमता है कि वह बाह्य जगत् से अन्तर्जगत् में ले जा सकता है। जब तक कृष्ण, नील और कापोत लेश्या काम करती है, तब तक व्यक्ति अन्तर्मुखी नहीं हो सकता, माध्यतिमक नहीं हो सकता, अन्तर्जगत् की याता नहीं कर सकता। वह आन्तरिक सुखों का अनुभव नहीं कर सकता। हम प्रेक्षा-ध्यान की प्रक्रिया में आन्तरिक सूक्ष्म स्पंदनों का अनुभव करना सिखाते हैं। मन जब सूक्ष्म होता है, तब वह सूक्ष्म कंपनों को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। तीसरी बात है—रंगों का अनुभव करना। जब तैजस्-शरीर के साथ हमारा संपर्क-स्थापित होता है, तब रंग दीखने लग जाते हैं। जब हम दर्शन केन्द्र को सक्रिय करते हैं, तब बाल-सूर्य का लाल रंग दीखने लग जाता है। उस समय व्यक्ति को कितनी आनन्दानुभूति होती है, वहाँ नहीं जा सकती। उस आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ही उसे जान सकता है, वह उसे बता नहीं

लेते हैं तो प्रश्न स्वयं समाहित हो जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना बहिर्मुखी हो गया है कि हम मनुष्य का मूल्यांकन केवल पदार्थ के आधार पर करते हैं और केवल पदार्थ को ही धन या लक्ष्मी मानते हैं। दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मूल्यांकन का एक ही दृष्टिकोण नहीं है, कई दृष्टिकोण हैं।

भगवान् महावीर से पूछा गया—‘भंते ! अल्प ऋद्धिवाले जीव कौन हैं ? महान् ऋद्धिवाले जीवन कौन हैं ?’ भगवान् ने कहा—‘नील-लेश्या के जीव अल्प ऋद्धिवाले होते हैं, दरिद्र होते हैं। नील-लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा महर्द्धिक होते हैं, कापोत लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा से महर्द्धिक होते हैं, तेजो-लेश्या के जीव अधिक महर्द्धिक होते हैं, पद्म-लेश्या के जीव और अधिक ऋद्धिशाली और शुक्ललेश्या के जीव सबसे अधिक ऋद्धिशाली होते हैं, वैभवशाली होते हैं। कृष्ण-लेश्या के जीव सबसे कम वैभवशाली होते हैं, और शुक्ल-लेश्या के जीव सबसे अधिक वैभवशाली होते हैं।’ महावीर ने यह नहीं कहा कि जो करोड़पति होता है, अरक्षपति होता है, वह महर्द्धिक है और जिसके पास सौ, हजार ही होता है, वह अल्प ऋद्धिवाला है। उनके मूल्यांकन का दृष्टिकोण भिन्न है।

यदि वैभवशालिता और संपदा का यह दृष्टिकोण हमारे पास होता तो मन की अशान्ति का प्रश्न इतना जटिल नहीं होता। आज समूचे विश्व में मन की अशान्ति का प्रश्न बहुत ही जटिल बना हुआ है। उसका यही कारण है कि आदमी संपदा को एक आंख से देखता है। वाहर की संपदा को ही संपदा मानता है। एक आंख से देखे, किन्तु उसकी दूसरी आंख फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वह उस दूसरी आंख से भीतरी संपदा को भी देखे, भीतर भी जांके।

एक चारण कवि न्याय के लिए हाकिम के पास गया। हाकिम ने निर्णय ठीक नहीं किया, तब उसका कवि हृदय बोल उठा—

सुन हाकिम संग्राम कह, आंधो मत हवै यार।

औरां रे दो चाहिजै, थारै चाहिजै चार॥

—हाकिम साहब अंधे मत होओ। उचित न्याय करो। दो आंखें वाहर को देखने के लिए हैं और दो भीतर को देखने के लिए चाहिए।

लेश्या की भाषा में मैं कह सकता हूँ कि हमारे भी चार आंखें होनी चाहिए। दो आंखें वाहर की संपदा को देखने के लिए और दो भीतर की संपदा को देखने के लिए ? किन्तु लगता ऐसा है कि वाहर की संपदा को देखने के लिए तो हमारी ये दो आंखें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं, चार हो जाती हैं और भीतरी संपदा को देखने के लिए आंखें उपलब्ध ही नहीं हैं, आदमी अंधा बना हुआ है।

महावीर ने लेश्या के सिद्धान्त में, लेश्या के आधार पर ऋद्धि और वैभव की चर्चा की। दो दृष्टिकोण होते हैं—एक है पदार्थ का और दूसरा है व्यक्ति का भाव और आचरण। जो व्यक्ति कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में रहता है, उसे वाहरी संपदा

कभी-कभार उपलब्ध भी हो जाती है, किन्तु व्यक्ति का आन्तरिक जीवन समाप्त हो जाता है। अध्यात्म साधना के संदर्भ में हम यह स्पष्ट समझें कि दीपावली के इस महान् पर्वपर हम केवल धन की ही कामना न करें, किन्तु मुझों की कामना करें। हम केवल वाहरी व्यक्तित्व को सुखी बनाने की ही कामना न करें, किन्तु आन्तरिक व्यक्तित्व को सुखी, समृद्ध और आनन्दमय बनाने की कामना करें। ये दोनों बातें हींगी तो सामाजिक व्यक्ति का जीवन पूरा बनेगा अन्यथा खण्डित रहेगा, टूटा हुआ रहेगा। वाहर का जीवन अखण्ड-सा लगेगा, पर भीतर सब कुछ टूटा-टूटा-सा होगा। वाहरी संपदा पाकर भी लगेगा कि भीतर रिवतता है, खालीपन है। अभी कुछ पाया नहीं है। मन को कभी चैन नहीं होगा, शान्ति नहीं होगी। यह दरिद्रता बनी की बनी रहेगी। इसलिए इस अध्यात्म दीपावली को मनाने के लिए हम रंगों की उपासना करें, रंगों का ध्यान करें।

व्यक्तित्व को बदलने के तीन साधन हैं—

१. प्रेक्षा-ध्यान, २. भावना का प्रयोग, ३. रंगों का ध्यान।

दो साधनों की चर्चा हम कर चुके हैं। जो व्यक्ति प्रकाशमय रंगों का ध्यान करता है, वह अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। जो व्यक्ति अंधकार के रंगों का ध्यान करता है, वह अपने व्यक्तित्व को अंधकार से भर देता है, छिन्न-भिन्न कर देता है।

प्रकाश के दो-तीन रंगों की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। तेजो-लेश्या का बाल सूर्य जैसा लाल रंग है। लाल रंग निर्माण का रंग है। लाल रंग का तत्त्व है—अग्नि। हमारी सारी सक्रियता, शक्ति, तेजस्विता, दीप्ति, प्रवृत्ति—सबका द्योत है, लाल रंग। लाल रंग हमारा स्वास्थ्य है। डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि रक्त में श्वेत कण कितने हैं और लाल कण कितने हैं? लाल कण कम होते हैं तो वह अस्वास्थ्य का द्योतक है। लाल रंग प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है। वह वाहर से आने वाले को रोकता है, भीतर नहीं आने देता। लाल रंग में यह क्षमता है कि वह बाह्य जगत् से अन्तर्जगत् में ले जा सकता है। जब तक कृष्ण, नील और काषेत लेश्या काम करती है, तब तक व्यक्ति अन्तर्मुखी नहीं हो सकता, माध्यतिमक नहीं हो सकता, अन्तर्जगत् की यात्रा नहीं कर सकता। वह आन्तरिक सुखों का अनुभव नहीं कर सकता। हम प्रेक्षा-ध्यान की प्रक्रिया में आन्तरिक सूक्ष्म स्पंदनों का अनुभव करना सिखाते हैं। मन जब सूक्ष्म होता है, तब वह सूक्ष्म कंपनों को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। तीसरी बात है—रंगों का अनुभव करना। जब तैजस्-शरीर के साथ हमारा संपर्क-स्थापित होता है, तब रंग दीखने लग जाते हैं। जब हम दर्शन केन्द्र को सक्रिय करते हैं, तब बाल-सूर्य का लाल रंग दीखने लग जाता है। उस समय व्यक्ति को कितनी आनन्दानुभूति होती है, वताई नहीं जा सकती। उस आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ही उसे जान सकता है, वह उसे बता नहीं

सकता। इस लाल रंग के अनुभव से, तेजो-लेश्या के स्पंदनों की अनुभूति से अन्तर्जंगत् की यात्रा प्रारम्भ होती है। लाल रंग नाड़ी-संस्थान और रक्त को सक्रिय बनाता है। जब हम दर्शन-केन्द्र पर लाल रंग का ध्यान प्रारम्भ करते हैं और जब वह ध्यान सधता है, तब आदतों में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो जाता है। कृष्ण, नील और काषोत-लेश्या के काले रंगों से होने वाली आदतें तेजो-लेश्या के प्रकाशमय लाल रंग से समाप्त होने लगती हैं। अचानक स्वभाव में परिवर्तन आता है।

पद्म-लेश्या का रंग पीला है। यह रंग बहुत शक्तिशाली होता है। यह गर्मी पैदा करने वाला रंग है। लाल रंग भी गर्मी पैदा करता है। उत्क्रमण की सारी प्रक्रिया गर्मी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तेजो-लेश्या में भी गर्मी बढ़ती है, पद्म-लेश्या में भी गर्मी बढ़ती है और जब वह गर्मी पूरी यात्रा में बढ़ जाती है, चरम शिखर को छू लेती है और गर्मी बढ़ने का अवकाश नहीं रहता तब शुक्ल-लेश्या के द्वारा गर्मी का उपशमन करते हैं और तब निर्वाण घटित हो जाता है।

शारीरिक दृष्टि से पीला रंग मस्तिष्क और नाड़ी-संस्थान को बल देता है। जिस बच्चे की बुद्धि और स्मृति-शक्ति कमजोर हो, मस्तिष्क कमजोर हो, उसे यदि पीले रंग के कमरे में रखा जाए तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति दस मिनट तक मस्तिष्क में पीले रंग का ध्यान करता है, उसका बुद्धिबल शक्तिशाली होता जाता है। पीले रंग का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वह है—चित्त की प्रसन्नता।

आज रंग के विज्ञान में बहुत खोजें हुई हैं और हो रही हैं। रंग का मनोविज्ञान कहता है कि पीला रंग मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। इससे मन की दुर्बलता मिटती है, आनन्द बढ़ता है। आगम कहते हैं—पीत-लेश्या से चित्त प्रशान्त होता है, शान्ति बढ़ती है और आनन्द बढ़ता है। दर्शन की शक्ति पीले रंग से विकसित होती है। दर्शन का अर्थ है—साक्षात्कार, अनुभव। इससे तर्क की शक्ति नहीं बढ़ती, साक्षात्कार की शक्ति बढ़ती है, अनुभव की शक्ति का विकास होता है।

पीले रंग की क्षमता है—मन को प्रसन्न करना, बुद्धि का विकास करना, दर्शन की शक्ति को बढ़ाना, मस्तिष्क और नाड़ी-संस्थान को सुदृढ़ करना, सक्रिय बनाना। यदि हम हृदय-केन्द्र-या आनन्द-केन्द्र पर पीले रंग का ध्यान करते हैं और मस्तिष्क तथा विशुद्धि-केन्द्र पर पीले रंग का ध्यान करते हैं तो अंधकार के रंगों द्वारा निर्मित आदतें विघटित होने लगती हैं और नई आदतें बननी प्रारम्भ हो जाती हैं। लेश्या-ध्यान का प्रयोग बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। यह जैन साधना पद्धति का अपूर्व प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा आत्म-साक्षात्कार की झलक मिलती है। साधकों को मिली है।

लेश्या कोरी जानने, देखने और रटने की वात नहीं है, यह साधना की पूरी प्रक्रिया है। यह समूचे व्यक्तित्व को बदलने की प्रक्रिया है। तीन काली लेश्याओं

ने जिस व्यक्तित्व का निर्माण कर रखा है, उसे विघटित करने के लिए तीन प्रकाश लेश्याएँ सक्षम हैं। वे नया व्यक्तित्व उभार देती हैं।

लेश्याओं के छः रंग हैं। उनमें तीन खराब हैं और तीन अच्छे। तीन प्रशस्त रंग हैं और तीन अप्रशस्त रंग हैं। काला, नीला और कवूतरिया(कापोत) ये खराब ही नहीं होते। हमें दो भेद करने होंगे—प्रकाश के रंग और अंधकार के रंग। अंधकार का काला, नीला और कापोत रंग खराब होता है और प्रकाश का काला, नीला और कापोत रंग अच्छा होता है। इसी प्रकार अंधकार का लाल, पीला और श्वेत रंग खराब होता है और प्रकाश का लाल, पीला और श्वेत रंग अच्छा होता है। कृष्ण-लेश्या विशुद्ध होती-होती नील-लेश्या बनती है। महावीर से पूछा—‘भंते ! क्या कृष्ण-लेश्या, नील-लेश्या और कापोत-लेश्या के परिणाम अप्रशस्त होते हैं ?’ महावीर ने कहा—‘ऐसा नहीं है। कृष्ण, नील और कापोत लेश्या के समय हमारे परिणाम प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों होते हैं। इसलिए सापेक्षता से कहा जाता है कि कृष्ण-लेश्या की अपेक्षा नील-लेश्या विशुद्ध है, नील-लेश्या की अपेक्षा कापोत लेश्या विशुद्ध है।’ हमें दो प्रकार करने होंगे—एक संक्लेश का और दूसरा असंक्लेश का। संक्लेश का चरम विन्दु है—कृष्ण-लेश्या और असंक्लेश का चरम विन्दु है—शुक्ल लेश्या। असंक्लेश अर्थात् विशुद्धि। विशुद्धि की जघन्य अवस्था है तेजो-लेश्या, मध्यम है पद्म-लेश्या और उत्कृष्ट है शुक्ल-लेश्या। संक्लेश का अर्थ है अविशुद्धि। अविशुद्धि का चरम विन्दु है—कृष्ण-लेश्या, मध्य है नील-लेश्या और जघन्य है कापोत-लेश्या।

सारे रंग खराब नहीं होते, सारे रंग अच्छे नहीं होते। श्वेत रंग भी यदि अंधकार का होता है तो खराब होता है और प्रकाश का होता है तो अच्छा होता है।

एक अमरीकी महिला वैज्ञानिक जा० जे० सी० ट्रस्ट ने मनुष्य के आभामण्डल के विषय में अनेक खोजें की। उसने रंगों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एक ये प्रकाश के रंग और एक ये अंधकार के रंग। उनकी तुलना प्रशस्त और अप्रशस्त रंगों से की जा सकती है। काला रंग खराब ही कहाँ होता है। वह संरक्षण देने वाला रंग है। ध्यान में भी काले रंग का बड़ा महत्व है। तीर्थंकरों की उपासना भी काले रंग से की जाती है। वैदिक साधना पद्धति में ब्रह्मा की उपासना लाले रंग से की जाती है, क्योंकि काला रंग संरक्षण का रंग है। महेश की उपासना काले रंग में की जाती है, क्योंकि शिव संहार करने वाले हैं।

काला रंग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। सफेद रंग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है।

अध्यात्म के विकास में वैग्ननी रंग का बहुत महत्व है। मनुष्य की हिंसात्मक

८८ आभामंडल

वृत्तियों को बदलने में यह रंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


आज इस लक्ष्मी पूजा और प्रकाश की पूजा के अवसर पर हम पवित्र रंगों का ध्यान करें। श्वेत और पीत रंग का ध्यान कर अपने पवित्र संकल्पों को अन्तर्जगत् तक पहुंचाकर हम ऐसी आराधना की पद्धति का विकास कर सकते हैं, जो लौकिक पद्धति से भी अधिक शक्तिशाली हो। इस पद्धति के दोनों लाभ हैं। मन की शांति और बुद्धि की निर्मलता से साधना का विकास भी होता है और बाह्य व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

शिवर-२

दिनांक : ५-१२-७८ से १३-१२-७८ तक

स्थान : लाडनूं (राजस्थान)

‘प्रज्ञा-प्रदीप’



१. ध्यान क्यों ?

- १ • सत्य को खोजने के लिए, चेतना की स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव करने के लिए, ज्ञाता को प्रतिष्ठित करने के लिए ।
- २ • चेतना को व्यापक बनाने के लिए—पदार्थ प्रतिबद्धता को तोड़ने के लिए ।
- ३ • अन्तर्दृष्टि को जागृत करने के लिए ।
- ४ • चैतन्य-केन्द्रों को जागृत करने के लिए ।
- ५ • लेश्या को रूपान्तरित करने तथा आभा-मंडल को स्वच्छ और शक्तिशाली बनाने के लिए ।
- ६ • चित्त को निर्मल, जागरूक, सशक्त और अन्तर्मुखी बनाने के लिए ।
- ७ • दुःख-मुक्ति के लिए ।
- ८ • प्रवृत्ति से शक्ति क्षीण होती है । निवृत्ति से शक्ति संरक्षित, विकसित होती है । समृति, विश्लेषण, चयन (निर्धारण) —ये सब लघु मस्तिष्क (सेरिवेलम) में संभव होते हैं । इनका विकास ध्यान द्वारा होता है ।
- ९ • विचार और संवेदन के नियंत्रण से अतीन्द्रिय ज्ञान होता है ।
- १० • भौतिकी वैज्ञानिक ईर्विन थ्रेंडिगर ने कहा—पदार्थ का मूल स्वरूप कण है या तरंग, यह विवाद उतना महत्त्व का नहीं, जितना कि जड़ और चेतन के पारस्परिक सम्बन्धों की गुत्थी सुलझाना ।

रुक्त

मन में यह प्रश्न सहज ही उभरता है कि ध्यान क्यों? प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्न क्यों? सक्रियता को छोड़कर निष्क्रियता क्यों? वेष्टा को छोड़कर निष्वेष्टा क्यों?

आदमी सामान्यतः आलसी होता है। कठिनाई से वह पुरुषार्थी होता है। कभी-कभी उसका पराक्रम जागता है, वह प्रयत्न करता है। संसार में प्रयत्न करने वालों की अपेक्षा अप्रयत्न करने वाले बहुत हैं। श्रम करने वालों की अपेक्षा श्रमन करने वाले अधिक हैं। पुरुषार्थी की अपेक्षा आलसी और अकर्मण्य बहुत हैं। ऐसी स्थिति में हम ध्यान का बहाना बनाकर अकर्मण्यता की दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्यों प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्न कर रहे हैं? यह प्रश्न मन में उठता है। यह स्वाभाविक प्रश्न है। हम यदि प्रयत्न और अप्रयत्न को ठीक से समझ लें तो प्रश्न समाहित हो सकता है। यदि समझने में तनिक भी भ्रान्ति हुई तो ध्यान के प्रति भी हम भ्रान्त हो जाएंगे।

प्रयत्न है जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। हमारा पराक्रम या श्रम-जीवन की इस नैया को खेने के लिए और श्वास की मर्यादा को निभाने के लिए। अप्रयत्न है जीवन की सचाई को पाने के लिए।

कर्म है जीवन यात्रा को चलाने के लिए और अकर्म है जीवन की सचाई को पाने के लिए।

प्रवृत्ति है जीवन की यात्रा के लिए और निवृत्ति है जीवन के सत्य को पाने के लिए।

जो लोग केवल कर्म करने वाले जीवन की यात्रा को चला सकते हैं, किन्तु जीवन की सचाई को उपलब्ध करने वाले प्रयत्न को नहीं छोड़ते, किन्तु केवल प्रयत्न करने वाले ध्यान करने वाले देते हैं। जो कर्म को नहीं छोड़ते व्यक्ति जीवन की यात्रा को चला सकता है, उसे निकलता है, उसे

निष्क्रियता में से उत्पन्न होती है। जो कर्म अकर्म में से निकलता है वह बहुत पवित्र और शक्तिशाली होता है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति में से जन्म लेती है, जो सक्रियता निष्क्रियता में से निकलती है, वह निर्दोष और स्वच्छ होती है। कर्म में सारे दोष इसीलिए आये हैं कि वे कर्म कर्म में से निकल रहे हैं। प्रवृत्ति में से प्रवृत्तियाँ निकल रही हैं। जब कर्म में से कर्म और प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती है तो व्यक्ति केवल कर्ममय और प्रवृत्तिमय बन जाता है। फिर उसके लिए कर्म साध्य बन जाता है, साधन नहीं रहता। कर्म साधन है। वह हमारे जीवन का साध्य नहीं है। प्रवृत्ति हमारी जीवन-यात्रा का साधन है, साध्य नहीं है। किन्तु जब प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती है, कर्म में से कर्म निकलता है तब प्रवृत्ति और कर्म साध्य बन जाते हैं, साधन नहीं रहते। इतना ही अन्तर है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साधन मानता है। जीवन-यात्रा का और ध्यान नहीं करने वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साध्य मानने लग जाता है। जीवन में एक बहुत बड़ी भ्रान्ति आ जाती है।

हम जीवन की सचाई को पाने के लिए अप्रयत्न करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में पदार्थ पर बहुत खोजें हुई हैं और आज भी खोज चालू है। पदार्थ की प्रकृति को, पदार्थ के अस्तित्व के कण-कण को छाना जा रहा है। सारी खोज पदार्थ पर हो रही है और पदार्थ की खोज के बहुत सारे नियम बन चुके हैं। वैज्ञानिक खोज के बाद एक धारणा बहुत ही स्पष्ट रूप से बन गई कि पदार्थ है, ज्ञेय है, विषय है किन्तु पदार्थ से परे कोई ज्ञेय नहीं है, विषय नहीं है। विषयी और विषय, ज्ञाता और ज्ञेय, पदार्थ और पदार्थीत सत्ता—ये दो वातें हैं। वैज्ञानिक खोजों के पश्चात् यह धारणा अत्यन्त पुष्ट हो गई कि केवल पदार्थ हैं, परमाणु हैं, परमाणुओं के स्वन्ध हैं, किन्तु उनसे परे कोई स्वतन्त्र चेतना नाम की सत्ता नहीं है। स्वतन्त्र ज्ञाता का कोई अस्तित्व नहीं है। आज पदार्थ इतना प्रधान बन गया कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सामने विलीन होता जा रहा है। मनुष्य गौण हो गया, पदार्थ मुख्य बन गया। पदार्थ सिंहासन पर बैठ गया और मनुष्य उसके सामने हाथ जोड़े चरणों में बैठ गया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उपकरणों के माध्यम से, घन्तों के माध्यम से, भौतिक साधनों के माध्यम से। जो व्यक्ति साधनों के माध्यम से खोज करेगा, वह पदार्थ तक ही पहुंच पाएगा, आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती। ये सारे आत्मा तक पहुंचने के साधन ही नहीं हैं। पौद्गलिक साधनों के द्वारा पौद्गलिक सत्ता को ही जाना जा सकता है, आत्मिक सत्ता को नहीं जाना जा सकता। पौद्गलिक सत्ता को जानने के लिए जितने नियम वैज्ञानिकों ने बनाए हैं और जो नियम काम में लिए जा रहे हैं वे पदार्थ की व्याख्या कर सकते हैं, किसी चेतन सत्ता की व्याख्या नहीं कर सकते। चेतन सत्ता उनका विषय भी नहीं बनती। इसीलिए वैज्ञानिक जगत् ने चेतन सत्ता को

रुक्त

मन में यह प्रश्न सहज ही उभरता है कि ध्यान क्यों? प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्न क्यों? सक्रियता को छोड़कर निष्क्रियता क्यों? चेष्टा को छोड़कर निष्वेष्टा क्यों?

आदमी सामान्यतः आलसी होता है। कठिनाई से वह पुरुषार्थी होता है। कभी-कभी उसका पराक्रम जागता है, वह प्रयत्न करता है। संसार में प्रयत्न करने वालों की अपेक्षा अप्रयत्न करने वाले बहुत हैं। श्रम करने वालों की अपेक्षा श्रमन करने वाले अधिक हैं। पुरुषार्थी की अपेक्षा आलसी और अकर्मण्य बहुत हैं। ऐसी स्थिति में हम ध्यान का बहाना बनाकर अकर्मण्यता की दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्यों प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्न कर रहे हैं? यह प्रश्न मन में उठता है। यह स्वाभाविक प्रश्न है। हम यदि प्रयत्न और अप्रयत्न को ठीक से समझ लें तो प्रश्न समाहित हो सकता है। यदि समझने में तनिक भी आन्ति हुई तो ध्यान के प्रति भी हम भ्रान्त हो जाएंगे।

प्रयत्न है जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। हमारा पराक्रम या श्रम-जीवन की इस नैया को खेने के लिए और श्वास की मर्यादा को निभाने के लिए। अप्रयत्न है जीवन की सचाई को पाने के लिए।

कर्म है जीवन यात्रा को चलाने के लिए और अकर्म है जीवन की सचाई को पाने के लिए।

प्रवृत्ति है जीवन की यात्रा के लिए और निवृत्ति है जीवन के सत्य को पाने के लिए।

जो लोग केवल कर्म करते हैं वे जीवन की यात्रा को चला सकते हैं, किन्तु जीवन की सचाई को उपलब्ध नहीं कर सकते। ध्यान करने वाले प्रयत्न को नहीं छोड़ते, किन्तु केवल प्रयत्न करने वाले ध्यान को छोड़ देते हैं। ध्यान करने वाले कर्म को नहीं छोड़ते, किन्तु केवल कर्म करने वाले ध्यान को छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति जीवन की सचाई को पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है, वह जीवन की यात्रा को चलाने के लिए कर्म भी करता है। उसका कर्म अकर्म में से ही निकलता है, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति में से ही निकलती है और उसकी सक्रियता

निष्क्रियता में से उत्पन्न होती है। जो कर्म अकर्म में से निकलता है वह बहुत पवित्र और शक्तिशाली होता है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति में से जन्म लेती है, जो सक्रियता निष्क्रियता में से निकलती है, वह निर्दोष और स्वच्छ होती है। कर्म में सारे दोष इसीलिए आये हैं कि वे कर्म कर्म में से निकल रहे हैं। प्रवृत्ति में से प्रवृत्तियां निकल रही हैं। जब कर्म में से कर्म और प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती हैं तो व्यक्ति केवल कर्ममय और प्रवृत्तिमय बन जाता है। फिर उसके लिए कर्म साध्य बन जाता है, साधन नहीं रहता। कर्म साधन है। वह हमारे जीवन का साध्य नहीं है। प्रवृत्ति हमारी जीवन-यात्रा का साधन है, साध्य नहीं है। किन्तु जब प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती है, कर्म में से कर्म निकलता है तब प्रवृत्ति और कर्म साध्य बन जाते हैं, साधन नहीं रहते। इतना ही अन्तर है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साधन मानता है। जीवन-यात्रा का और ध्यान नहीं करने वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साध्य मानने लग जाता है। जीवन में एक बहुत बड़ी आन्ति आ जाती है।

हम जीवन की सचाई को पाने के लिए अप्रयत्न करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में पदार्थ पर बहुत खोजें हुई हैं और आज भी खोज चालू है। पदार्थ की प्रकृति को, पदार्थ के अस्तित्व के कण-कण को छाना जा रहा है। सारी खोज पदार्थ पर हो रही है और पदार्थ की खोज के बहुत सारे नियम बन चुके हैं। वैज्ञानिक खोज के बाद एक धारणा बहुत ही स्पष्ट रूप से बन गई कि पदार्थ है, ज्ञेय है, विषय है किन्तु पदार्थ से परे कोई ज्ञेय नहीं है, विषय नहीं है। विषयी और विषय, ज्ञाता और ज्ञेय, पदार्थ और पदार्थतीत सत्ता—ये दो बातें हैं। वैज्ञानिक खोजों के पश्चात् यह धारणा अत्यन्त पुष्ट हो गई कि केवल पदार्थ हैं, परमाणु हैं, परमाणुओं के स्कन्ध हैं, किन्तु उनसे परे कोई स्वतन्त्र चेतना नाम की सत्ता नहीं है। स्वतन्त्र ज्ञाता का कोई अस्तित्व नहीं है। आज पदार्थ इतना प्रधान बन गया कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सामने विलीन होता जा रहा है। मनुष्य गौण हो गया, पदार्थ मुख्य बन गया। पदार्थ सिंहासन पर बैठ गया और मनुष्य उसके सामने हाथ जोड़े चरणों में बैठ गया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उपकरणों के माध्यम से, यन्त्रों के माध्यम से, भौतिक साधनों के माध्यम से। जो व्यक्ति साधनों के माध्यम से खोज करेगा, वह पदार्थ तक ही पहुंच पाएगा, आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती। ये सारे आत्मा तक पहुंचने के साधन ही नहीं हैं। पौद्गलिक साधनों के द्वारा पौद्गलिक सत्ता को ही जाना जा सकता है, आत्मक सत्ता को नहीं जाना जा सकता। पौद्गलिक सत्ता को जानने के लिए जितने नियम वैज्ञानिकों ने बनाए हैं और जो नियम काम में लिए जा रहे हैं वे पदार्थ की व्याख्या कर सकते हैं, किसी चेतन सत्ता की व्याख्या नहीं कर सकते। चेतन सत्ता उनका विषय भी नहीं बनती। इसीलिए वैज्ञानिक जगत् ने चेतन सत्ता को

नकारा है। उस अस्वीकार के कारण आज हमें ध्यान की उपयोगिता वस इतनी ही लगती है कि उससे तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, आदि-आदि। बस ध्यान की उपयोगिता समाप्त। किन्तु ध्यान केवल तनाव को कम करने के लिए ही नहीं है। यह सच है कि ध्यान से स्नायविक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव कम होते हैं, स्वास्थ्य सुधरता है, रक्तचाप में अंतर आता है, किन्तु यदि ध्यान का केवल यही उद्देश्य हो तो ध्यान की यात्रा बहुत छोटी होगी, उसकी उपयोगिता सीमित हो जाएगी। तब ध्यान हमारे लिए शरीर को पुष्ट और स्वस्थ करने वाला एक साधन मात्र होगा। इससे ज्यादा उसको कोई मूल्य नहीं मिलेगा। किन्तु हमने ध्यान का जो उपक्रम प्रारंभ किया है, वह कुछ विशिष्ट उद्देश्य से किया है। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी एक है। शारीरिक स्वास्थ्य भी कम मूल्यवान् नहीं है किन्तु शरीर से ज्यादा जिसका मूल्य है उसके मूल्य को मैं कम करना नहीं चाहता। सबसे अधिक मूल्यवान् है अपने अस्तित्व का बोध। जब तक अस्तित्व का बोध नहीं होता, तब तक स्वास्थ्य का प्रश्न जटिल ही बना रहेगा। हम इस बात को ही न मानें कि स्वास्थ्य का सम्बन्ध केवल परिस्थिति, मौसम या कीटाणुओं से ही है। स्वास्थ्य का प्रश्न बहुत गहरे में जुड़ा हुआ है। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध नहीं कर लेता तब तक स्वास्थ्य की समस्या को भी नहीं सुलझा सकता। सारी वीमारियां मिथ्या दृष्टिकोणों के कारण आती हैं। जब तक मिथ्यादृष्टि समाप्त नहीं होती तब तक दुःख समाप्त नहीं हो सकते। दुःखों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है सत्य की उपलब्धि, अस्तित्व की उपलब्धि। जब सत्य उपलब्ध होता है तब दुःखों के उन्मूलन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अन्त में उसका फलित होता है कि सारे दुःख उन्मूलित हो जाते हैं। साधक को 'सव्वदुक्खपहीणमग्नं'—दुःखों को प्रक्षीण करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है।

आज तक जिन लोगों ने दुःखों का उन्मूलन किया है, वे व्यक्ति सत्य को उपलब्ध थे। जिन्होंने सत्य को उपलब्ध नहीं किया, वे दुःखों से कभी नहीं छूटे। हो सकता है कि पत्तों और फूलों को तोड़कर यह मान लिया कि वृक्ष की जड़ें ही उखाड़ डालीं। यह भ्रान्ति है, किन्तु फूलों, फलों और पत्तों को तोड़ने मात्र से बात समाप्त नहीं होती। हमें जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा, तभी दुःख समाप्त हो सकेंगे।

मनुष्य जड़ की बात ही नहीं सोचता। वह केवल ऊपर की बात ही सोचता है। जो ऊपर दीखता है वह उसी की व्याख्या करता है, भीतर की व्याख्या नहीं करता। इसीलिए बहुत सारी समस्याएं पलती हैं। मनुष्य इः „माना चाहता है, नींव का पत्थर होना नहीं चाहता। मनुष्य पत्तों को देखत है, जड़ को नहीं देखता। जब तक जड़ को, नींव के पत्थर को नहीं देखा जाए, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

जो मूलभूत समस्या है, वह है अस्तित्व की समस्या। सारे दुःखों को यह जननी है। सब कुछ यहीं से आ रहा है। रोग एक दुःख है, मौत एक दुःख है। मौत इतना दुःख नहीं है, जितना दुःख मौत का भय है। जन्म इतना दुःख नहीं है, जितना दुःख जन्म का भय है। रोग इतना दुःख नहीं है, जितना दुःख रोग का भय है। इस प्रकार हम जाने-अनजाने एक प्रकार के अज्ञात भय से आक्रान्त हो जाते हैं और वह भय हमें निरन्तर सताता रहता है। बड़ी से बड़ी घटना घटित हो और यदि हम अपने मन को उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, अपने संवेदन को नहीं जोड़ते हैं तो कोई दुःख नहीं होगा।

एक मार्मिक घटना है। पिता को परदेश गए वारह वर्ष हो चुके थे। घर की याद सताने लगी। वह घर के लिए रवाना हुआ। वारहवर्षीय पुत्र भी पिता की खोज में निकला। संयोग ऐसा मिला कि एक ही धर्मशाला में दोनों ठहरे। दोनों एक दूसरे से अपरिचित। रात को पुत्र के पेट में भयंकर दर्द उठा। वह चिल्लाने लगा। पिता पास के कमरे में सो रहा था। चिल्लाहट के कारण उसकी नींद वार-वार टूट रही थी। उसने अपने सेवक से कहा—‘जाओ, उस चिल्लाहट को बन्द करो।’ सेवक गया। बच्चे के साथ भी नौकर थे। उनको सेठजी की बात कही। उन्होंने कहा—बच्चा है। पेट में भयंकर पीड़ा है। पीड़ा शान्त होते ही स्वतः चुप हो जाएगा। पेट का दर्द बढ़ता ही गया। सेठ झल्ला उठा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, जो चिल्ला रहा है उसे धर्मशाला से बाहर निकाल दो। दो सेवक गए और उस बच्चे को सामान सहित धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। दर्द बढ़ा और बालक एक घण्टा के भीतर-भीतर मर गया। चिल्लाहट शांत हो गई। सेठ ने सुख की नींद ली। सेठ को जब पता चला कि वह मर गया, तब उसने जानना चाहा कि वह कौन था? कहाँ से आया था? सेठ स्वयं बाहर गया। नीकरों से पूछताछ की तो पता चला कि वह उनका ही लड़का था। अब सेठ के प्राण बाहर निकलने लगे। और!...मेरा लड़का! पहले तो वह चिल्ला रहा था और अब सेठ चिल्लाने लगा। बच्चा चिल्ला रहा था तब उसे शांत करने वाला सेठ था, और अब सेठ चिल्ला रहा था तब उसे शांत करने वाला कोई नहीं था।

प्रश्न है कि दुःख कहाँ से आया? क्या वह लड़का मर गया इसलिए सेठ दुःखी हुआ? यदि लड़के के मरने पर सेठ दुःखी होता तो वह दस मिनट पहले ही दुःखी हो जाता। मरने पर उसे कोई दुःख नहीं हुआ, उसे बाहर निकाला तब भी उसे कोई दुःख नहीं हुआ। बच्चे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, संवेदना नहीं, सहयोग नहीं। केवल अपने अहं की पूर्ति करना चाहता था, केवल अपने अहं का प्रदर्शन करना चाहता था और वह सोच रहा था कि नींद खराब न हो जाए। पर उसे जैसे ही पता चला कि यह मेरा लड़का है, उस पर एक साथ ही दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। जब घटना के साथ मन जुड़ता है, प्रियता और अप्रियता के संवेदन की-

अनुभूति जुड़ती है तब अकस्मात् सुख या दुःख का अनुभव होता है। हमारे दुःख का मूल परिस्थिति नहीं है, पदार्थ नहीं है, घटना नहीं है। ये सब निमित्त बन सकते हैं। किन्तु जहाँ सुख और दुःख पैदा होता है वह सारा चेतनशक्ति की अनुभूति में पैदा होता है। हमने अनुभूति को निकाल दिया। केवल परिस्थितिवाद और घटनाचक्र, केवल पदार्थ पर सारा आरोपित कर दिया। जब तक मिथ्यादृष्टि समाप्त नहीं होती, तब तक दुःख के कारणों को समाप्त नहीं किया जा सकता, दुःख के उपादान को समाप्त नहीं किया जा सकता और दुःख की जड़ का उन्मूलन नहीं किया जा सकता।

सम्यक्दृष्टि का अर्थ है—मन को प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मुक्त करना। जब तक हमारा मन प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मुक्त नहीं होता तब तक हमें सम्यक्दृष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती। हम बड़े-बड़े शास्त्रों को रट लें, तत्त्वों के नाम याद कर लें, तत्त्वों का पारायण कर लें, फिर भी हमें सम्यक्दृष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती। यदि हम इस प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मुक्त नहीं हैं। यदि हमारा यह संवेदन समाप्त नहीं होता है तो हमें सत्य उपलब्ध नहीं होता और सत्य के उपलब्ध न होने पर सब दुःखों को समाप्त करने का कोई उपाय उपलब्ध नहीं होता। सम्यक्दृष्टि, सम्यक्त्व, सत्य सब एक ही हैं। सत्य हमें तब उपलब्ध होता है जब हम मूल सत्ता को जानें, अस्तित्व को जानें। ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि हम ज्ञाता को जानें, विषयी को जानें, द्रष्टा को जानें। द्रष्टा, ज्ञाता और विषयी—जो पदों के पीछे चला गया, हम उसका अनुभव करें। एक वैज्ञानिक उसे नहीं जान सकता, एक ध्यानी उसे जान सकता है। ध्यान के सारे नियम ज्ञाता तक पहुँचाने के नियम हैं। वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि वह उस परम सत्ता को जान सके। ध्यानी जिन विषयों के आधार पर चलता है अपने संवेदनों को शुद्ध करता चलता है, अपने भोक्ता स्वरूप को छोड़ता चलता है। उसे ज्ञाता स्वरूप का साक्षात् हो जाता है। सुख-दुःख का अनुभव उसे होता है जो भोक्ता होता है। भोक्ता वह होता है जो प्रियता और अप्रियता का अनुभव करता है। जो ज्ञाता होता है वह घटना को जानता है, भोगता नहीं। उसका काम है केवल जानना। जहाँ केवल जानने की वात आती है वहाँ ज्ञान शुद्ध हो जाता है, संवेदन शुद्ध हो जाता है। फिर केवल पदार्थ रहता है, कोरा पदार्थ, कोरी सत्ता। हम पदार्थ को पदार्थरूप में नहीं जानते, उसे किसी विशेषण के साथ जानते हैं। यथार्थ को यथार्थरूप में नहीं जानते, किसी विशेषण के साथ जानते हैं। हम परमाणु को परमाणु की दृष्टि से, सर्वों को सर्वों की दृष्टि से, गर्भों को गर्भों की दृष्टि से नहीं जानते। सर्वों का मौसम है और कमरे में यदि हीटर लगा हुआ हो तो लगेगा हीटर बहुत मूल्यवान है। जेठ की दुपहरी, चिलचिलाती धूप में यदि कोई कमरे में हीटर लगा दे तो लगेगा हीटर

जैसी निकम्मी वस्तु दूसरी नहीं है। हीटर का अपना कोई मूल्य नहीं है। हीटर न अच्छा होता है और न बुरा होता है। गर्मी के दिनों में वर्फ अच्छा लगता है और सर्दी के दिनों में वह अच्छा नहीं लगता। वर्फ न अच्छा है और न बुरा। पदार्थ का ठंडा होना भी एक पर्याय है और गर्म होना भी एक पर्याय है। जो व्यक्ति भोक्ता है, प्रियता और अप्रियता के संवेदन को अपने साथ जोड़े हुए है तो उसे गर्मी में ठण्डी वस्तु अच्छी लगेगी और सर्दी में गर्म वस्तु अच्छी लगेगी। यह अच्छा-बुरा लगना पदार्थ का गुण नहीं, धर्म नहीं और अस्तित्व नहीं। यह मात्र व्यक्ति के मन का संवेदन है। जब तक मन के साथ यह लगना जुड़ा होता है, जब तक मन के साथ 'प्रतिभाती' जुड़ी होती है तब तक पदार्थ को पदार्थ की आंख से नहीं देखा जाता, प्रियता या अप्रियता की आंख से ही देखा जाता है। जब तक प्रियता और अप्रियता का चश्मा लगा रहेगा तब तक पदार्थ जैसा है वैसा नहीं दीखेगा, किन्तु जैसा चश्मा है वैसा ही दीखेगा। हमें केवल चश्मे को उतारना है। चश्मे के कारण आंख भी प्रियता की आंख और अप्रियता की आंख बन गई है। इस चश्मे को हम उतार फेंकें। पदार्थ को केवल नंगी आंखों से देखें, पदार्थ की दृष्टि से देखें। यह होगी सम्यग्दृष्टि, सम्यग्दर्शन, सम्यक्त्व। यह होगा, तब घटना घटना रहेगी, चेतना चेतना रहेगी। घटना न सुख देगी और न दुःख देगी। सुख की चेतना और दुःख की चेतना—ऐसा भी घटित नहीं होगा। आज हमारी चेतना न शुद्ध चेतना है और घटना न शुद्ध घटना है। घटना चेतना को प्रभावित कर रही है और चेतना घटना को प्रभावित कर रही है। घटना और चेतना—दोनों में इतने विकार पैदा हो गए कि कोई शुद्ध नहीं रहा। घटना भी शुद्ध नहीं रही और चेतना भी शुद्ध नहीं रही। न आटा आटा रहा और न नमक नमक। दोनों का मिश्रण हो गया। आज अ-मिश्रण है क्या? लोग बाजार की मिलावट की बात करते हैं, किन्तु दृष्टिकोण के मिलावट की बात नहीं करते। कितना आश्चर्य! वैचारे व्यापारी कितनी मिलावट कर पाते हैं, किन्तु आदमी जागने से लेकर सोने तक मिलावट ही मिलावट करता है। सब कुछ मिलावट। हम मिलावट को छोड़कर पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखें। ध्यान के द्वारा आपको जो उपलब्ध होगा, वह विशुद्ध तत्त्व प्राप्त होगा, न पदार्थ समाप्त होगा और न चेतना समाप्त होगी। समाप्त किसी को नहीं करना है। बनाए रखना है। एक बार एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु से कहा—‘महाराज! आप मूर्तियों को समाप्त कर रहे हैं, उठा रहे हैं।’ आचार्य भिक्षु ने कहा—‘मैं कौन मूर्तियों को समाप्त करते वाला, मूर्तियों को उठाने वाला। मैं तो मूर्ति को मूर्ति मानता हूं, चेतना को चेतना मानता हूं और जड़ को जड़ मानता हूं और कुछ नहीं करता।’ ध्यान के द्वारा आपको और कुछ नहीं करना है, न पदार्थ को छोड़ना है और न अपने आपको छोड़ना है। केवल इतना ही करना है कि हम पदार्थ को पदार्थ के रूप में जानें और अस्तित्व को

अस्तित्व के रूप में जानें। वास्तव में करना कुछ भी नहीं है। सचाई का नाम ही है—नहीं करना। सचाई का नाम ही है कि जो जैसा हो उसे वैसा जानो। अपने अस्तित्व में होना सचाई है। स्वयं होता है। करने वाला कौन है? करने वाला कोई नहीं है। यह सारा उपचार है। पदार्थ होता है। दूसरा केवल निमित्त वनता है और वह मान लेता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। हम सब निमित्त हैं। कोई व्यक्ति उपादान नहीं वनता। कोई भी व्यक्ति इतना क्षम नहीं है कि वह उपादान को बदल दे। ईश्वर में भी वह शक्ति नहीं है। न वैज्ञानिक उपादान को बदल सकता है और न ध्यान योगी उपादान को बदल सकता है। यह सारा नाटक निमित्तों का है। हम निमित्तों का अभिनय करते चले जा रहे हैं और उसमें अपने कर्तृत्व को मानते चले जा रहे हैं। हमारा सारा कर्तृत्व निमित्तों का कर्तृत्व है, उपादान का कर्तृत्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अचेतन को चेतन बना दे या चेतन को अचेतन बना दे तो मानना होगा कि उसने उपादान का परिवर्तन किया है। पर ऐसा न हुआ है, और न होगा। आज के वैज्ञानिक जो जीन्स बनाते हैं, वे मात्र पर्यायों के परिवर्तन हैं, व्यवस्था का परिवर्तन हैं। उपादान का परिवर्तन नहीं है। आज शंकर बाजरा, कलमी आम होते हैं। यह दो नस्लों के संयोग से तीसरी जाति का उत्पादन है। खच्चर भी एक तीसरी जाति है। वह न घोड़ा है और न गधा। खच्चर तीसरी जाति का पशु है। सर्वत्र मिश्रण ही मिश्रण। वनस्पति में मिश्रण, पशुओं में मिश्रण। क्या यह सब उपादान का परिवर्तन है? नहीं, यह केवल निमित्तों का ही परिवर्तन है। न चेतना में परिवर्तन हुआ है और न पदार्थ के पुद्गल में परिवर्तन हुआ है। केवल संयोग के परिवर्तन से यह घटित होता है। उपकरणों में परिवर्तन हो जाता है। रस और गंध में परिवर्तन हो जाता है। एक ही लता पर सफेद फूल भी आते हैं और पीले फूल भी आते हैं। सफेद फूल वाली और पीले फूल वाली—दो भिन्न-भिन्न लताओं से यह वेल निर्मित हुई है यह एक तीसरी जाति बन गई। यह भी उपादान का परिवर्तन नहीं है। केवल निमित्तों का परिवर्तन है। हमारे शरीर, मस्तिष्क, इन्द्रिय तथा बुद्धि के जितने परमाणु हैं, उनमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया जाए, तब सब कुछ बदल सकता है। रंग और आकार बदल सकता है, गंध और रस बदल सकता है। इसे उपादान का परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।

डॉ० इरविन, डॉ० स्वेडिन जेम्स कहते हैं कि जो भौतिकी वैज्ञानिक हैं वे इस वात में उलझे हुए हैं कि पदार्थ का मूल कण क्या है? वे केवल इस वात को ही सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कोई बहुत महत्व का प्रश्न नहीं है। मूल गुत्थी यह है कि पदार्थ का मूल चेतन है या अचेतन? चेतन या अचेतन की पारस्परिक गुत्थी को कैसे सुलझाया जा सकता है? यह विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। विज्ञान ज्ञाता के बारे में अभी भ्रान्त है। उनके सामने प्रश्न है कि क्या चेतन

सत्ता है या नहीं? वर्तमान में पदार्थ के विषय में अनेक दृष्टियां स्पष्ट हुई हैं; किन्तु चेतन के विषय में अब भी उलझने हैं। ये उलझनें समाप्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि चेतन को जानने का एक मात्र उपाय है—स्वयं का अनुभव, अपने संवेदनों का निर्मलीकरण और उद्धर्वाकरण। जब तक हम अपने संवेदनों को निर्मल नहीं करेंगे, राग-द्वेष और मूर्च्छा का जीवन जीएंगे तब तक आत्मा के बारे में धारणा सही नहीं होगी, तब तक ज्ञाता के विषय में नहीं जाना जा सकेगा। आज धार्मिक लोग आत्मा के प्रश्न को शास्त्रों के माध्यम से हल करना चाहते हैं, तर्क के द्वारा समाधान देना चाहते हैं, आत्मा को वाचिक प्रयत्नों के द्वारा, वाङ्मय द्वारा जानना चाहते हैं, यह विचित्र स्थिति है। एक ओर यह कहा जाता है कि आत्मा तर्कतीत पदातीत और शब्दातीत सत्य है, दूसरी ओर हम उसे तर्क के द्वारा, पद के द्वारा, शब्द के द्वारा पाना चाहते हैं यह कितना विरोधाभास है! जो तर्कतीत है वह तर्क के द्वारा नहीं पाया जा सकता है। जो पदातीत है, वह पद के द्वारा नहीं पाया जा सकता। जो शब्दातीत है, वह शब्द के द्वारा नहीं पाया जा सकता। ऐसी स्थिति में हम उस परम सत्ता को इन माध्यमों से कैसे जान सकते हैं, पा सकते हैं?

आत्मा को हम स्वयं खोजें। हम केवल शास्त्रों पर निर्भर न रहें, केवल मान्यताओं पर निर्भर न रहें, किन्तु स्वयं खोजें। जब तक हम स्वयं नहीं खोजेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है। यह हमारे लिए शान्तिक सचाई है। ध्यान का प्रयोग किया, अपनी अत्तश्चेतना को जगाया, साक्षात्कार किया और जाना कि आत्मा है, तब वह अपनी सचाई बन जाती है, अनुभव की सचाई बन जाती है। किन्तु शब्दों को पढ़ने वाले के लिए वह केवल शान्तिक सचाई ही बनी रहती है। वच्चा जल में प्रतिविम्बित चांद को देखता है और उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है। वह मूल चांद नहीं है, उसका केवल प्रतिविम्ब है। शब्द भी उस आत्मा का वाचक है, प्रतिविम्ब है, मूल नहीं है। यदि हम मूल को देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे और केवल प्रतिविम्ब को ही देखते रहेंगे तो हमें प्रतिविम्ब ही हाथ लगेगा, मूल नहीं मिलेगा। सत्य को खोजने का अर्थ ही है कि हम प्रतिविम्ब पर न अटकें, आगे बढ़ें और मूल तक पहुंचने का प्रयत्न करें। यह हो सकता है कि जिसने आकाश में कभी चांद को नहीं देखा, उसमें प्रतिविम्ब को देखकर जिज्ञासा जाए कि मूल क्या है? इसी प्रकार जिसने आत्मा को न जाना हो, वह शास्त्रों में आत्मा शब्द को पढ़कर यह जानने का प्रयत्न करे कि यह क्या है? मूल क्या है? तो मैं कह सकता हूँ कि उस प्रतिविम्ब ने उसमें जिज्ञासा उभारी है। ऐसा होता है तो वह उस सीमा तक उचित है। किन्तु प्रतिविम्ब को ही सब कुछ मानकर बैठ जाना, मूल की जिज्ञासा ही न होना, उचित नहीं है।

ध्यान के द्वारा हम प्रतिविम्ब की दुनिया से हटकर मूल तक पहुंच सकते हैं।

यह एक सशक्त माध्यम है। आज सबसे बड़ी समस्या है—प्रतिविम्ब की समस्या। हम प्रतिविम्बों की छाया पर ही अपनी यात्रा चला रहे हैं। मूल वेचारा कहीं पड़ा है। विम्ब कहीं पड़ा है और प्रतिविम्ब पूजा जा रहा है।

एक मार्मिक कहानी है। एक कलाकार ने अपनी सारी बुद्धि लगाकर एक चित्र बनाया। उसमें उसने एक ग्रामीण महिला को चित्रित किया था। चित्र अत्यन्त स्वाभाविक था। ग्रामीण महिला सुन्दरता की प्रतिमूर्ति थी। सहज सौन्दर्य, प्राकृतिक सौन्दर्य। शहर में चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। उसमें वह चित्र भेजा गया। हजारों की भीड़। चित्रों की विक्री प्रारंभ हुई। महिला के उस चित्र पर पचास हजार की बोली लगी। एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। वह चित्र को लेकर प्रदर्शनी से बाहर निकला। एक स्त्री दरवाजे पर बैठी बिलख रही थी। वह ५-१० पैसों की भीख मांग रही थी। पचास हजार में चित्र को खरीदने वाले ने उस महिला को दुत्कार दिया। महिला ने चित्र देखा, वह स्तव्य रह गई। वह चित्र उसी का था। विम्ब ५-१० पैसों के लिए रो रहा है और प्रतिविम्ब विक रहा है पचास हजार में। कैसी विडम्बना !

ध्यान के अतिरिक्त ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो प्रतिविम्बों से हटाकर मूल तक पहुंचा दे। प्रतिविम्ब को विम्ब का मूल्य नहीं दिया जा सकता। विम्ब विम्ब होता है और प्रतिविम्ब प्रतिविम्ब।

२. तनाव और ध्यान [५]

१ • दर्शन का नया आयाम—अनुभव और प्रयोग।

२ • दो प्रकार के पदार्थ—

हेतुगम्य

अहेतुगम्य

- अनुभवगम्य
- स्व-संवेदनगम्य
- प्रयोगगम्य
- वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं
- आध्यात्मिक लोगों ने प्रयोग किए थे।

३ • वनस्पति जीव अहेतुगम्य। उसे अहेतुगम्य करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग।

४ • वनस्पति में श्रुतज्ञान। उसकी सिद्धि में व्याख्याकारों को कठिनाई। वैज्ञानिक प्रयोग से उस कठिनाई का समाधान उपलब्ध हो गया।

५ • वनस्पति में संवेदन है, स्मृति है, पहचान है।

६ • ध्यान द्वारा तनाव समाप्त होता है। तनाव का आदि-विन्दु भाव है उस पर जागने से तनाव समाप्त होता है।

दो

हम सत्य की खोज के लिए ध्यान कर रहे हैं। सत्य की खोज दो साधनों से हो सकती है। एक साधन है तर्क और दूसरा साधन है अनुभव या साक्षात्कार। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—हेतुगम्य और अहेतुगम्य। दूसरे शब्दों में—तर्कगम्य और तर्कातीत। पदार्थ के दो स्वरूप हैं—स्थूल और सूक्ष्म। पदार्थ के स्थूल पर्याय हमारी इन्द्रियों, मन और बुद्धि के विषय बनते हैं। तर्क के द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है, किन्तु पदार्थ का जो सूक्ष्म स्वरूप है, तर्कातीत स्वरूप है, वह इन्द्रिय, मन और बुद्धि का विषय नहीं बनता। सूक्ष्म पर्याय तर्कातीत होते हैं। वे इन्द्रिय मन और बुद्धि से नहीं पकड़े जा सकते।

मध्यकाल में दर्शन का स्वरूप बदल गया। उस पर तर्क हावी हो गया और यह मान लिया गया कि दर्शन को तर्क द्वारा ही समझा जा सकता है। दर्शन और तर्क—दोनों पर्यायवाची जैसे बन गए। किन्तु तर्क दर्शन का बहुत छिछला भाग है। समुद्र के टट को पूरा समुद्र नहीं कहा जा सकता। वह समुद्र का छिछला भाग है जहां सीपियां ही उपलब्ध होती हैं। समुद्र की गहराई में कुछ और ही उपलब्ध होता है। वहां रत्न मिलते हैं। दर्शन की गहराई तर्क से नहीं नापी जा सकती। तर्क के द्वारा दर्शन की व्याख्या नहीं की जा सकती। दर्शन का एक उथला भाग स्थूल पर्यायों को अभिव्यक्ति देता है। वह भाग भले ही तर्क के द्वारा समझा जा सकता हो किन्तु सूक्ष्म पर्याय की अभिव्यञ्जना तर्क के द्वारा नहीं हो सकती। वह केवल अनुभव के द्वारा हो सकती है। मध्यकाल की धारणा ने हमारी अनुभव की चेतना को सुला दिया। हम केवल तर्क के मन्थन में ही उलझ गए। स्व-अनुभव और प्रयोग-परीक्षण की बात ही छूट गई, विस्मृत हो गई। विज्ञान ने इसीलिए विकास किया कि वह केवल सिद्धांत के आधार पर नहीं चला, केवल तर्क के आधार पर नहीं चला। उसने सिद्धांत और तर्क का सहारा लिया, किन्तु उस पर ही आधूत नहीं रहा। दर्शन इसलिए कोई नई देन नहीं दे सका कि वह केवल तर्क के सहारे चलता रहा। उसने केवल शास्त्र, वाङ्मय और सिद्धांत का ही सहारा लिया। आज के विज्ञान की दौड़ में दर्शन इतना पीछे रह गया कि मानो दोनों में कोई

सम्बन्ध ही न हो। वास्तव में दर्शन और विज्ञान दो नहीं हैं। विज्ञान दर्शन से भिन्न नहीं है और दर्शन विज्ञान से भिन्न नहीं है। दर्शन पिता है तो विज्ञान उसका पुत्र है। पिता पुत्र से या पुत्र पिता से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। किन्तु आज वे सर्वथा भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल दो पीढ़ियों का ही अन्तराल है, किन्तु ऐसा लगता है कि मानो दोनों का स्वतंत्र मार्ग है। उनमें कोई भाई-चारा नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं है। पिता पुत्र का सम्बन्ध तो ही ही नहीं। आज दर्शन को नया आयाम देने की जरूरत है। यदि उसको नया आयाम नहीं दिया जाएगा तो दर्शन सर्वथा प्रयोगशून्य और अर्थशून्य बन जाएगा। मैं स्वयं दर्शन के ग्रन्थ लिखता रहा, दर्शन पर चिन्तन-मनन करता रहा, किन्तु वह सारा का सारा तर्क की सीमा में था। तर्क की परिक्रमा किए हुए था। तर्क की सीमा को लांघकर स्वर्य के अनुभव की बात कह सकूँ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता भी नहीं था कि इस तर्क-सीमा का अतिक्रमण करना चाहिए। किन्तु जब अध्यात्म की सीमा में प्रवेश कर अनुभव किया तब लगा कि जो दर्शन लिखा जा रहा है, वह दर्शन नहीं है, किन्तु वह मात्र शास्त्रों का और ग्रन्थों का समाकलन या वर्तमान की भाव-भाषा में प्रस्तुतीकरण है। इस संदर्भ में मुझे अनुभव हुआ कि दर्शन को नया आयाम मिलना चाहिए। वह मिल सकता है केवल अनुभव के धरातल पर, प्रयोग और परीक्षण के धरातल पर। जब से दार्शनिकों ने स्व-अनुभव और स्व-संवेदन तथा प्रयोग और परीक्षण की बात छोड़ दी तब से दर्शन का विकास अवरुद्ध हो गया। उसका उन्मेप रुक गया। वह जहाँ था वहीं रुक गया। ऐसी स्थिति में पुराने ग्रन्थों की व्याख्या में भी कठिनाई होने लगी। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैन सूत्रों में वनस्पति के जीवत्व-सम्बन्धी अनेक चर्चा-स्थल हैं। इस विषय की विशद चर्चा अन्यत्र दुर्लभ है। आगमकार दार्शनिक थे, स्वयं द्रष्टा थे। उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर निरूपण किया। यह अनुभव की बात थी, केवल ज्ञान की बात नहीं थी। साक्षात्कार से उपलब्ध सत्य का निरूपण था, केवल वौद्धिक व्यायाम नहीं था। वह उनका अपना 'स्व' था। किन्तु आगे के आगम-व्याख्याकार तर्क के जगत् में जन्मे थे। उनका अपना अनुभव नहीं था। उनका अपना संवेदन नहीं था। वनस्पति जैसे अव्यक्त चेतना वाले प्राणियों के साथ उनका साक्षात् संपर्क नहीं था। इसलिए साक्षात् द्रष्टाओं द्वारा निरूपित तथ्यों की व्याख्या में भी उन्हें कठिनाई महसूस होने लगी। वनस्पति के जीवों में दो ज्ञान होते हैं—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान। व्याख्याकारों को मतिज्ञान सम्बन्धी व्याख्या में बहुत कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि वह ज्ञान इन्द्रिय-चेतना से सम्बन्धित है। इन्द्रिय चेतना वनस्पति में होती है। पांचों इन्द्रियों नहीं होती, फिर भी एक स्पर्शन इन्द्रिय तो होती ही है। इसलिए व्याख्याकारों ने संतोष किया कि उसमें स्पर्शन इन्द्रिय है तो मतिज्ञान को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जब

प्रश्न उठा हि वनस्पति में श्रुतियाँ भी हो, तब उसकी आवश्या कठिन हो गई, क्योंकि श्रुतियाँ तब होता है जब भाषा हो, औरेन्ट्रिय हो, मन की विहसित अवस्था हो। किन्तु वनस्पति में न भाषा हो, न औरेन्ट्रिय हो, गोदन मन की विकासित अवस्था ही हो। उसमें दीर्घ लाइन ही संज्ञा नहीं होती जो अवृत्ति और भवित्व का ज्ञान संकलित कर सके गोदन वनस्पति में आनन्द भाव ही सामनी हो अतीत और भवित्व के साथ मनुष्यित्व हर सहे। यह भाषा-वनस्पति के दोनों में नहीं है। ऐसी स्थिति में उनमें श्रुतियाँ कैसे हो सकती हैं? उन्होंने त ही का संश्लेषण लिया, और तरह के द्वारा इस प्रश्नवाचना ही संश्लेषण के का प्रयत्न भी हिया। उनके पास बुद्धि थी, तरहेव था। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न हिया हि वनस्पति में श्रुतियाँ स्थाप्त नहीं हो, किंतु भी उसमें स्थाप्त श्रुतियाँ हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा—वनस्पति में वैज्ञानिकीय संज्ञा होती है, आहार ही संज्ञा होती है, भग और मैथुन की संज्ञा होती है। वरिष्ठ भी संज्ञा होती है। यह सारा कथन बुद्धि के बल पर, सहि के बल पर था। इसमें सामान्यताएँ वात नहीं थी। यदि दर्शन के साथ सामान्यताएँ भी प्रक्रिया जुड़ी होती, प्रयोग और परीक्षण की वात जुड़ी होती तो ये ग्रन्थामें वनस्पति के सम्बन्ध में आनन्द सामनी के आधार पर और नया हुआ हो गया। दूसरे में नया भोई देते। जिसने तथ्य वैज्ञानिक दे रहा है, उसने तथ्य के बहुण भी दे सकते थे। किन्तु ऐसा इतनिए नहीं हो सका है कि तामाकार की प्रक्रिया छूट गई हो। वर्तमान में हमारे पास रखद, तरह और चिन्तन के सिवाय कोई ज्ञान हो नहीं जिसके हि सामान्यताएँ वात की जा सके। इससे हमारी चेतना तुष्टित हो गई, रखें लंगड़ा बन गया, उसका एक पौर टुड़ गया या काट दिया गया। सामान्यताएँ बाला पैर कट गया और तरह बाला पैर लंगड़ाता-लंगड़ाता चलने लगा। गवसे शक्तिशाली पैर था अनुभव का। उसके कट जाने पर तरह की वैसाधी के सहारे रखने चलता रहा। वैसाधी की अपनी मजबूरी होती है। वह एक सीमित साधन है। उसके सहारे चलने वाला जल्दी थक जाता है। उसका पैर ही नहीं धक्कता, उसके कंधे और हाथ भी थक जाते हैं। दर्शन की यह स्थिति बन गई। वह लंगड़ा हो गया।

वैज्ञानिक जगत् में जब यह स्थापना हुई हि वनस्पति सजीव है, उसमें चेतना है, तब से विविध प्रयोग और परीक्षण होते लगे। डॉ० जगदीशचन्द्र बोस से लेकर आज तक प्रयोग चलते रहे और प्रतिदिन नयी-नयी जानकारियाँ हस्तगत होती गईं, जिनकी सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। डॉ० वेक्स्टर ने वनस्पति के विषय में बहुत प्रयोग किए। उसने यह स्थापना की कि वनस्पति में बहुत शक्तिशाली संवेदना होती है। वह मनुष्य के भावों को इतनी सूक्ष्मता से पकड़ सकती है कि आदमी भी उनको इतनी सूक्ष्मता से नहीं पकड़ सकता। वह प्रयोग कर रहा था। एक दिन उसकी अंगुली कट गई। घून रिसने लगा। पौधे पर लगे

गेल्वोनोमीटर की सुई तत्काल धूमी और पौधे ने अपनी व्यथा अंकित कर दी। उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर दी। डॉ० वेकस्टर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा—इस सुई के धूमने में कोई आकस्मिक घटना तो नहीं घटी है। फिर उसने प्रयोग किया। एक वटवृक्ष पर पोलिग्राफ लगा दिया। माली आया। वृक्ष ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सुई नहीं धूमी। कंपन नहीं हुआ। इतने में ही एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया। सारा वृक्ष कांप उठा। तत्काल सुई धूमने लगी। ग्राफ पर भय का अंकन हुआ। डॉ० वेकस्टर ने देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वृक्ष ने कैसे पहचाना कि वह माली था, उसे पोषण देने वाला और दूसरा लकड़हारा था, उसे काटने वाला? तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। कनाडा की एक महिला डॉ० वेकस्टर से मिलने आई। 'वह शरीरशास्त्री थी। वह पौधों पर प्रयोग करती थी। वह पौधों को सुखाकर ही नहीं, भट्ठी में भूनकर मार डालती थी। कई महीनों से यह प्रयोग चल रहा था। ज्यों ही वह डॉ० वेकस्टर के कमरे में आई, वहां के पौधों पर लगे गेल्वोनोमीटर की सुइयां धूमने लगीं। उनके अंकन से यह स्पष्ट हो रहा था कि सभी पौधे उस महिला की उपस्थिति में भयाक्रान्त हो गए थे। डॉ० वेकस्टर ने देखा। उसने महिला से पूछा—'क्या तुम पेड़ पौधे के अहित की सोचती रहती हो?' महिला ने कहा—'हां, मेरा प्रयोग ही ऐसा है कि मुझे पेड़ पौधों को जलाना होता है, काटना होता है। अभी भी मैं यह सोच रही थी कि पौधों को भूनकर उनका वजन लूँ।' जब तक वह महिला उस कमरे में रही, सुई धूमती रही और पौधे यह दिखाते रहे कि वे सब इस महिला से भयभीत हैं। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मीटर की सुई रिथर हो गई। पौधे शान्त हो गए। भय निकल गया।

पेड़-पौधे मनुष्य की भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ लेते हैं।

रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वी० एन० पुस्किन ने एक प्रयोग किया। तानिया नाम की एक सुन्दर युवती को सम्मोहित किया और उससे अनेक प्रश्न पूछे। वह लड़की उत्तर देती गई। प्रश्नों की ज़ड़ी लगा दी। लड़की प्रश्नों से बेचैन हो, गलत उत्तर देने लगी। जैसे ही उसने गलत उत्तर दिया, पौलिग्राफ की सुई ने उसका तत्काल खंडन कर डाला। ग्राफ पर ऐसा अंकन हुआ कि उससे सहज पता लग गया कि लड़की झूठ बोल रही है। पुस्किन ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के नाड़ी-संस्थान के साथ पौधों का कोई गहरा सम्बन्ध है।

ऐसे प्रयोग अनेक स्थानों पर हो रहे हैं। वनस्पति के विषय में अनेक नयी-नयी जानकारियां प्रकट हो रही हैं।

मनुष्य और वनस्पति—दोनों चेतन हैं। मनुष्य की चेतना विकसित है, संकल्प प्रस्फुटित है। उसकी इन्द्रियां स्पष्ट हैं, इन्द्रियों के संस्थान स्पष्ट हैं। मन का संस्थान बन गया। बुद्धि का केन्द्र बन गया। वनस्पति में यह सब नहीं है,

किन्तु जानने वाली जो आत्मा है वह उसमें भी विद्यमान है। मनुष्य अपने विशिष्ट संरचित संस्थानों के द्वारा जानता है और वनस्पति अपने समूचे शरीर से जानती है। आत्मा समूचे शरीर में विद्यमान है। आत्मा समूचे शरीर के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करती है। भगवती सूत में बतलाया गया है—‘सव्वेण सव्वे’—हमारी चेतना के असंख्य प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश के द्वारा आत्मा जानती है। किसी एक ही प्रदेश से नहीं जानती। सब प्रदेशों से जानती है। आप यह न मानें कि हम आंखों से ही देख सकते हैं, मस्तिष्क से ही सोच सकते हैं। हम समूचे शरीर से देख सकते हैं, सोच सकते हैं। एक्यूपंक्चर के वैज्ञानिक ने हमारे शरीर में सात सौ चैतन्यकेन्द्र खोज निकाले हैं। जो मस्तिष्क में हैं, वही केन्द्र अंगूठे में भी है। जो मस्तिष्क में है; वही केन्द्र अंगुलियों में भी है। पिनियल, पिच्यूटरी और थाइराइड के जो स्थान हैं, वे स्थान हाथों और पैरों में भी हैं। हमारा समूचा शरीर चेतना का केन्द्र है। उसमें जानने की अपार क्षमता है। कान ध्वनि पकड़ने का माध्यम है। किन्तु जिनके कान नहीं हैं, वे समूचे शरीर से ध्वनि को पकड़ लेते हैं। शरीर की संवेदना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि समूचे शरीर से वे ध्वनि को पकड़ लेते हैं। ध्वनि को पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ध्वनि पकड़ने के माध्यम से कान को विकसित कर हमने ध्वनि को सीमित कर दिया। हम कानों पर इतने निर्भर हो गए कि हम केवल कानों से ही सुन सकते हैं। अतीन्द्रिय क्षमताएं विस्मृत हो गईं। ध्वनि तब होती है जब कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है तरंग। जो व्यक्ति तरंगों को, सूक्ष्म प्रकम्पनों को पकड़ सकता है वह जितना जान सकता है, उतना ध्वनि को सुनने वाला नहीं जान सकता। हम इन्द्रियों पर इतने निर्भर हो गए कि जब कानों में कोई शब्द पड़ता है तभी हम सुन सकते हैं। कान की क्षमता सीमित है। अमुक फीवेन्सी के शब्द ही सुन पाता है। पकड़ पाता है। किन्तु जो व्यक्ति प्रकम्पनों को पकड़ सकता है, वह सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ सकता है, जान सकता है। तीर्थकर जब बोलते हैं, तब सुनने वाले उसे अपनी-अपनी भाषा में समझ जाते हैं। पश्च भी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। यह कैसे होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तीर्थकर बोलते नहीं, दिव्य ध्वनि निकलती है, यदि हम इस बात को मान लें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तीर्थकर के बाणी के नहीं, मन के परमाणु निकलते हैं, उनमें स्पंदन होता है। उन स्पंदनों को लोग पकड़ते हैं और वे उनको अर्थ-वोध करा देते हैं। भाषा के पुद्गल नहीं पकड़े जा सकते, तरंगों को पकड़ा जा सकता है, स्पंदनों को पकड़ा जा सकता है। हमारे पास तरंगों को पकड़ने की क्षमता अधिक है, भाषा को पकड़ने की क्षमता कम है। जब हमने यह मान ही लिया कि कान ही सुनने का साधन है तब हमने अन्य क्षमताओं को विस्मृत कर दिया। आज का विज्ञान कहता है कि कानों की अपेक्षा दांतों से अच्छा सुना जा सकता है। दांत सुनने के शक्ति-

शाली साधन हैं। यदि थोड़ा-सा यांत्रिक परिवर्तन किया जाए तो जितना अच्छा दांत से सुना जा सकता है, उतना अच्छा कान से नहीं सुना जा सकता। एक लघुविधि का नाम है—संभिन्न-श्रोतो-लघुविधि। जो व्यक्ति इस लघुविधि से सम्पन्न होता है, उसकी चेतना का इतना विकास हो जाता है कि उसका समूचा शरीर कान, आंख, नाक, जीभ और स्पर्श का काम कर सकता है। उसके लिए कान से सुनना या आंख से देखना आवश्यक नहीं होता। वह शरीर के किसी हिस्से से सुन सकता है, देख सकता है। वह पांचों इन्द्रियों का काम समूचे शरीर से ले सकता है। उसके ज्ञान का स्रोत संभिन्न हो जाता है, व्यापक बन जाता है। समूचा शरीर संभिन्न हो जाता है, व्यापक हो जाता है।

यह अनुभव का पक्ष है। यह तर्क का विपर्य नहीं बनता। दर्शन ने इसको भुला दिया। उसका परिणाम बहुत विपरीत हुआ। आज फिर से दार्शनिकों को, दर्शन के विद्यार्थियों को, धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों को चिन्तन करना चाहिए कि दर्शन को तर्क के कटघरे से निकालकर अनुभव के व्यापक क्षेत्र में कैसे लाया जा सकता है। दर्शन को हम अनुभव के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें, जिससे कि दर्शन फिर पिता का स्थान ले सके और अपने पुत्र (विज्ञान) पर नियमन कर सके। नियमन इस अर्थ में कि आज के विज्ञान ने नये-नये सत्यों को खोजा है। उसने नये-नये पर्याय उद्घाटित किए हैं; नये-नये रहस्यों को अनावृत किया है। इस दिशा में वह बहुत सक्षम हुआ है, किन्तु जो मूल ज्ञाता है आत्मा, उसको मूल स्थान दिलाने में सफल नहीं हुआ है। वह भी भटका हुआ है। जानने के बाद प्रत्याख्यान की बात आती है, छोड़ने की बात आती है। यह बात विज्ञान को भी आज उपलब्ध नहीं है। यदि दर्शन फिर सक्षम बन सकें, तर्क और अनुभव—दोनों का उचित प्रयोग कर सकें तो विज्ञान का पिता दर्शन पुनः शक्तिशाली हो सकता है। तब ही वह विज्ञान को नया आयाम दे सकता है। दर्शन के साथ स्व-अनुभव की बात जोड़ी जाए। विज्ञान का इतना विकास होने पर भी आदमी अशान्ति का अनुभव कर रहा है और अधिकाधिक तनावग्रस्त होता जा रहा है। विज्ञान के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वह आदमी को तनाव से सर्वथा मुक्त कर सके। किन्तु दर्शन मनुष्य को तनाव मुक्त करने में सक्षम है। तर्कों से अनुप्राणित दर्शन यह नहीं कर सकता। यह वह दर्शन कर सकता है जो अद्यात्म से अनुप्राणित है, स्वानुभव संरचित है। दर्शन के इस पक्ष को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

जगत् क्या है? द्रव्यों का समवाय ही जगत् है। उस द्रव्य समवाय में एक द्रव्य है—जीवास्तिकाय। जीवों का इतना बड़ा संघटन है कि जगत् के आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो जीवशून्य हो। समूचा जगत् जीवों के समवाय से भरा पड़ा है। आकाश के एक-एक प्रदेश में असंख्य जीव हैं। मेरी अंगुली हिल रही है, यह शून्य आकाश में नहीं हिल रही है। इस अंगुली के आत्म-पात्र ही नहीं,

समानान्तर रेखाओं पर चलती हैं। राग से उत्पन्न होता है लोभ। लोभ से उत्पन्न होती है माया। माया से उत्पन्न होता है अहंकार और अहंकार से उत्पन्न होता है क्रोध। हमारे जगत् की सबसे अधिक व्यक्त चेतना है—क्रोध-चेतना। अहंकार-चेतना सबसे सूक्ष्म है और माया-चेतना उससे भी अधिक सूक्ष्म है। इसीलिए माया-का एक नाम है—गूँड़, अस्पष्ट। लोभ-चेतना उससे भी सूक्ष्म है और राग-चेतना उससे भी सूक्ष्म है, अव्यक्त है। सबसे व्यक्त है—क्रोध-चेतना। मनुष्य जब क्रोधी-होता है तब उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, आँखें तमतमा जाती हैं, भृकुटी तन जाती है, सारा शरीर कांपने लगता है। किन्तु जब आदमी अहंकार करता है, माया-करता है, लोभ में होता है तब कुछ भी पता नहीं चलता। शरीर पर इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह हमारा अव्यक्त जगत् है। हम अव्यक्त से व्यक्त होते-होते जब क्रोध-चेतना पर आते हैं तब पूरे व्यक्त बन जाते हैं। हम अव्यक्त जगत् से चले और व्यक्त जगत् तक पहुंच गए। हम द्रव्य जगत् से चले और क्रोध की चेतना तक पहुंच गए। हमारे व्यक्तित्व का विस्तार हुआ और हमारा एक-एक पर्याय प्रकट होता चला गया। इसीलिए आगमकारों ने क्रम दिया—क्रोध, मान, माया और लोभ। यह क्रम निरर्थक नहीं है। उन्होंने लोभ, मान, माया, क्रोध—यह क्रम क्यों नहीं रखा? शब्दों का क्रम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। हम गहराई से सोचें तो सचाई का पता लग सकता है। जब हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं तब पहले क्रोध आता है। क्रोध से चलेंगे तो अहंकार होगा। क्रोध अहंकार में विलीन हो जाएगा। अहंकार से चलेंगे तो अहंकार माया में विलीन हो जाएगा। माया से चलेंगे तो वह लोभ में विलीन हो जाएगी।

तनाव के बारे में मैंने चर्चा प्रारंभ की। उसके कुछेक पहलुओं को ही आज छूआ है। विस्तृत चर्चा आगे करूँगा।

प्रश्न १. भगवान् महावीर की भाषा को सब अपने-अपने ढंग से समझ लेते-थे। उन ध्वनि-तरंगों को समझने का उपाय क्या है?

उत्तर—तरंगों को समझने का वही उपाय है जो हम कर रहे हैं। जब तक विचारों और संवेदनों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक तरंगों की भाषा नहीं समझी जा सकेगी। हम इसीलिए लेश्या की चर्चा कर रहे हैं। लेश्या की भाषा तरंगों की भाषा है। जो व्यक्ति लेश्या की भाषा को समझने लग जाता है वह तरंगों की भाषा को समझ सकता है। जब तरंगों की भाषा मन की भाषा में, चिन्हों की भाषा में जा जाती है तब हम उसे समझ सकते हैं। जब चिन्हों की भाषा अक्षरों की भाषा में बदल जाती है तब हम अपनी चेतना को समझ सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। यदि हमें तरंगों का विज्ञान करना है तो हमें लेश्या जगत् में जाना होगा और लेश्या जगत् में तभी जाया जा सकता है जब हम अपने विचारों और संवेदनों पर-

भीतर भी असंख्य जीव वैठे हैं। आकाश के एक-एक प्रदेश में, एक-एक कण में असंख्य जीव वैठे हैं। उनके चैतन्य के प्रदेश व्याप्त हो रहे हैं। तीन बातें हैं—द्रव्य-मय संसार, द्रव्यों में जीवास्तिकाय और जीवास्तिकाय में एक जीव। एक जीव है किन्तु वह अव्यक्त है। हम अव्यक्त से व्यक्त जगत् को जानना चाहते हैं। हम अव्यक्त सूष्टि की ओर चलना चाहते हैं। द्रव्य अव्यक्त, जीवास्तिकाय अव्यक्त और एक जीव भी अव्यक्त। हमारे सामने व्यक्त नहीं है। एक जीव है। उस जीव के आस-पास भाव-संस्थान हैं। एक भाव-संस्थान चेतना का निर्वहन करता है, चेतना की धारा को बाह्य जगत् में संक्रान्त करता है। एक वह भाव-संस्थान है जो चेतना के साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रियाओं के प्रवाह को इस जगत् में प्रस्तुत करता है। इसका नाम है कर्म। दो प्रवाह हो गए। एक है चेतना का प्रवाह और दूसरा है चेतना की प्रक्रियाओं का प्रवाह। भाव-संस्थान से जुड़ा हुआ है कर्म, प्रतिक्रियाओं का संस्थान। उस कर्म से जुड़ा हुआ है मोहनीय, मूर्च्छा। द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव, भाव और कर्म—यह सारा का सारा अव्यक्त संसार है। यह हमारे सामने व्यक्त नहीं है। अब हम प्रेक्षाध्यान के माध्यम से व्यक्त के विन्दु पर आ रहे हैं, मूर्च्छा का हमें पता चलता है। इसे हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, किन्तु मूर्च्छा भी पूरी व्यक्त नहीं है। मोहनीय भी पूरा व्यक्त नहीं है। मूर्च्छा के बाद आता है राग, थोड़ा व्यक्त होता है। मूर्च्छा से पैदा होता है राग। द्वेष का कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं है। फाइड ने 'काम' (sex) को प्राणीमात्र की मौलिक मनोवृत्ति माना है। राग और सेक्स (काम) में भाषा-भेद है, अर्थ-भेद नहीं है। फाइड ने जिस संदर्भ में 'काम' की व्याख्या की और आगम ने जिस संदर्भ में राग की व्याख्या की, यदि हम संदर्भों को सही समझ लेते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं आता। अन्तर केवल इतना ही आता है कि फाइड का ज्ञान केवल सेक्स तक ही पहुंच पाया, आगे नहीं जा सका। आगमकार सूक्ष्मज्ञानी थे। उनका अपना अनुभव था, साक्षात्कार था। वे राग तक पहुंच कर ही नहीं रुके आगे वढ़े और द्रव्य तक पहुंच गए। काम की वृत्ति को मूल मानकर मनुष्यों के व्यवहारों की व्याख्या करने में आज मनोविज्ञान के सामने अनेक कठिनाइयां हैं। वे कठिनाइयां इसलिए समाहित नहीं होतीं कि मनोविज्ञान के पास 'काम' सेक्स से आगे व्याख्या करने का कोई आधार ही नहीं है, कोई सूत्र ही नहीं है। किन्तु हमारे पास राग से पूर्व व्याख्या करने के बहुत स्पष्ट आधार हैं; सूत्र हैं। राग के पीछे मूर्च्छा है। मूर्च्छा के पीछे कर्म-शरीर है, कर्म है। कर्म के पीछे हमारा भाव-संस्थान है। भाव-संस्थान के पीछे चेतना का प्रहार है इसलिए मनोविज्ञान के सामने आज जो-जो समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान करने वाले सूत्र और आधार हमें उपलब्ध हैं। मनोविज्ञान के पास वे साधन उपलब्ध नहीं हैं।

उधर हम काम से चले और इधर हम राग से चले। आगे दोनों विचारधाराएं

समानान्तर रेखाओं पर चलती हैं। राग से उत्पन्न होता है लोभ। लोभ से उत्पन्न होती है माया। माया से उत्पन्न होता है अहंकार और अहंकार से उत्पन्न होता है क्रोध। हमारे जगत् की सबसे अधिक व्यक्त चेतना है—क्रोध-चेतना। अहंकार-चेतना सबसे सूक्ष्म है और माया-चेतना उससे भी अधिक सूक्ष्म है। इसीलिए माया का एक नाम है—गूढ़, अस्पष्ट। लोभ-चेतना उससे भी सूक्ष्म है और राग-चेतना उससे भी सूक्ष्म है, अव्यक्त है। सबसे व्यक्त है—क्रोध-चेतना। मनुष्य जब क्रोधी होता है तब उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, आँखें तमतमा जाती हैं, भृकुटी तन जाती है, सारा शरीर कांपने लगता है। किन्तु जब आदमी अहंकार करता है, माया करता है, लोभ में होता है तब कुछ भी पता नहीं चलता। शरीर पर इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह हमारा अव्यक्त जगत् है। हम अव्यक्त से व्यक्त होते-होते जब क्रोध-चेतना पर आते हैं तब पूरे व्यक्त बन जाते हैं। हम अव्यक्त जगत् से चले और व्यक्त जगत् तक पहुंच गए। हमारे व्यक्तित्व का विस्तार हुआ और हमारा एक-एक पर्याय प्रकट होता चला गया। इसीलिए आगमकारों ने क्रम दिया—क्रोध, मान, माया और लोभ। यह क्रम निर्णयक नहीं है। उन्होंने लोभ, मान, माया, क्रोध—यह क्रम क्यों नहीं रखा? शब्दों का क्रम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। हम गहराई से सोचें तो सचाई का पता लग सकता है। जब हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं तब पहले क्रोध आता है। क्रोध से चलेंगे तो अहंकार होगा। क्रोध अहंकार में विलीन हो जाएगा। अहंकार से चलेंगे तो अहंकार माया में विलीन हो जाएगा। माया से चलेंगे तो वह लोभ में विलीन हो जाएगी।

तनाव के बारे में मैंने चर्चा प्रारंभ की। उसके कुछ पहलुओं को ही आज छूआ है। विस्तृत चर्चा आगे करूंगा।

प्रश्न १. भगवान् महावीर की भाषा को सब अपने-अपने ढंग से समझ लेते-थे। उन ध्वनि-तरंगों को समझने का उपाय क्या है?

उत्तर—तरंगों को समझने का वही उपाय है जो हम कर रहे हैं। जब तक विचारों और संवेदनों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक तरंगों की भाषा नहीं समझी जा सकेगी। हम इसीलिए लेश्या की चर्चा कर रहे हैं। लेश्या की भाषा तरंगों की भाषा है। जो व्यक्ति लेश्या की भाषा को समझने लग जाता है वह तरंगों की भाषा को समझ सकता है। जब तरंगों की भाषा मन की भाषा में, चिन्हों की भाषा में आ जाती है तब हम उसे समझ सकते हैं। जब चिन्हों की भाषा अक्षरों की भाषा में बदल जाती है तब हम अपनी चेतना को समझ सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। यदि हमें तरंगों का विकास करना है तो हमें लेश्या जगत् में जाना होगा और लेश्या जगत् में तभी जाया जा सकता है जब हम अपने विचारों और संवेदनों पर-

नियंत्रण करना सीख जाएं। हम श्वास को देखने का अभ्यास करते हैं। श्वास के सिवाय और कुछ न देखें, श्वास को ही देखें। यह संवेदन और विचारों के नियंत्रण का मार्ग है। यह अभ्यास जैसे-जैसे विकसित होगा, तरंगों की भाषा को समझने में भी उतने ही सक्षम होते जाएंगे।

प्रश्न २. क्या महावीर के समय के सभी लोगों और पशु-पक्षियों में यह क्षमता थी?

उत्तर—टेढ़ा प्रश्न है। पशु-पक्षियों में संवेदनों को समझने की शक्ति मनुष्यों से अधिक विकसित है। क्योंकि वे अपने स्नोतों पर भरोसा नहीं करते, अपने समूचे शरीर पर भरोसा करते हैं। मनुष्य ने अपने स्नोतों पर अधिक भरोसा कर लिया इसलिए समूचे शरीर से जानने की क्षमता को गंवा बैठा। किन्तु कोई समर्थ योगी, समर्थ अद्यात्म का तेजःपुंज होता है, उसके प्रकारणों में इतनी क्षमता होती है कि वे अनेक व्यक्तियों की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देते हैं। उसमें केवल सुनने वाले की क्षमता का ही योग नहीं होता, उस साधक के परमाणुओं का भी बहुत बड़ा योग होता है जो संप्रेक्षण कर रहा है।

प्रश्न ३. क्या सुषुम्ना की नाड़ी सीधी नहीं होती? क्या बिना सीधी हुए ध्यान नहीं होता?

उत्तर—सुषुम्ना का आकार विलकुल सीधा तो नहीं है, कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है। हम इसकी चिन्ता ही न करें। हम केवल इतना ध्यान रखें कि बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। पद्मासन इसके लिए अच्छा है। इस आसन में बैठने पर रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी बनी रहती है। इसी प्रकार अर्धपद्मासन, सिद्धासन आदि आसनों में बैठने से भी रीढ़ की हड्डी सीधी रह सकती है। हम झुककर न बैठें। झुककर बैठना साधारण-सी बात है। जब कभी सीधा बैठने की बात आती है तब लोग शिकायत करते हैं कि दर्द हो गया। दर्द हुआ नहीं, दर्द का पता चल गया। जो दर्द पाल रखा था, वह छुपा हुआ था, उसका पता लग गया। मन के विकल्पों को शान्त करने का यह सबसे सरल तरीका है कि हम चेतना को सुषुम्ना के मार्ग से ले जाएं। प्राण को उसी मार्ग से ऊपर-नीचे ले जाएं। चेतना जितनी आगे रहेगी चंचलता बढ़ेगी, चेतना जितनी सुषुम्ना की ओर जाएगी चंचलता घटेगी। चेतना को आगे-आगे रखने का अर्थ है फूलों को सींचना। चेतना को पीछे ले जाना, सुषुम्ना में ले जाने का अर्थ है जड़ को सींचना। अब हम स्वयं सोचें कि फूलों को सींचने से फूल हरे-भरे रहते हैं या जड़ को सींचने से।

३. तनाव और ध्यान [२]

- १ • तनाव का आदि-विन्दु राग-लोभ या प्रियता की ग्रन्थि ।
- २ • प्रिय का वियोग न हो—यह विन्दु है जहां से भय और आर्तध्यान का प्रारंभ होता है ।
- ३ • प्रियता से द्वेष, द्वेष से मान और मान से क्रोध का जन्म होता है ।
- ४ • तनाव से दबने के लिए ज्ञाता-द्रष्टाभाव का अभ्यास ।
- ५ • चेतना का कुआं खोदें और खोजें कहां है चैतन्य और कहां है आत्मा ?
- ६ • स्व-सम्मोहन या भावना का प्रयोग करें ।
- ७ • कोयोत्सर्ग का अभ्यास करें, भावों को बदलें, लेश्या का विशोधन करें ।
- ८ • क्रोध, भय आदि का दमन न करें । निर्जरा करें, रेचन करें ।

तीन

हमारे सामने दो जगत् हैं। एक है व्यक्त-जगत् और दूसरा है अव्यक्त-जगत्। एक है स्थूल-जगत् और दूसरा है सूक्ष्म-जगत्। हम दोनों जगत् की अवस्थाओं में जीते हैं। कभी हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर आते हैं और कभी अव्यक्त से व्यक्त की ओर आते हैं। कभी स्थूल अवस्थाओं की अनुभूति करते हैं और कभी सूक्ष्म अवस्थाओं में विहरण करने लग जाते हैं। जब व्यक्ति अव्यक्त से व्यक्त की ओर आता है तब एक नई अवस्था घटित होती है। व्यक्ति सामाजिक बन जाता है। जब व्यक्ति अव्यक्त अवस्था में ही रहता है तब वह व्यक्ति ही रहता है, सामाजिक नहीं बनता। हमारा कर्म-शरीर, हमारी मूर्च्छा और हमारा भाव—यह अव्यक्त जगत् है। वहां दूसरे का कोई सम्पर्क नहीं होता। व्यक्ति कर्म-शरीर में जीता है। यह उसका व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्ति भाव में जीता है। भाव व्यक्ति का वैयक्तिक स्वरूप है। मूर्च्छा भी वैयक्तिक है। जब व्यक्ति मूर्च्छा की सीमा का अतिक्रमण कर राग में प्रवेश करता है, राग की चेतना में आता है, वैसे ही वह व्यक्ति से सामाजिक बन जाता है। सामाजिकता का पहला विन्दु है—राग। जो राग का आदि-विन्दु है, वही तनाव का आदि-विन्दु है। जहां से सामाजिकता शुरू होती है, वहीं से तनाव शुरू होता है। तनाव और सामाजिकता का अस्तित्व पृथक्-पृथक् नहीं है। जहां तक व्यक्ति व्यक्ति है, वहां तक तनाव बहुत गहरे में होता है, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं होती। किन्तु व्यक्ति जैसे ही सामाजिक बनता है, वैसे ही तनाव प्रकट होने लगता है, उसकी अनुभूति होने लगती है।

तनाव का आदि-विन्दु है—राग, प्रियता की अनुभूति, कामना। राग से तनाव शुरू होता है, प्रियता की अनुभूति से तनाव प्रारंभ होता है, काम से तनाव उत्पन्न होता है।

राग यदि न हो तो व्यक्ति सामाजिक नहीं बन सकता। एक को दूसरे से जोड़ने वाला है राग। राग परस्परता का अनुवंध करता है। जहां पारस्परिकता हुई, एक दूसरे से जुड़ा या बंधा वहां सामाजिकता शुरू हो जाती है। राग व्यक्तियों को बांधता है। वह व्यक्तियों को पदार्थ से जोड़ता है। राग नहीं होता है तो व्यक्ति

पदार्थ-प्रतिवद्ध नहीं होता। राग नहीं होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता। व्यक्ति अकेला ही होता है। केवल अकेला। कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता। जहाँ जुड़ने का प्रश्न है वहाँ राग का होना जहरी है। विना राग के कोई कैसे जुड़ेगा? एक परमाणु भी यदि दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है तो वहाँ भी राग का होना, चिकनाहट का होना जरूरी है। स्निग्धता के बिना वंध नहीं होता। यह जो पांजिटिव प्रतिया है, विद्यायकता है, वह राग है, स्नेह है, स्निग्धता है। वंधन वही करती है। राग से वंधन शुरू होता है। दूसरे के साथ सम्बन्ध या सम्पर्क स्थापित होता है राग से। उसके बाद उस राग-चेतना के कण आगे से आगे तरंगे बनाते चलते हैं और लोभ का जन्म हो जाता है। तब व्यक्ति संग्रह की ओर मुड़ता है, अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। राग से जन्म लेता है लोभ और लोभ से जन्म लेती है माया। जब मन में लोभ पैदा होता है तब परिग्रह की भावना जागती है और माया उत्पन्न हो जाती है। माया के बिना संग्रह नहीं हो सकता। बिना छिपाए संग्रह नहीं हो सकता। जो छिपाने की कला में निपुण है, वह विपुल संग्रह कर सकता है। आप रत्न, सोना, चांदी खुले में रख दें तो प्रातः सब गायब हो जाएंगा। उनको टिकाए रखने के लिए उन्हें छिपाना आवश्यक है। दुनिया में छिपाने के कितने साधन हैं? जिनमें अधिक साधन हैं उतनी ही अधिक माया है। संग्रह को बनाए रखने के लिए, लोभ की संपूर्ति के लिए या लोभ के द्वारा प्राप्त उपकरणों की गुरुद्धा के लिए माया को जन्म लेना जहरी होता है। जैसे ही मनुष्य ने संग्रह करना सीया, वैसे ही वह माया को भी सीया।

राग ने जन्म दिया लोभ को और लोभ ने जन्म दिया माया को। माया ने जन्म दिया अहंभाव को, अहंकार को। जब माया का विस्तार हुआ, मनुष्य के पास बहुत कुछ हो गया तो मनुष्य ने कुछ अपनी मान्यताएं बना लीं। मैं बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत हूँ, मैं स्वामी हूँ, मेरे पास इतना है—वह अहंकार जन्म ले लेता है। मेरे पास है, इसके पास नहीं है—इसका तात्पर्य है कि मैं बड़ा हूँ, वह छोटा है। इस संघर्ष ने वड़पन और छुटपन को भी जन्म दिया। बिना छोटों के कोई बड़ा नहीं बन सकता। अभिमान के लिए जल्दी है कि कोई नीचा हो। यदि कोई छोटा न हो, नीचा न हो, समान ही हो तो वेचारा अभिमान पदा करेगा? अभिमान हुआ तो पदा और नहीं हुआ तो पदा! समता में कभी अभिमान नहीं होता। जब ऊनाई होती है तब गड़े का पता चलता है। यदि गड़ा न हो तो ऊनाई का कोई अपेक्षा नहीं हो सकता। ऊनाई हो और गड़ा हो, तब ऊनाई और नीचाई का कोई सापेक्ष अपेक्षा ही सकता है। समता में ऊना-नीचा कुछ नहीं होता। यदि जब लोग समान ही हो जाएं तब फिर अभिमान को पलते का अवसर ही नहीं आता। अभिमान तब होता है जब किसी के पास कुछ हो और किसी के पास कुछ न हो।

माया ने अभिमान को जन्म दिया और अभिमान ने क्रोध को जन्म दिया । यदि अभिमान न हो तो क्रोध नहीं हो सकता । क्रोध होने के लिए अभिमान का होना जरूरी है । क्रोध नहीं आता है तो अहंकार पर चोट होती है, अभिमान पर प्रहार होता है । अहंकार पर चोट हुए विना क्रोध नहीं आ सकता । अभिमान का अर्थ है—मेरापन । आपने किसी को अपना मान लिया । यह मेरा पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, पिता है, माता है, मेरा भाई है, मेरा भिन्न है । जिसको मेरा मान लिया, अपना मान लिया, वह यदि थोड़ी-सी भी अवज्ञा करता है तो क्रोध आ जाता है । जो अपना नहीं है, वह कितनी ही अवज्ञा करे, इतना क्रोध नहीं आता । यदि अपना व्यक्ति अवज्ञा करता है तो क्रोध आ जाता है । क्रोध के लिए अपनापन इंधन है । अग्नि के लिए इंधन अपेक्षित होता है । क्रोध अग्नि है । अहंकार, ममकार उसके प्रजवलित करने वाला इंधन है । यदि अहंकार की ऊर्जा न मिले तो क्रोध बुझ जाता है ।

क्रोध हमारे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाला साधन है । क्रोध तक पहुंचते ही हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो जाती है । सामाजिक सम्बन्धों में ये तत्त्व काम करते हैं—राग, लोभ, माया, अहंकार । ये सारे तत्त्व तनाव पैदा करते हैं । प्रियता की अनुभूति होती है, तनाव बन जाता है । जैसे ही प्रियता के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, एक ध्यान शुरू हो जाता है । ध्यान का आदि-बिन्दु भी राग है और सामाजिकता का आदि-बिन्दु भी राग है । जिसके साथ प्रियता का संबंध जुड़ा उसके प्रति एक गहरा ध्यान प्रारंभ हो जाता है कि कहीं उसका वियोग न हो जाए । आर्त-ध्यान शुरू हो जाता है । आर्तगवेषणा प्रारंभ हो जाती है । लोभ आगे चला । भय पैदा हो गया । प्रियता से लोभ का जन्म होता है और लोभ से भय का जन्म होता है । तनाव बढ़ाने वाले तत्त्वों में भय की प्रमुख भूमिका रहती है । भय बहुत बड़ा तनाव पैदा करता है । भय लोभ का उपजीवी है । किसी वस्तु को पकड़े रखना भय है । शरीर होना एक बात है और शरीर को पकड़े रखना, ममत्व के धारे से वांधे रखना दूसरी बात है । शरीर को हमने इसलिए पकड़ रखा है कि हमारे मन में यह भय छाया हुआ है कि कहीं शरीर छूट न जाए । मरना इतना जटिल नहीं है, दुःखदायी नहीं है, जितना जटिल और दुःखदायी है मरने का भय । मरने के भय की बहुत बड़ी समस्या है । रोग दुःख होता है, पर रोग इतना दुःख नहीं देता जितना दुःख रोग का भय देता है । कभी-कभी रोग का पता ही नहीं चलता, किन्तु जब डॉक्टर यह बता देता है कि तुम अमुक रोग से पीड़ित हो और अब ज्यादा जीवित नहीं रह सकोगे—यह रोग का भय, मृत्यु का भय अत्यधिक भयंकर हो जाता है । रोग जितना खतरा नहीं है, उतना खतरा है रोग का भय । मरना जितना दुःखद नहीं है, उतना दुःखद है मरने का भय । हमने हजारों प्रकार के भय पाल रखे हैं । भय इसलिए पल रहे हैं कि उनकी पृष्ठभूमि में प्रियता की भावना

है। वहां राग काम कर रहा है। हम इतने घबरा रहे हैं कि जो प्रिय है वह छूट न जाए। पदार्थ छूट न जाए, शरीर छूट न जाए, प्रियजनों का सम्बन्ध छूट न जाए। धन छूट न जाए। इस भय ने मनुष्य को एक ध्यान में डाल दिया। मनुष्य निरन्तर उस ध्यान में वहा जा रहा है। सर्वी व्यक्ति ध्यान करते हैं। साधक ही ध्यान नहीं करते, प्रत्येक जीवधारी ध्यान करता है। वच्चा भी ध्यान करता है, बूढ़ा भी ध्यान करता है। पुरुष भी ध्यान करता है और स्त्री भी ध्यान करती है। प्रेक्षा-ध्यान-शिविर में आकर आप यह न मानें कि आप ही ध्यान करते हैं। आप अपने ध्यान-शिविर पचासों वर्षों से घर पर चलाते आ रहे हैं। आप यहां केवल दिशा-परिवर्तन के लिए आए हैं, ध्यान के लिए नहीं। जिस दिशा में आपकी ध्यान-धारा प्रवाहित हो रही थी, उसकी दिशा को बदलने के लिए आप आए हैं। घर पर जो ध्यान हो रहा था वह प्रियता और भय से संचालित था। आत्मध्यान और रीढ़ ध्यान हो रहा था। विषयों को उपलब्ध करने तथा विषयों के संरक्षण का ध्यान चलता था। पदार्थों को प्राप्त करने का ध्यान तथा उसकी सुरक्षा का ध्यान—यह ध्यान निरन्तर चल रहा है। दिन-रात चल रहा है। यह ध्यान सोते भी चलता है और जागते भी चलता है। प्रेक्षा-ध्यान केवल जागृत अवस्था में ही चलता है, सोते नहीं चलता। आत्म और रीढ़ ध्यान निरन्तर चलने वाले ध्यान हैं। आप इस प्रकार के ध्यान के अभ्यस्त हैं। आप यह न कहें कि आपका मन टिकता नहीं, एकाग्रता नहीं होती। यह भ्रान्ति होगी। आप अपनी भ्रान्ति का आवरण मुझ पर भी न आते। मैं मानता हूं कि आपका मन बहुत टिकता है। वह इतना एकाग्र होता है कि शायद किसी संन्यासी का भी नहीं होता होगा। फिर भी आप इन प्रेक्षा-ध्यान शिविरों में आते हैं और उसलिए आते हैं कि आप दिशा का परिवर्तन करना चाहते हैं। जहां मन टिकता है वहां वह न टिके और जहां वह नहीं टिकता वहां वह टिकने लगे। केवल इतना-सा परिवर्तन करने के लिए प्रेक्षा-ध्यान का अभ्यास होता है। आप अपने आपको तरलता से प्रस्तुत करें। छिपायें नहीं। इतना-सा करें कि जो प्रियता की अनुभूति जुड़ी हुई है, उसको मोड़ दें, अनुराग की दिशा को बदल दें। अनुराग की दिशा प्रो व्यक्ति के साथ, पदार्थ के साथ चुड़ रही है उमसों बदल दर आपने अस्तित्व के साथ जोड़ देता है। भगवान् भहावीर से पूछा गया—‘मर्ते! धर्म-धर्दा से क्या होता है? धर्म ने प्रति अनुराग होने से क्या होता है?’ भगवान् ने कहा—‘धर्म के प्रति अनुराग होने ने अनुभुक्ता पैदा होती है अर्थात् जो उत्सुकता होती है वह नमाप्त हो जाती है। एक के प्रति जब उत्सुकता समाप्त होती है तब उससे के प्रति उत्सुकता जागती है।’ पदार्थ के प्रति रही हुई उत्सुकता जब नमाप्त होती है तब धर्म के प्रति उत्सुकता जागती है। इसे इन प्रकार भी कहा जा सकता है कि जब धर्म ने प्रति उत्सुकता जागती है तब पदार्थ के प्रति अनुभुक्ता पैदा होती है। उत्सुकता एक पर होगी—पदार्थ पर या धर्म पर। दोनों पर उत्सुकता नहीं हो

सकती। एक साथ दो घोड़ों पर सवारी नहीं की जा सकती। अपनी उत्सुकता, अपनी श्रद्धा को हम दोनों ओर नहीं ले जा सकते। पदार्थ के प्रति उत्सुकता है तो धर्म के प्रति उत्सुकता नहीं रहेगी। धर्म के प्रति उत्सुकता है तो पदार्थ के प्रति उत्सुकता नहीं रहेगी। उत्सुकता का प्रवाह जिस ओर जाएगा उस दिशा को वह लाभान्वित करेगा और दूसरी दिशा अपने आप हट जाएगी। हमें अपनी उत्सुकता को चैतन्य की दिशा में प्रवाहित करना है। इसलिए करना है कि पदार्थ के प्रति हमारी उत्सुकता जितनी गहरी होती है उतना ही तनाव मन में भर जाता है। हम तनाव की स्थिति से इसलिए आक्रान्त हैं कि हमारा सारा आकर्षण, हमारी सारी श्रद्धा पदार्थ के प्रति है, दूसरे के प्रति है, अपने प्रति नहीं है। जब दूसरे के प्रति होती है तब मन में तनाव भर जाता है। तनाव का मूल कारण है—आर्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान। तनाव का कारण भी ध्यान है और तनाव का निवारण भी ध्यान है। ध्यान से ही तनाव पैदा होता है और ध्यान से ही तनाव समाप्त होता है। जब हमारे मन की एकाग्रता पदार्थ को उपलब्ध करने में और उसके संरक्षण में लग जाती है तब मन तनाव से भर जाता है और जब मन की एकाग्रता पदार्थ से हटकर अपने आन्तरिक अनुभवों में लग जाती है तब तनाव अपने आप विसर्जित होने लग जाता है।

तनाव का सबसे बड़ा कारण है—आर्तध्यान—पदार्थ के प्रति होने वाली एकाग्रता।

तनाव का सबसे बड़ा कारण है—रौद्रध्यान—पदार्थ के संरक्षण के प्रति होने वाली क्रूर एकाग्रता। क्रूरतम् एकाग्रता।

आर्त और रौद्र ध्यान में लेश्याएं विकृत बन जाती हैं। उस समय काली लेश्या होती है और धूम्र वर्ण की लेश्या होती है। उस समय आभामण्डल विकृत हो जाता है; भाव-संस्थान विकृत हो जाता है। हमारे सारे भाव बदल जाते हैं। भाव विकृत होता है तो मन विकृत बन जाता है, विचार विकृत हो जाता है, आचरण विकृत हो जाता है। जब आचरण विकृत होता है तब सामाजिक सम्बन्ध भी विकृत हो जाते हैं। सब कुछ बिगड़ने लग जाता है। तब व्यक्ति में यह चिन्तन उभरता है कि सारा ढांचा बिगड़ता जा रहा है, उसे कैसे सुधारूँ? यह प्रश्न उपस्थित होता है तब दिशा बदलने की वात प्राप्त होती है। व्यक्ति मुड़कर देखना चाहता है। जब वह मुड़कर देखता है तब उसे लगता है कि क्रोध वहुत सत्ता रहा है। सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्धों को विकृत करने वाला तत्त्व है क्रोध। अन्यान्य दोष इसके बाद आते हैं। एक व्यक्ति कुछ चाहता है, दूसरा कुछ और ही चाहता है। एक व्यक्ति के आचरण से दूसरे व्यक्ति के अहं पर चोट होती है। दूसरे व्यक्ति के आचरण से तीसरे व्यक्ति के अहं पर चोट होती है। अप्रीति बढ़ती है। वैमनस्य बढ़ता है। द्वेष बढ़ता है। द्वेष कोई मौलिक बात नहीं है मूल है राग।

चास्तव में राग और द्वेष दो नहीं हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप राग न करें तो द्वेष कभी नहीं होगा। द्वेष का कोई स्थान नहीं है। मूर्छा से राग, राग से लोभ, लोभ से माया, माया से अभिमान और अभिमान से क्रोध। द्वेष का कोई स्थान ही नहीं है। पदार्थ या व्यक्ति के प्रति हमारी प्रीति हो गई, लोभ हो गया, माया का जल बुन लिया गया। सारा राग ही राग चलता है। हमने जो माया का ताना-याना बुना और यदि उसमें कोई व्यक्ति वाधा डालता है तब अप्रीति शुरू होती है। अप्रीति का घटक है अहंकार। यदि प्रीति ही चलती तो बड़े-छोटे का भेद यड़ा नहीं होता। बड़ा-छोटा मानने के लिए अप्रीति का होना जहरी है। अप्रीति का जन्म होता है अभिमान से और उसका जो दूसरा बड़ा चरण है, वह ही क्रोध। क्रोध और अहंकार—ये दो द्वेष हैं, अप्रीतियां हैं, किन्तु अप्रीति का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। प्रीति ही अप्रीति बन जाती है। अहंकार और क्रोध के चर में आकर प्रीति ही अप्रीति बन जाती है। जब हमारे राग-भाव में कोई वाधा उत्पन्न होती है तब प्रीति अप्रीति बन जाती है। अप्रीति का अर्थ है—प्रीति की वाधा। अप्रीति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। हम अप्रीति को मिटाने का प्रयत्न न करें। उसके धारे में अधिक चिन्ता करने की जहरत नहीं है। जहां चिन्तित होना है, जागना है वह ही राग, प्रीति। वही है आदि-विन्दु जहां हमें जागना है। अध्यात्म के साधक को जिस विन्दु पर जागना है वह विन्दु ही राग। जो व्यक्ति राग के विन्दु पर नहीं जागता, प्रियता के विन्दु पर नहीं जागता, वह यथार्थ में साधक नहीं बन सकता। आप यह न मानें कि जो साधक बनता है, ध्यान करता है, ध्यान की दिशा को बदलता है—आत्म और दौद्र ध्यान से हटकर धर्म-ध्यान में प्रवेश करता है—यह पदार्थ से विमुग्ध हो जाता है। ऐसा नहीं होता। क्या ध्यान करने वाला व्यक्ति गृहस्थी को नहीं निभायेगा? रोटी नहीं खाएगा? पानी नहीं पीएगा? कफ़ड़े नहीं पहनेगा? मरान नहीं बनाएगा? परिवार का भरण-पोषण नहीं करेगा? यह उसके पली नहीं होगी? पुक्क-बुक्की नहीं होगे? सब कुछ होने हैं। ध्यान करने वाले सारे साधक संन्यासी नहीं होते, गृहस्थ भी होते हैं। संन्यासी के लिए भी यहुत पदार्थ आवश्यक होते हैं। यह भी चाहता है, पीता है, पूजना है। सारे पदार्थों को छोड़कर वह जैसे जी चलता है? मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति पदार्थ से द्वेष करता है, पृष्ठा करता है, होनता है, गानियां देता है तो रामरामा चाहिए कि उनमें कोई भातम-ज्ञान हो गई है, मनोविज्ञान पैदा हो गई है। पदार्थ को नहीं छोड़ा जा सकता, उसके प्रति ऐसे निष्पा दृष्टिकोण को छोड़ा जा सकता?

जो व्यक्ति साधना शिखियें में आते हैं, ये पदार्थ को छोड़ने के लिए नहीं आते। यदि ये पदार्थ को छोड़ने के लिए आते तो यायदि परिवार वाले उनको जाने नहीं पाएं। यदि पली दो पता चले कि खेरा पति मुझे छोड़ने के लिए वहां

जा रहा है तो शायद कोई पति यहां नहीं आता। यदि किसी पति को पता चले कि उसकी पत्नी उसे छोड़ने के लिए वहां जा रही है तो शायद कोई पत्नी यहां नहीं आती। शिविर में कई दम्पति भी आते हैं, पति-पत्नी साथ आते हैं। दोनों को ही पता चल जाता तो वे दूसरी दिशा में जाते, यहां नहीं आते।

शिविर में पदार्थ छोड़ने के लिए नहीं आते। वे आते हैं मिथ्या दृष्टिकोण को बदलने के लिए। हमने एक मिथ्या दृष्टि बना ली और हमने पदार्थ को पदार्थ के रूप में नहीं जाना, पदार्थ को यथार्थ रूप में देखना नहीं जाना। हम पदार्थ को देखते हैं उस पर अपना आवरण डालकर। उसे जिस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से नहीं देखते। यह सबसे बड़ी भ्रान्ति है। ध्यान की दिशा का परिवर्तन तब होगा जब हमारी सम्यग्-दृष्टि जागेगी। केवल कायोत्सर्ग या शिथिलीकरण से दिशा-नहीं बदलेगी। पद्मासन या कोई आसन दिशा-परिवर्तन का मुख्य हेतु नहीं है। पद्मासन में बैठे-बैठे तो किसी को मारने की योजना भी बनाई जा सकती है। आंखें बन्द कर बैठे-बैठे किसी को ठगने की, धोखा देने की या कहीं चोरी करने की योजना भी बनाई जा सकती है। इनसे दिशा का परिवर्तन नहीं होता। दिशा का परिवर्तन तब होता है जब सम्यग्-दृष्टि जागती है। सम्यग्-दृष्टि के जागरण का फलित यह है कि व्यक्ति पदार्थ को केवल पदार्थ की दृष्टि से देखे, प्रियता या अप्रियता की दृष्टि से न देखे। आज अर्थ की यह समस्या इतनी जटिल क्यों बनी? इसीलिए बनी कि हम अर्थ को अर्थ की दृष्टि से नहीं देखते। अर्थ को केवल भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं। अपनी दृष्टि से देखते हैं, सत्य की दृष्टि से नहीं देखते।

दुनिया में पदार्थ था, पदार्थ है और पदार्थ रहेगा। समाजवाद ने जो यह सूक्ष्म प्रस्तुत किया कि सम्पत्ति व्यक्ति की नहीं, समाज की है। मैं मानता हूं कि इस सूक्ष्म से भूल का कुछ सुधार हुआ है। व्यक्ति सम्पत्ति को अपना मान बैठा था। समाजवाद के मनीषियों ने सोचा कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की वात समाज के लिए बहुत धातक है और यह बहुत बड़ी भ्रान्ति है। इस भ्रान्ति के निराकरण के लिए उन्होंने कहा—‘सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। सम्पत्ति व्यक्ति की नहीं, समाज की होनी चाहिए।’

सम्यग्-दृष्टि को उपलब्ध व्यक्ति का सूक्ष्म होगा—सम्पत्ति व्यक्ति की भी नहीं होती, समाज की भी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। सम्पत्ति सम्पत्ति की होती है। पदार्थ पदार्थ का होता है। वह किसी का नहीं होता।

एक संस्कृत कवि ने भूमि को एक ऐसी कन्या माना है जो सदा कुमारी है और रहेगी। वह किसी का नहीं बनी और न ही बनेगी। उसके साथ कोई पाणिग्रहण नहीं कर पाया। अनेक राजे-महाराजे हो गए। अनेक शक्ति-सम्पन्न सम्राट् हो गए। उन्होंने मान लिया कि अमुक भू-भाग पर उनका अधिकार है। पर यह

ध्यानि थी। भूमि किसी की नहीं बनी। सब आए और गए। पदार्थ को अपना मानना एक ध्यानि है।

ध्यानन्द का गुवा है—सम्पत्ति न व्यक्ति की है और न समाज की है। वह पदार्थ है। पदार्थ पदार्थ होता है, वह किसी का नहीं होता। सब पदार्थ अपने-अपने स्थलप में होते हैं। कोई पदार्थ किसी का नहीं होता। यह तूत्र उपलब्ध होने पर ही नमस्या भूलन सकती है।

सम्पत्ति को व्यक्तिगत मानने से नमस्या उलझती है—इस बात का समाज ने अनुभव कर लिया। व्यक्तिगत संश्रह से विषयता फैलती है, नमस्याएं बढ़ती हैं। नमस्याएं का ओर्ड समाधान नहीं होता, इतलिए सम्पत्ति समाज की होनी चाहिए, व्यक्तिगत म्वामित्व को समाप्त कर देना चाहिए—यह चितन लगभग दो अरब मनुष्यों का है। जो समाजवादी भी नहीं है, वैसे भी कुछ लोग इसी भाषा में सोचते हैं। यह सोचना मात्र भूल का नुधार माना जा सकता है। किन्तु उससे अगली भूल ज्यों की त्यों बनी रहती है। जब तक उम भूल का नुधार नहीं होगा, नमस्या नहीं नुलझेगी। आज समाजवादी स्थापना के बाद भी, साम्यवाद के प्रचलित हो जाने के बाद भी, नमस्याएं भूलखी नहीं हैं, व्यक्ति भूलखा नहीं है। आज साम्यवादी देश का नागरिक भी वही अनेकिता करता है। लाखों-करोड़ों का घोटाला करता है। यह इसीलिए होता है कि साम्यवादी धारणा से एक भूल का नुधार अवश्य हुआ है। किन्तु दूसरी भूल का नुधार नहीं हो पाया। जब तक व्यक्ति यह नहीं मान लेगा, आनंदिता कि पदार्थ पदार्थ है, वह इसी का नहीं है; तब तक वे घोटाले बन्द नहीं होंगे। अनेकिता या जप्रामाणिकता रहेगी नहीं।

उम जो दिशा-परिवर्तन चाहते हैं, वह यह है—पदार्थ पदार्थ रहे, व्यक्ति व्यक्ति रहे। पदार्थ और व्यक्ति के बीच सम्बन्ध स्पाति न हो, परस्पर घनिष्ठता न हो। हमारी सम्बन्ध-दृष्टि जाने। हमारा द्रष्टाभाव जाने। हम पदार्थ को पदार्थ भी नहीं दृष्टि में देंगे, उन भी उत्तोगिता को जमाने, उसका उपरोग मात्र करें; किन्तु उसके नाम सम्बन्ध न छरें, एकता की अनुभूति न करें।

द्रष्टाभाव तो निकास तनाव-विसर्जन का पट्टा तूत्र है और दूसरा सूख है भावना का पिताम। भावना या धर्म है—स्व-सम्मोहन, आत्म-सम्मोहन। जब हम जात्म-नमनोहन दूसरों के लिए करते हैं तब दूसरों के साम-साच अपनी जिति भी धीरे रहती है। हम नम पदार्थ के प्रति सम्मोहित हैं। पदार्थ को देखते ही इन्हाँ नम्मोहन भावना है कि आपमी पियेक धो रेटता है। वडे से दड़ा आदमी भी ऐसी चीरिया कर रेता है कि विनकी कलाना भी नहीं की जा सकती। उन व्यक्ति का ओट रेख नहीं है। यह पदार्थ के प्रति नम्मोहित है। यह पदार्थ नामने आता है तब उम भी जाना सुख ही जाती है, पियेक सो आता है।

परस्पर आत्म-सम्मोहन का प्रयोग करें। हन अपने वस्तित्व के प्रति जागहक

हों। स्व-सम्मोहन की सबसे बड़ी शक्ति है—ज्ञान की शक्ति। हम अपनी ज्ञान की शक्ति का अनुभव करें। हम साधना के प्रारंभ में अहं की ध्वनि करते हैं, अहं की भावना करते हैं। तब व्यक्ति-व्यक्ति में अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-शक्ति और अनन्त-आनन्द की भावना जागती है। वह सोचता है, मेरे में अनन्त-ज्ञान है, अनन्त-शक्ति है, अनन्त-दर्शन है और अनन्त-आनन्द है। मुझे किसी दूसरे आनन्द की जहरत नहीं है। किसी पदार्थ से मैं आनन्द को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो गूण्य हो उसे कोई आनन्द से भरे। मैं अनन्त-आनन्द से सम्पन्न हूं, परिपूर्ण हूं। जब व्यक्ति इस अनन्तचतुष्टयी की भावना से भावित होता है, सम्मोहित होता है तब ये पाप सारे सम्मोहन चूर-चूर होकर टूट जाते हैं। कोई नहीं टिक पाता। स्व-सम्मोहन या भावना के द्वारा दिशा-परिवर्तन घटित होता है। इसके द्वारा तनाव विसर्जित होता है।

तनाव-विसर्जन का तीसरा सूत्र है—विचय-ध्यान। विचय का अर्थ है—विश्लेषण। प्रेक्षा एक विश्लेषण है। यह आत्म-विश्लेषण है, सेल्फ एनलिसिस है। व्यक्ति आत्म-विश्लेषण करे, क्रोध क्यों आता है? लोभ क्यों जागता है? मिथ्या-दृष्टि क्यों जागती है? इसका हम विश्लेषण करें। हम विश्लेषण नहीं करते तब ये सारी भावनाएं पनपती रहती हैं। जब हम अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं, अपनी ज्ञान-शक्ति को जगाते हैं तब ये सारी वातें टूटने लग जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी ज्ञान-शक्ति का उपयोग नहीं करता, उसमें ये सारी विकृतियां पनपती रहती हैं। हम अपनी ज्ञान-शक्ति का उपयोग करें। विश्लेषण करें। जब हम अपना विश्लेषण करते हैं तब आर्त-रौद्र ध्यान छूट जाते हैं, धर्म-ध्यान शुरू हो जाता है। धर्म-ध्यान, का प्रारंभ होता है विचय के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा। यह विचय की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया चिकित्सा की प्रक्रिया है। आज का मनोचिकित्सक सबसे पहले विश्लेषण का सहारा लेता है। कोई भी मानसिक वीमारी से ग्रस्त-व्यक्ति मानस-चिकित्सक के पास जाता है तो वह चिकित्सक सबसे पहले उसे कायोत्सर्ग कराता है, शिथिलीकरण करने के लिए कहता है। इसके बाद कहता है—‘अपना विश्लेषण करो, प्रतिक्रमण करो, अतीत की ओर लौटो और मन में जो-जो वातें आर्त वह निःसंकोच कहते जाओ। छुपाओ मत।’ अब वह रोगी अपना विश्लेषण करता है, प्रतिक्रमण करता है। मनोचिकित्सक सुनता जाता है और सुनते-सुनते यह वात परड़ लेता है कि मन की गांठ कहाँ धुली है? मानसिक ग्रन्थि कहाँ बनी है? क्या वीमारी है? कौन-मी वृत्तियों का दमन हुआ है? किस प्रकार की ग्रन्थि बनी है? वह किर उन ग्रन्थियों को योगने का प्रयत्न करता है। अध्यात्म की नितियां भी इसी प्रकार चलनी हैं। ध्यान की भी यही प्रक्रिया है। आर्त-रौद्र ध्यान के द्वारा यो ग्रन्थियां बनती हैं वे ग्रन्थियां जारीरिक और मानसिक विद्युतियां देख करती हैं, रोग पैदा करती हैं। मैं मानता हूं कि मनोविज्ञान का यह भूत गलत

नहीं है कि जो वृत्ति दवाई जाती है, वह वृत्ति जारीरिक और मानसिक रोग पैदा करती है। इसे हम अच्यात्म की भाषा में समझें। ज्यों ही वृत्ति का दमन किया, दवाने का प्रयत्न किया; यदि निर्जरा नहीं की, उसका रेचन नहीं किया तो उसका वंध ही जाएगा। वह वंध सताता रहेगा। क्रोध आता है और चला जाता है। आप यह न मानें कि क्रोध आया और चला गया। वह बहुत बड़ी भ्रान्ति होगी। क्रोध आया, नहा गया। स्वून शरीर से चला गया, पता नहीं चलता कि क्रोध है। क्रोध पाया था इस शरीर की आशुति में। अब क्रोध अणु बनकर हमारे भीतर पैठ गया। जो स्नेह ध्यान दुआ था अपने ल्प में वह तो चला गया, किन्तु उसने अपना आणविक रूप छोड़ दिया। कर्म के भी परमाणु हैं। हमारे जो कर्म का वंध होता है वह परमाणु का वंध होता है। यह आणविक क्रोध हमारे भीतर है। वह सताता रहता है। यह तनाव पैदा करता है। हमें निर्जरा करना, रेचन करना, गोधन करना मीमांसा होगा। हम ध्यान के द्वारा यह सीखें। हम क्रोध का दमन न करें, उसका रेचन करें, उसका शोधन करें। क्रोध का संवर करें, क्रोध का विचेक करें। करें करें—यह एक सम्भवी चर्चा है।

प्रश्न—राग से सामाजिकता शुद्ध होती है तो क्या वीतराग सामाजिक नहीं होता? या वीतराग के सामाजिकता नहीं होती?

उत्तर—सभमुख वीतराग कभी सामाजिक नहीं होता। वीतराग कोरा व्यक्ति होता है। यह समाज में रहता है, पर सामाजिक नहीं होता। हम वीतराग उसी की भावते हैं जो समाज में रहता हुआ भी अकेला रहे; व्यक्ति रहे। वीतराग तो दूर की बात है, साधक यही होता है जो समाज में रहना हुआ अकेला रहे। जानार्दन ने लिखा है—‘वण में रह निर्दिष्ट अकेलों’। साधु संघ में रहे, शिर्षु परस्ला हो रहे रहे, किसी के साथ दलवरी न करे, गाढ़ सम्बन्ध न बनाए। यास्तर में प्राकिन यही होता है जो नमूद में रहता हुआ अकेला रहे। वह एकत्र भी भावना से अग्रिमूल ही। भगवान् महावीर ने ‘एकत्र अनुप्रेक्षा’ को बहुत महत्व दिया। करोने करो—‘पुराप ! तु अपने को इन भावना से भासित नहरता रहे कि तू यस्ता नहोसा हे। कमाय आत एक उपरोक्षित है। जो सा याता को नवाने के लिए रह एक जानकार गहर है। यास्तर में तु उत्तिला है।’

‘एक उपरोक्ष वनुमान्, एक एक प्रियदर्शी—प्रतिक्रिया ही जन्म नेता है और जो जी भी जन्मता है। एक एक हि त्वं गिरुं, वैस्तवः एकमन्त्रुम्—प्रतिक्रिया ही जन्म जी जन्मता है और जो जी उन सभी ही जोकलता है।

जीतराग ही की, वास्तव में हम भी अकेले हैं। किन्तु ज्ञानिकरण तभी जल देते हैं कि हमारा क्यूर है, परिपार है, समान है। यह मित्यानुदर्शित है, इसे कोइना है।

प्रश्न—पदार्थ पदार्थ है, व्यक्ति व्यक्ति है। यदि इनमें कोई परस्पर सम्बन्ध न हो, राग न हो तो फिर समाज का काम कैसे चलेगा?

उत्तर—इस स्थिति में समाज का काम बहुत समुचित ढंग से चलेगा, समस्या से मुक्त होकर चलेगा। एक ओर भोजन है दूसरी ओर भूख है। यदि व्यक्ति सम्यग्-दृष्टि से यह स्वीकार करता है कि यह भोजन है और यह भूख है। भोजन से भूख शान्त होती है। उस रूप में पदार्थ को मात्र उपयोगिता के रूप में स्वीकार करता है तो वह अधिक नहीं खा सकेगा, जितनी भूख है उतना ही खाएगा, किन्तु जब पदार्थ के साथ प्रियता जुड़ जाती है तब व्यक्ति भूख को शान्त करने के लिए भोजन नहीं करता; जितनी भूख है उतना ही नहीं खाता, वह खाता है प्रियता की सम्पूर्ति के लिए। वह खाता है स्वाद के वशीभूत होकर।

यह भ्रान्ति टूटनी चाहिए कि हम प्रियता के लिए पदार्थ का सेवन न करें, केवल प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करें। पदार्थ पदार्थ है और उसका उपयोग पारस्परिकता है। एक का उपयोग दूसरे के लिए होता है। इस उपयोग मात्र को समझ कर यदि हम पदार्थ का उपयोग करते हैं तो अनेक समस्याएं सुलझ जाती हैं।

पदार्थ नहीं मिटेगा। न पदार्थ को मिटाना है और न सम्पत्ति को मिटाना है, किन्तु पदार्थ और सम्पत्ति के साथ जो हमारा अनुबन्ध है उसे तोड़ना है।

हम पैसा नहीं लेते, किन्तु कपड़ा आदि ले लेते हैं। हम दस रुपये का नोट नहीं लेते, किन्तु दस रुपए मूल्य का कपड़ा ले लेते हैं। आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि क्या कपड़ा रुपया नहीं है? क्या उसका रुपए जितना मूल्य नहीं है? यह प्रश्न स्वभाविक है। हमारे पास एक पैसा भी नहीं है; किन्तु एक-एक हस्त-लिखित प्रति ऐसी है जिसका मूल्य लाखों में आंका जा सकता है। वह लाखों रुपए मूल्य की हो सकती है। ऐसी वस्तुएं आज भी हमारे पास हैं, फिर भी हम अपरिग्रही हैं। इसे समझें। जो पैसा रखते हैं उनका पैसे के साथ अनुबन्ध हो जाता है, वह उपयोगिता का अनुबन्ध नहीं रहा, मूर्च्छा का अनुबन्ध हो जाता है। उस मूर्च्छा को तोड़ना है।

पदार्थ पदार्थ है। आत्मा आत्मा है। व्यक्ति व्यक्ति है। एक दूसरा एक दूसरे के काम आता है। एक दूसरे का एक दूसरे के लिए उपयोग है। यह भावना जबवलती है, पनपती है तब समाज स्वस्थ रहता है। तनाव होने का कम से कम अवसर आता है। किन्तु जब वह उपयोगिता बदलकर धन वन जाती है, सिवका वन जाती है तब उपयोगिता समाप्त हो जाती है। और मूर्च्छा केवल धनात्मक वन जाती है।

उस मूर्च्छा को तोड़ना आवश्यक है। इससे सामाजिक व्यवहार टूटेगा नहीं, वह अधिक स्वस्थ होगा। इस स्थिति में वे समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी जो समाजवाद के लिए समस्याएँ हैं।

८. आभासङ्डल

- १ • धारा का उद्देश्य—जगति, चेतना और आनन्द-संवन्न व्यक्तित्व का निर्माण।
- २ • प्राण-शक्ति के प्रधाह के दो मार्ग—राम और ज्ञान। पहला प्राकृतिक, दूसरा भाषणा-वस्त्र। यही विन्दु है पशु और मनुष्य की भेद-रेखा का।
- ३ • नया मार्ग धोर्ने। काम या राग का दमन न करें, चेतना का अनुभव करें।
- ४ • राम या ल्पान्तरण नहीं, जर्जी का भागचित्तरण करें,—न भोग, न दमन फिल्मु रेतन करें।

चार

मैं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण चाहता हूँ जो शक्ति-संपन्न, चेतना-संपन्न और आनन्द-संपन्न हो। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है जो इस त्रिपुटी से संपन्न हो। पशु में शक्ति बहुत होती है, किन्तु वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं है। उसकी शक्ति का उपयोग मनुष्य करता है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है। चेतना का विकास किए विना शक्ति का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। सिंह और हाथी में बहुत शक्ति होती है। वैल और भैंसे में भी प्रचुर शक्ति होती है। किन्तु सब पशुओं की शक्ति का उपयोग मनुष्य ही करता है। उनकी सारी शक्ति मनुष्य के काम आती है। सिंह और बाघ अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को मारने में करते हैं। उनकी शक्ति का कोई सृजनात्मक उपयोग नहीं होता। उस शक्ति से निर्माण नहीं होता, विध्वंस होता है। इस प्रकार पशुओं की शक्ति के दो ही काम हैं—मनुष्य के काम आना या दूसरों को मारने में काम आना।

जव-जव मैं वैलों और भैंसों को भार ढोते देखता हूँ, तब-तब मन में आता है कि यदि इनमें चेतना का विकास होता तो न जाने आज ये क्या होते? इनमें चेतना का विकास नहीं है। हजारों वर्षों से ये भार ढोते आ रहे हैं और हजारों वर्षों तक भार ढोते ही रहेंगे। कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई क्रान्ति नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। उनके लिए सारे युग समान हैं। प्रस्तर युग आया, मध्ययुग आया और आज अण्युग चल रहा है। किन्तु पशुओं के लिए सारे युग समान हैं। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। वैज्ञानिक युग और प्रस्तर युग उनके लिए समान है। मनुष्य में भी शक्ति है, किन्तु शक्ति से अधिक उसमें चेतना का विकास है, इसलिए वह अपनी अल्पशक्ति का उपयोग इस प्रकार करता है कि वह खूँखार और प्रचुर शक्तिशाली जानवरों को भी नियंत्रण में ले लेता है, उनसे काम भी ले लेता है। शक्ति में मनुष्य पशु के बराबर नहीं है, किन्तु वह चेतना का उपयोगकरना जानता है इसलिए अल्पशक्ति से भी महान् शक्तिशाली जानवरों को वश में कर अनोखे काम कर लेता है। शक्ति की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। 'बुद्धिर्यस्य वलं'

तर्य'—जिमके पास बुद्धि है, उसके पास वल है। बुद्धि का वल, चेतना का वन, ज्ञान का वन—ये वन जारीरिक वन ने बड़े होते हैं। ये जारीरिक वन को लांघ जाते हैं।

मनुष्य के पास शक्ति है, जितना है, किन्तु उसके पास तीसरी वस्तु नहीं है। वह भी मग्नी वस्तु है—आनन्द। मनुष्य अपनी जेतना के द्वारा शक्ति का उपयोग करता है, किन्तु यह भी शक्ति का सम्बन्ध उपयोग करता नहीं जानता। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके स्वयं कलान्त छोता है और दूसरों को कलान्त करता है। वह स्वयं दूसरे पर चढ़ता है या दूसरे को प्रभने कर्षणों पर चढ़ता है, किन्तु आनन्द सा अनुभव नहीं कर पाता। आनन्द का अनुभव वही कर पाता है जिसके पास शक्ति हो, जेतना का विकास हो और जेतना का, शक्ति का सही उपयोग हो। पश्चात् में जेतना तो है, पर इसका विकास नहीं है। वह उसका नहीं उपयोग करना नहीं जानता। मनुष्य में जेतना का विकास है, किर भी यह उसका नहीं उपयोग नहीं करता, इसलिए आनन्द का उपयोग नहीं होता। पश्चु के लिए आनन्द का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसमें जेतना का विकास नहीं होता, उसमें आनन्द का अनुभव करने की क्षमता भी नहीं होती। जिसमें जेतना का विकास है, उसमें आनन्द का अनुभव करने की क्षमता होती है। जो जेतना का सही नियोजन कर पाता है, वह आनन्द का उपयोग कर सकता है। जो जेतना का सही नियोजन नहीं कर पाता, वह आनन्द का अनुभव नहीं कर सकता।

दिना भे हरता है। जब हमारी ऊर्जा क्रोध की दिशा में प्रवाहित होती है, क्रोध उनक आता है। जब ऊर्जा काम-केन्द्र की ओर प्रवाहित होती है, काम उभर आता है। हमारे शरीर में क्रोध के केन्द्र हैं, काम-वासना के केन्द्र हैं, ज्ञान के केन्द्र हैं। ऊर्जा विस केन्द्र की ओर प्रवाहित होती है वह केन्द्र सक्रिय हो जाता है। यह प्रवृत्ति उभरकर सामने आ जाती है। अब प्रश्न है कि उस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए? इसमें मव एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं—जो वृत्ति जागे, उसे भोग नो। उमेरे रोकने की जल्लत नहीं, भोग लो। यह मुक्तभोग की विचारधारा है। यह विचारधारा कहती है—क्रोध आए तो क्रोध कर लो। इतना जी भर क्रोध कर लो हि विससे क्रोध समाप्त हो जाए। जिसको मुक्तभाव से भोगा जाता है, वह क्रोध भरम-विनु पर पहुँच कर विसर्जित हो जाता है।

एक है दमन का सिद्धान्त। वह कहता है—दबाओ, दबाओ। क्रोध आए तो क्रोध को दबाओ। काम-वासना उमरे तो उसे दबाओ। जो भी वृत्ति उभरे, उसे दबाओ। दमन का सिद्धान्त बहुत व्यापक है। मनुष्य समाज में जीता है। यह सामाजिक प्राणी है। समाज में दमन चलता है। समाज की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी धारणाएं हैं। समाज व्यवस्था चाहता है। सामाजिक प्राणी नहीं चाहता हि जो भी वृत्ति जागे उसका सामाजिक स्तर पर मुक्तभोग किया जाए। क्रोध जागे और क्रोध का मुक्तभोग किया जाए, यह सामाजिक प्राणी कभी नहीं चाहता। क्रोध जागे, कोई किसी के चांदा मार दे, लाठी मार दे या हृत्या कर डाले तो समाज इन वर्दीस्त नहीं कर सकता। किसी में लोभ की वृत्ति जागे, वह दूसरे की मंपति पर अधिकार कर ले, लोभ का मुक्त भोग कर ले, समाज इसे मान्य नहीं कर गलता। समाज ने अपनी व्यवस्था बनाई। उसने कहा—दमन करो। तुम सामाजिक प्राणी हो, समूह में रहते हो, इसलिए तुम्हें दमन करता होगा। यह नहीं शोगा हि मन में आया वह कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सामाजिक भूमिल में दमन का पिलाम हुआ, नियंत्रण का विकास हुआ, दंड-व्यवस्था का पिलाम हुआ। इसी मारी व्यवस्था समाज और राज्य ने की है। राज्य यह कभी महत की चरन लेता हि एक व्यक्ति अपनी मुक्त वृत्तियों के कारण दूसरों के अधिकारों ता लगत करे या यो चाहे नीता करे। यह नहीं हो सकता। एक मर्यादा वनानी होती। एक रेया धीर्घी होती हि व्यक्ति को क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोर यो अनिः उम मर्यादाओं की रेयाओं का अतिक्रमण करेगा वह दंडित नीता। यानी स्वयं वह अपनी वृनियों हो देगा अन्यथा उमे दंडित होना पड़ेगा। एक दमन की नीत याहु है और समाज के सार पर चलती है।

इसी नीत हे भोग ही। यह ज्ञान क नहीं है। यह छुले क लोगों का मिदाल नीत है। इन मिदाल ही पृथग्मिमि में उनका विनाश वह है हि यदि व्यक्ति एक जीव न रहा है, जीव न रही, तो दमने-दवाने के वृनियों इनकी एकत्रित हो-

प्राणी कि एक दिन उनका भवंकर विस्फोट होगा और व्यक्ति उस विस्फोट को मंजान नहीं पाएगा। इमणिए वृत्तियों को दशाओं मत, उन्हें भोग लो। समाज-ध्ययामा में यह यात मान्य नहीं है, किन्तु इन गिद्वान्त के प्रतिपादकों ने मानव की प्रत्यक्षेतना, अन्तर्मन, अवचेतन मन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि वृत्तियों का दमन किया गया तो उनके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बहुत प्रतिक्रियों द्वारा यह है। यदि उसे वर्वरदस्ती दवाया गया तो उससे परिणाम यह होगा कि व्यक्ति के गिर में भयकर 'थीड़ा उत्तम हो जाएगी, हृदय पर भी आपात नहोगा। व्यक्ति उस आपात को मंजान नहीं पाएगा। वह दवाई हुई वृत्ति भीतर ही भीतर मगध परिपैदा करेगी, जागीरिक प्रोत्तर मानविक वीकारिया उत्पन्न करेगी। इमणिए दूनि को दवाओं मन।

मैं मानता हूँ कि यह सुनदर गिद्वान्त है। दमन करो के आगे की यात है— दमन मन करो। मानविक का यह प्रतिपादन वहूत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने मन की मात्राएँ में आहर किंव युक्त मत्त्वों से चोंचाता है, उनमें वहूत नचाई है। ये केवल मानविक के दमाएं मात्र नहीं हैं। किन्तु उनमें कुछ अधूरापन भी है। 'मन दवाओं'— इनसी पाल की ठीक है, किन्तु 'उनसे उन्मुक्तमोग करो', इन वाले के कहु परिणाम जाए। 'मन दवाओं' का जर्म उन्मुक्तमोग कर इस गिद्वान्त के दृश्य बोही थीड़ गया। एक साधकों ने अध्यात्म के नाम पर मुख्तमोग के प्रयोग प्रारम्भ कर दिए और उन प्रयोगों से अध्यात्म पाइ। तीन दमा। जाग दम मुख्तमोग का व्यापक प्रियोग हो रहा है। यह प्रियोग है मानविक व्यवस्था का। मानवीय ममाज-व्यवस्था इन प्रसार के मुख्तमोगों के प्रयोगों को मात्र नहीं कहती, इमणिए प्रियोग होना व्याभाविक है। किन्तु यदि एक सामाजिक प्रियोग की यात थीड़ भी है और वहाँमें उत्तर कर अनुभव के जापाट पर देखे तो पक्ष परिका हि जीव अध्यात्म की ओर नहीं ले जाना, कमी नहीं। यहाँ।

'मन दवाओं' का जर्म मुख्तमोग नहीं होता। काइद में इहा हि दमन मती है कि साधारण व्यष्टिनाम उन्होंने यह भी कहा कि मन वीकेतत हीना चाहिए, फूलक-अभेदन-स्वानुरक्ष हीना चाहिए। इन वार्षीय गत उत्तर भी भीतर अपनी जड़ी दाढ़ी दीड़ी दीड़ी ने वस्त्रया देखा है। 'इनसा यज्ञा नहीं है। यज्ञा अपने न बदले भाव नहीं जो बदलते हैं। व्यापात है भवते भी लहो तो लहो है। यज्ञा दर्शन' का जर्म है। यह मूल तो दर्शनी है, दूनि का अनुसार उत्तर उत्तर वही जड़ा भी हो जाता है। हमें जड़ा है कि 'शान' रे तो यहाँ का एक दूसरों द्वारा दर्शन हो जाता है, उत्तर अपनी जड़ा के जड़ों का उत्तर रुक्ष हो जाता है, जाप के उत्तर तो उत्तर नहीं नीता।

उनसी तो समाप्त ही किया जा सकता है। वड़ी कठिनाई यह हो गई कि हमने ऊर्जा को बांट लिया। यह क्रोध की ऊर्जा है और यह काम की ऊर्जा है—ऐसा मान लिया। ऊर्जा एक ही है। न काम की ऊर्जा है, न क्रोध की ऊर्जा है और न अहंकार की ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा है। वह किसी की भी नहीं है। वह शक्तिमात्र है। शक्ति का काम है दूसरे को सक्रिय करना, पुष्ट करना। यदि ऊर्जा 'काम-वासना' की ओर प्रवाहित होती है तो काम-केन्द्र को सक्रिय बना देती है। यदि वह ज्ञान-केन्द्र की ओर प्रवाहित होती है तो ज्ञान-केन्द्र को सक्रिय बना देती है। यदि वह क्रोध के पास जाती है तो क्रोध की वृत्ति सक्रिय हो जाती है और यदि वह क्षमा के पास जाती है तो क्षमा की वृत्ति सक्रिय हो जाती है।

यदि हम काम-वासना के रूपान्तरण की बात स्वीकारते हैं तो 'काम' को एक शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। काम की ऊर्जा कोई शाश्वत सचाई नहीं है। वह एक आणविक संघटना है, अणुओं का संस्थान है। काम हमारी चेतना पर छाई हुई अणुओं की एक संरचना है। उन अणुओं को हम विलीन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, किन्तु उनका रूपान्तरण नहीं कर सकते। यदि हम चाहें तो रूपान्तरण इस अर्थ में कह सकते हैं कि हम काम की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की दिशा को बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई रूपान्तरण नहीं होता। अतः काम या सेक्स का रूपान्तरण नहीं, किन्तु सेक्स के मार्ग में जाने वाली ऊर्जा को रोक देना, उसकी दिशा में परिवर्तन कर देना—यही अपेक्षित है।

महावीर ने लेश्या के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आभामंडल और एक भावमंडल होता है। भावमंडल हमारी चेतना है और चेतना के साथ-साथ जो एक पौद्यगिक संस्थान है, उसे आभामंडल कहते हैं। चेतना हमारे तैजस-शरीर को सक्रिय बनाती है। यदि यह विद्युत-शरीर सक्रिय होता है तब वह किरणों का विकिरण करता है। ये विहित व्यक्ति के शरीर के चारों ओर बलयाकार में घेरा बना लेते हैं। यह आभामंडल है। जैसा भावमंडल होता है वैसा ही आभामंडल बनता है। आभामंडल विशुद्ध होगा तो आभामंडल भी विशुद्ध होगा। भावमंडल मनिन द्वेषा तो आभामंडल भी मनिन होगा, धन्वों वाला होगा। वह काले रंग का होगा, रिक्त होगा; अंधकारमय होगा। सारे चमकीले वर्ण समाप्त हो जायेंगे। हम ना धारा की, परिणाम धारा को बदल कर आभामंडल को बदल सकते हैं।

अथानम ने वृत्तियों के परिवर्तन का जो मूल दिया, वह है—रेचन। उसने इस—पुनियों का दमन मत करो, उनका रेचन कर दो। अपने आपको दक्षिण मत नहीं बराबरनी मत करो। अपने आपको हीन-भावना से मत भरो। ये दोनों विभावनाएँ हमें हराती हैं। आत्म-भर्मना और हीन भावना दमा का रोग है। दोनों हैं। और नीं लेह निहतिया गैसा हराती हैं।

उम्मीदवार तीन बारों मासमें आई—दमन, भोग और रेचन। रेचन का अर्थ है—निर्वाण। वृन्द का रेचन करो। क्रोध जागे तो उसे जबरदस्ती सत् ददाओ, इसमें पर ऊर्जा धरना मारनी है। यो ऊर्जा क्रोध के साथ याहर निकलता चाहती थी, यदि उसे जबरदस्ती रोक जाए तो वह भीतर से धरना मारनी है। वह तो पसिल है। जटा यह धरना मारनी है, वहाँ का अवयव हानिप्रल हो जाता है। कम की प्राप्तियाँ पृथ्वी पर हमनिए ददाओं सत्, रेचन करो। वृत्ति को निकाल दी, मिटायी। रेचन करो ध्यान के द्वारा, रेचन करो भावना के द्वारा, रेचन करो शब्द के द्वारा। प्राप्तियाँ के जापार्यों ने रेचन करने के धोने का नुक्त दिए। उन्होंने कहा—‘जब क्रोध की वृत्ति जाने तब एक ऐसे शब्द का उच्चारण करो जिक्रोध की वृत्ति को प्रसार भी न रखे और क्रोध का रेचन भी हो जाए।’

‘कोहरा पीट पणालिट’—संघ प्रीति का नाम करता है। हमारी भीतर बहने वाली प्रेम की गया की संघ मिलन बना रहा है। मैंको की धारा को ओप्प जाकर कर रहा है, दूधिं चर रहा है। इनिए संघ आते ही ऐसे बदल का गलवन लाते हैं। एह अट ले याद करो, तरजुन संघ की वृत्ति का रेखन ही जाएगा। तब वह जानवर, वन्द में निकलने वाली उपनिवारणों का जानेवाल। भावता और दीप्तिवाल जो जानवर भी संघ की वृत्ति के रेखन में नदापक होता है। जैन ही वन में संघ जानवर ही, दीर्घ जीवन का प्रयोग युक्त कर दें। जीवन के रेखन के साथ जानेवाल निकलता है, जीर यादगार संघ को ऊँची भी निकल जाती है। संघ जान ला जाता है। एह जानवरी में जाम की वृत्ति जानती है। चब यह बाहर निकलती है, उस जानवरी कुछ तो बहुत रुकता है। जगन-गा सुख दियो ऊँची जाम की वृत्ति के साथ हड़, जो जामने प्रेतिक दिवृक् जाम की वृत्ति के साथ दूरी, पद दिवृक् गाहर निकलता जाती है। यह गहर निकल जाती है तब जैव जीवन जगता है जो जानिकरी, दृष्टि कृप जिला। यह जर भीतर ही रहती है उस वन में उस प्रतिरोध शरण धूल-करनी है और जोतर ही भीतर करोटन जाती है। जाम जा सुख, संघ का रुप, वृत्ति का लुभ जात रहता है कि निकल यह बाहर निकल जाता। ऐसे कोई न जान यह ही है जीर उने इसलिए यो निकाल देने वाल जैवनि ही कुछ नहीं है, जाम ही है। जिसी जाम की विदृक् जब बाहर निकला। जाम ही जब निकलने वाला है कि जाम कामी हो जाए। जो कुछ वह नहीं है जो जाम है। जाम-नाम ही है, जो काम हो जाए। जो काम हो जाए, वह कुछ जाम है, जो काम हो जाए। जिसी जाम का जुहर देता है कि जिसी जाम-नाम है, जो काम हो जाए, वह कुछ जाम है, जो काम हो जाए। जिसी जाम का जुहर देता है कि जिसी जाम-नाम है, जो काम हो जाए, वह कुछ जाम है, जो काम हो जाए।

हो जाता है। वह निराशा से भर जाता है। उसका धैर्य समाप्त हो जाता है। उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। उसकी चिन्तन-शक्ति समाप्त हो जाती है। उसकी सारी अच्छाइयां चुक जाती हैं। शरीर का बल, मन और बुद्धि का बल नष्ट हो जाता है। प्राणधारा को सक्रिय रखने वाला ईंधन समाप्त हो जाता है। ईंधन के साथ-साथ सक्रियता समाप्त हो जाती है। इसलिए ईंधन को चुका देना वज्र मूर्खता है। एक दिन ऐसा आता है कि आदमी शक्तिशून्य हो जाता है। वह ढीला हो जाता है। मन शक्तिहीन हो जाता है। सारा का सारा शून्य-सा लगने लगता है।

हम विद्युत् को खर्च न करें, केवल वृत्ति का रेचन करें। वृत्तियों के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का रेचन करो, विद्युत् को खर्च मत करो। विद्युत् को सुरक्षित रखो, यह है अध्यात्म की प्रक्रिया।

दमन की बात उपयुक्त नहीं है। अध्यात्म के किसी भी अनुभवी आचार्य ने दमन का प्रतिपादन नहीं किया। प्राचीन ग्रन्थों में दमन की भाषा नहीं मिलती। हो सकता है कि धर्म के कुछ आचार्यों ने ऐसा लेखन किया हो, पर उसे अनुभव-शून्य लेखन ही मानना चाहिए। हर किसी लेखक की बात, मान्य नहीं होती। उसी लेखक की बात मान्य होती है जो प्रत्यक्षज्ञानी है, कषायशून्य है, सम्यक्-दृष्टि-कोण से संपन्न है, आत्मा को उपलब्ध है, जो अध्यात्म की गहराई में उत्तरने का अभ्यस्त है, उसकी बात मान्य होती है, प्रमाण होती है। दूसरे व्यक्ति की बात प्रमाण नहीं होती। धर्मग्रन्थों में यत्क-तत्त्व दमन के कथन प्राप्त होते हैं, परन्तु यह नहीं कह सकते कि सभी धर्मग्रन्थों में यह बात मान्य रही है। आचार्य रजनीश ने धर्मगुरुओं पर, धर्म पर बहुत बड़ा आक्षेप किया है कि धर्मगुरु दमन सिखाते हैं, धर्म दमन सिखाता है। यह झूठा आक्षेप है। इसमें सचाई नहीं है। धर्मशास्त्र कभी दमन नहीं सिखाते। धर्मशास्त्र रेचन की बात सिखाते हैं। तपस्या की पूरी प्रक्रिया निर्जरा की प्रक्रिया है। धर्मशास्त्र निर्जरा की प्रक्रिया सिखाते हैं। धर्मगुरु निर्जरा का रास्ता दिखाते हैं। निर्जरा की प्रक्रिया दमन की प्रक्रिया नहीं है, रेचन की प्रक्रिया है। जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी वृत्तियों को जगाते हैं, उन सारे परमाणुओं का रेचन कर देना, उन्हें समाप्त कर देना, उनका शोधन कर देना—यह है निर्जरा की प्रक्रिया। रेचन और संवर—दोनों साथ-साथ चलें। पुराने परमाणुओं को झाड़ देना और नये परमाणु भीतर न जाने पाएं, ऐसी व्यवस्था करना। यह दोहरी व्यवस्था धर्म के आचार्यों ने की है। इसलिए मैं मानता हूं कि धर्म के आचार्य या धर्मशास्त्र वृत्तियों के दमन की बात नहीं बताते। यदि वृत्तियों के दमन की ही बात होती तो निर्जरा की प्रक्रिया हमारे सामने नहीं आती।

मनोविज्ञान ने जो घ्यान्तरण की बात का प्रतिपादन किया, वह सामाजिक-

भर का भ्यान्तरण है। उनके पास अध्यात्म की प्रक्रिया नहीं है। अध्यात्म-साधना में एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिपादन है जिसके द्वारा व्यक्ति की वृत्तियों का विलीनी-कारण दो जाता है और नये चंतन्य का उदय होता है। हमारी वृत्तियां जागती हैं पाम-केन्द्र के पास। क्रोध की वृत्ति, भय और काम-वासना की वृत्ति काम-केन्द्र के आमपास जागती हैं। नाभि के पास दो एड्रिनल ग्रन्डियां हैं। वे वृत्तियों को उत्तेजित करती हैं। जब ऊर्जा नाभि के आसपास घूमती है तब क्रोध, भय और काम की वृत्तिया धार-व्यार उभरती हैं, और व्यक्ति को सताती रहती हैं। साधना से ऊर्जा का दिग्नान्तरण करना है, उसके प्रवाह को बदल देना है, उसकी दिशा को बदल देना है। जो ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होकर निम्न वृत्तियों को शक्ति देती है, वहिय करती है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना, ज्ञान-केन्द्र की ओर प्रवाहित करना—यह साधना का मूल लक्ष्य है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लग जाती है तब वृत्तिया गान्त हो जाती है। जब ऊर्जा ज्ञान-केन्द्र तक पहुंचती है तब वृत्ति-केन्द्र का ही शोधन होने लग जाता है।

लेश्या के शिद्वात में बताया गया है कि कृष्ण-लेश्या नील-लेश्या के भावों को प्राप्त कर नील-संतेश्या में बदल जाती है। नील-लेश्या कापोत-लेश्या के भावों को प्राप्त कर चारोंत-लेश्या में बदल जाती है। इसी प्रकार कापोत-लेश्या तेजो-लेश्या में, तेजो-नेश्या पथ-लेश्या में और पथ-लेश्या शुक्ल-लेश्या में बदल जाती है।

दूध में दही टाला, दूध दही बन गया। सफोद कपड़े को जिस रंग से रंगा, वह उसी रंग का बन गया। सफोद कपड़ा काला, नीला, पीला, लाल, वैगनी—सभी रंगों का बन जाता है। वेद्यूर्यमणि काले धारे में पिरोने से काली झाँई बाना, बीने धारे में पिरोने से नीली झाँई बाना और लाल धारे में पिरोने से लाल झाँई बाना हो जाता है। स्फटिक के सामने जैसा रंग आता है वैसा ही प्रतिरिप्रय ही जाता है। इसी प्रकार हमारी लेश्याएं भी भावों के परिवर्तन के साथ-साथ बदलती रहती हैं। जैमे-जैमे लेश्याएं बदलती हैं वैसे-वैसे हमारा आभामंडल भी बदलता रहता है।

इस लेश्याओं का परिवर्तन कर अपनी वृत्तियों को बदल सकते हैं, उनका लश्याधन बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया से हम काम-केन्द्र का भी शोधन कर सकते हैं। उसे ऐसा निर्मल बना सकते हैं कि वहां काम और क्रोध की वृत्तियां आएं पर जाग न पाएं, वहिय न बन पाएं। वह इतना निर्मल बन जाएगा कि वृत्तियां उभरेंगी ही नहीं। वहां एक ऐसा मैनेजिंग कीहृद-न्यूम्परीय क्षेत्र बन जाता है कि फिर उन निम्न दृष्टियों की दृष्टि रखता ही नहीं भिजता। पृत्तियां जानें पर भीतर ही विलीन हो जाएँ—रह जाएँ जो उपर्याता से ही संभव है। हम ध्यान-साधना के द्वारा वृत्तियों की दृष्टि नहीं करते, इन्हें ऊर्जा की उम्हरे पथ में प्रवाहित कर उनको विलीन कर दते हैं। एक दृष्टियों ऊर्जा ज्ञान-केन्द्र में जाती है, तब सारी निम्न वृत्तियां चमापत हो-

जाती हैं। थायराइड, कंठमणि, पिच्छूटरी, पिनियल, विशुद्धि-केन्द्र, दर्शन-केन्द्र, ज्योति-केन्द्र, शान्ति-केन्द्र—ये सब ज्ञान-केन्द्र हैं, ज्ञान के भाग हैं। ऊर्जा ऊपर उठकर इन केन्द्रों को सक्रिय करती है। जब ये केन्द्र सक्रिय होते हैं तब वृत्तियां अपने आप शुद्ध होने लगती हैं, उनका रेचन होने लगता है। विना जागे, विना उदय में आए, विना विपाक दिए, विना फल दिए, एक ऐसी उदीरणा होती है कि वृत्तियों का स्वतः रेचन हो जाता है।

साधक का सर्वोपरि कार्य है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना, न कि वृत्तियों का दमन करना।

जो व्यक्ति धार्मिक होकर भी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया को नहीं जानता, वह वृत्तियों का संशोधन नहीं कर सकता। वह दमन की स्थिति में चला जाता है।

अध्यात्म की समूची साधना, योग की समूची साधना, ध्यान की समूची साधना ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण की साधना है।

किसी का सिर दुःखता है। दूसरा व्यक्ति उसके सिर पर हाथ रखता है, सिर दबाता है। उसको लगता है कुछ आराम हो रहा है। शरीर के किसी भाग में दर्द है। स्पर्श किया जाता है, दबाया जाता है, दर्द मिट जाता है। व्यक्ति को मुख का अनुभव होता है। यह सारा प्राण-शक्ति का कार्य है। एक व्यक्ति की प्राणधारा; विद्युत्‌धारा दूसरे व्यक्ति की प्राणधारा या विद्युत्‌धारा से संपूर्ण होती है तब सुख का अनुभव होता है। यह प्राण-चिकित्सा है। इसे यदि हम अध्यात्म-चिकित्सा या अध्यात्म-साधना मान लेते हैं, ध्यान की साधना मान लेते हैं तब बहुत बड़ी भ्रान्ति हो जाती है। यह सच है कि प्राण-चिकित्सा के द्वारा रोगों को ठीक किया जा सकता है। प्राण-शक्ति के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विद्युत् को छूकर, उसकी मानसिक कुण्ठाओं को मिटा सकता है, उसकी दमित वासनाओं को रूपान्तरित भी कर सकता है। किसी पुरुष का स्त्री के प्रति अनासक्त भाव हो गया। किसी दुर्घटना के करण मन में ग्लानि हो गई, प्राण-शक्ति का प्रयोग कर इस ग्लानि को मिटाया जा सकता है, उस पुरुष में स्त्री के प्रति पुनः अनुराग उत्पन्न हो सकता है। किन्तु यह कोई ध्यान या अध्यात्म का प्रयोग नहीं है। यह मात्र प्राण का प्रयोग है।

स्थूलभद्र मंत्री के पुत्र थे। वे वचपन से ही स्त्री से घबराते थे। स्त्रियों के सहवास से डरते थे। मंत्री कों यह अच्छा नहीं लगा। वे अपने पुत्र को विवाहित देखना चाहते थे। उन्होंने अपने राज्य की प्रसिद्ध वेश्या को शारूपा के घर स्थूल-भद्र को भेजा। वेश्या से मंत्री ने कहा—‘इसमें स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा करना है। तुम अपनी समस्त कलाओं का उपयोग कर इसे काम-कला में निपुण बना देना।’ वेश्या ने प्रयोग किए और स्थूलभद्र में काम के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। क्या इसको हम अध्यात्म प्रयोग मानेंगे? क्या ध्यान-साधना है? यह सच है कि वेश्या ने स्थूलभद्र की मानसिक चिकित्सा की और उसको स्त्रियों के प्रति उन्मुख

किया। विद्यों के प्रति मन में जो नामि थी, वह समाप्त हो गई।

जाग्रत्तम् पर्म के नाम पर या योगाभ्यास और ध्यान-साधना के नाम पर चलने वाले शुद्ध आश्रमों में इन प्रकार की कुण्ठा बाले स्त्री-पुरुषों पर मुक्त-योगाचार न। प्रथम करते हैं, पौर उनकी कुण्ठाओं को समाप्त करते हैं। जो पुरुष स्त्री के नाम प्राप्ति में या जो स्त्री पुरुष के पाग जाने से पवराती है, उनकी इस कुण्ठा को योगाचार के द्वारा समाप्त कर ध्यान-साधना की दुहाई देते हैं, यह मिथ्या दृष्टि-प्राप्ति है। यह ध्यान के नाम पर योगाचार को बढ़ाने का प्रयास मात्र है। यह माना जा सकता है कि इन प्रकार की प्रक्रिया से उभयो मानविक-चिकित्सा तो हो जाती है। किन्तु इन हम ध्यान-साधना वा ध्यान साधना नहीं मान सकते। वह मन की कुण्ठा की चिकित्सामात्र है, और कुछ नहीं।

यदिहम् इन ध्यान वा ध्यात्म की साधना मानें तो वेश्या कोशाष्टपा का ध्यान नहीं होगा। उनमें स्वूनभट्ट की मानविक कुण्ठा को मिटाया, उसको उत्तरा न मृत्यु देना होता था। यिनका मृत्यु आज कुछ आश्रमों में दिया जा रहा है। कोशाष्टपा ही एक वेश्या नहीं थी। अनेक वेश्याओं ने इस प्रकार के कार्य किए हैं। ऐसे लोगों में निरुप होती थी। उनमें एक मुख्य कला होती थी कि वे अपने प्रदेशों से अपने कुण्ठाओं को मिटाती थीं। इस विधि से वे अनेक पुरुषों को कामुक-प्राप्ति देती थीं। यथा हम उन वेश्यानां से अध्यात्म ध्यान-केन्द्र मान लें? तो उने कुछ देता जा सके भी पौर उन वेश्यानां से क्या बन्तर है?

उन आश्रमों के प्रमोग इसी बाधार पर हो रहे हैं हिंदू वे 'दमत भत करो, खोगा'—के निदान पर चलते हैं। उन्होंने 'दमत' शब्द को पकड़ लिया। उसका यात्रा वृक्षम् युआ—मुत्त-योगाचार। मुक्त-योगाचार को युक्तकर घेनने का अवतर दिल गया।

परमेश्वर नामा दी थी कि मात्र यादी मानन में जोई परिवार नहीं होगा। जोई की नहीं होती होती, जोई परिवार नहीं होगा। कोई याप नहीं होगा। कोई विदा नहीं होगा। इसी कल्पना योगाचार नहीं है। यदिताकार हीनी से आज अध्यात्म के किनी अवधारणा मुक्त-योगाचार जैन प्रथाएँ नहीं करते रहते। यह तो मासन पहने ही बहुत है। जो यादी है, यह यक्ति नहीं है, यह भवन वान है। आज जो साम्बद्धी है, वह मानें के निहित हो का द्विवामण हो रहा है, वहां भी वह यात्रा नहीं होती। याज वा भी परिवार है। परिवार ही, साम-रेटा है। नव कुछ है।

जाग्रत्त के शुद्ध के द्वारा योगाचार के प्रति जागरूण है, पौर वह ऐसे स्पन्दनों में बह ला ला ल है वह शुद्ध योगाचार किसी भी याम ने चढ़ाता हो—चढ़ाते वह दृष्टि नहीं है वे याम दे याम से खले या कुण्ठा-योगाचारघ के लिए चले। किन्तु वह नहीं। योग वा योग योगाचार होता है, यह भवती शाल है। हम परिवारों से दृष्टि नहीं होते।

प्रवृत्ति का क्षण हमारे लिए मूल्यांकन का क्षण नहीं होता। हम उसे कसौटी नहीं मान सकते। कसौटी बन सकता है परिणाम का क्षण, कसौटी बन सकता है निष्पत्ति और फल का क्षण।

यदि मुक्त-यौनाचार के प्रयोगों के परिणामों पर हम विचार करते हैं तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इतने खराब परिणाम आएंगे कि सारा सामाजिक ढांचा ही विकृत हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा।

गांधी ने इस दिशा में प्रयोग किए। प्रयोग हो सकते हैं। प्रयोगों को मैं अस्वीकार नहीं करता। जैन परम्परा में विजय सेठ और विजया सेठानी के वृत्तान्त की चर्चा है। वे दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर चुके थे। दोनों एक शय्या पर सोते। किन्तु थे पूरे ब्रह्मचारी। यह प्रयोग था उनका। किन्तु ऐसे विरल व्यक्तियों के प्रयोगों को हम सामाजिक स्तर पर लाना चाहें तो यह हमारी वज्र भूल होगी। सब मुक्त हो जाएंगे। किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। परिवार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पतिव्रत और पत्नीव्रत जैसे शब्द आकाश-कुसुम बन जाएंगे।

मुक्त-यौनाचार का प्रयोग करने वाले इसे भारतीय विकास का हेतु मानते हैं। यह उनका चितन है। अपना-अपना चितन। हमें क्यों आपत्ति हो। किन्तु सिद्धान्ततः और अनुभव के आधार पर इस बात पर विचार करें तो हम दोनों तटों—दमन और मुक्त-यौनाचार—को एक दृष्टि से देखेंगे कि दमन जितना अपराध है अपने व्यक्तित्व के प्रति, उतना ही अपराध है उन्मुक्ता या उच्छृंखलता अपने व्यक्तित्व के प्रति। हम इन दोनों से बचकर रेचन की बात सीखें, रेचन करना जानें। जब ऊर्जा की ऊर्ध्वयात्रा होगी तब हमारी समस्याएं अपने आप समाहित होंगी और हम इस प्रकार की भ्रान्त दिशाओं में जाने से बच जाएंगे।

५. आभामंडल और शक्ति-जगरण [१]

- १ • गायना द्वारा नये द्वार का उद्घाटन ।
- २ • आहुनिरुद्धार नये द्वार
 - शाम
 - तनाव
 - किंवार
 - बी-मालु
 - वस्त्रु के विषुव संदन ।
- ३ • एन्टरिक्त गाइलोवांडी के प्रवर्त्तन चुग ने कहा—‘लिविडो अवति भावनिक-शक्ति काम-शक्ति नहीं, किन्तु सामान्य शक्ति है। काम-शक्ति एवं एक भाव मात्र है।’

पांच

हम सब ज्योति की साधना के लिए उपस्थित हैं। ज्योति दो हैं—आत्मा की ज्योति और तैजस् की ज्योति। हम दो ज्योतियों के बीच अपना उपक्रम कर रहे हैं।

एक है आत्मा की ज्योति। वह जलती है, पर उसके प्रकाश का पता नहीं चलता। वह प्रकाश कभी बुझता नहीं। वह एक ऐसा दीप है जो निरंतर जलता रहता है। उसमें इंधन की आवश्यकता नहीं होती। उसमें सहज ही ऐसी शक्ति है कि वह सदा प्रज्वलित रहता है।

दूसरी है तैजस् की ज्योति। यह हमारे शरीर की ज्योति है। हमारा एक सूक्ष्म-शरीर है—तैजस्-शरीर। ध्यान-काल में कभी स्फुलिंग सामने आते हैं, कभी चिनगारियां उछलती हैं और कभी रंग सामने आते हैं। ये रंग, चिनगारियां और स्फुलिंग—सारे ही तैजस्-शरीर में से निकलते हैं और कभी-कभी दिखाई दे जाते हैं। जब हमारा मन सूक्ष्म होता है, एकाग्र होता है, तब वह उन्हें पकड़ लेता है।

ज्योति की साधना में कुछ वाधाएं भी हैं। ये वाधाएं हैं वृत्तियों की। हमने बहुत सारी वृत्तियां अंजित कर रखी हैं और ये समय-समय पर उभरती रहती हैं। हमारे नाड़ी-संस्थान में तरंगें उठती रहती हैं। कभी किसी चैतन्य-केन्द्र से तरंग उठती है और कभी किसी चैतन्य-केन्द्र से। नाना वृत्तियां, नाना केन्द्र और नाना प्रकार की तरंगें। ये तरंगें स्नायुओं को उत्तेजित करती हैं। उत्तेजना अभिव्यक्त होती है। यह साधना में वाधा बन जाती है। हम अभ्यास यह करते हैं कि तरंग न उठे, हमारा स्नायु-संस्थान उस तरंग को स्थान न दे, उसे अपने पर न उतारे। हम स्नायु-संस्थान के शोधन की साधना करते हैं, संस्कारों के शोधन की साधना करते हैं। साधना में सबसे बड़ी वाधा है क्रोध की, भय की और काम-वासना की। ये तीन मुख्य वाधाएं हैं। कभी अप्रियता की अनुभूति होती है और तत्काल क्रोध उभर आता है। कभी काम की तरंगें उठती हैं। भय की तरंग तो वनी ही रहती है। जब तक साधक इन तरंगों से छुटकारा नहीं पा लेता तब तक वह निर्विघ्नहृषि से आगे नहीं बढ़ सकता। इनसे निपटने से पहले हमें अपने दृष्टिकोण को शुद्ध

करता होय। इसाय दृष्टिकोण बहुत सरल है। वह एक पारदर्शी स्फटिक है। उसी की एक स्थितिरूप है। जो पारदर्शी होता है वह दूसरे का प्रतिविम्ब बहुत अचूक प्रदर्शन करता है। स्फटिक हमारे नामने वैना रंग आता है, स्फटिक उस रंग को प्रदर्शित करता है। वैना प्रतिविम्ब दूसरे रंग जाता है। दृष्टिकोण की कठिनाई है उसकी पारदर्शिता और पारदर्शिता की कठिनाई है उसकी संसामकता। हम इस विषयका ने कौन करते हैं इसके नामने प्रकार के पिचार भाव हैं और वे इसे दृष्टिकोण में समझते ही जाते हैं।

हम विषयकी वादा के लिए चयते हैं। हमने तीव्रारी की कि हम आत्म-प्रधन करें, आत्मा की वादा करें। राम हमारे वीजन वाधा बनकर घड़ा हो जाता है। वह हमारे दृष्टिकोण में समाज हो जाता है।

विषयकी वादा में जो राम है, गवेषितान की भाषा में वही सेक्स या जास है। गवेषितान के एक गद्द का प्रयोग किया—लिबिडो (LIBIDO)। यह विषयकी वादा वीजन है। जो काम-शक्ति है उसका संवेदन केवल नेतृत्व से ही नहीं है। 'लिबिडो' गद्द से जो का पर्यायवाची नहीं है। किर भी स्पूल या नारायण भी मवेषितान काम गद्द को नेतृत्व के द्वारा अभिव्याप्त करता है। यह गद्द जो का दिवान्वरण नहीं होता, जब तक राम को नवी दिवा नहीं दे देते तब वह जीवाल की वासा भी हो जाती। काम का दिवान्वरण या मामन्त्रितरण यही जास है। यह स्थिति जो जल जा रहा है। यह जिसे सिचन दे रहा है, वह कमज़रा जासेगा। जब तक हम जल-प्रणालियों को नहीं धदस देते तब तक नयी पीथ नी जानी होगी। यदि यही पीथ नेता करनी है तो जल-प्रणालियों को मोड़ना होता, जब सी दिया जानकी होगी। जो पहले से यीचा जा रहा है, उस माने की बद कर, करी बहुर भिकानी होगी, जिसने कि यह जल दूसरों का सिचन कर दिया।

प्रति नहीं होती। मुग्धता संस्थान या आकृति के प्रति नहीं होती। मुग्धता होती है विद्युत् के प्रति। जब अनुकूलधर्मा विद्युत् मिलती है तो दो व्यक्ति आपस में वंध जाते हैं। विद्युत् विद्युत् को पकड़ती है, बांधती है।

काव्य-शास्त्रों में उल्लिखित है कि स्त्री दूसरों को आकृष्ट करने के लिए अपने कटाक्ष के बाणों का प्रक्षेप करती है। यह कटाक्ष क्या है? बहुत बार सोचा, किन्तु इसका यथार्थ समाधान नहीं मिला। किन्तु जब ध्यान-साधना में उत्तरा तो यह स्पष्ट हो गया। हमारे मस्तिष्क में बहुत विद्युत् पैदा होती है। आंख मस्तिष्क का दरवाजा है। मस्तिष्क को देखने के दो उपाय हैं। या तो मस्तिष्क को शल्य-क्रिया द्वारा देखा जा सकता है या आंख के मार्ग से उसको पूरा देखा जा सकता है। मस्तिष्क की विद्युत् आंख से बाहर निकलती है। शरीर की विद्युत् के बहिर्गमन के तीन मुख्य स्थान हैं—आंख, अंगुलियाँ और बाणी। ये तीन मुख्य द्वार हैं। आंख के माध्यम से जो विद्युत् बाहर जाती है वह जब दूसरे व्यक्ति की विद्युत् से टकराती है तब व्यक्ति सम्मोहित जैसा हो जाता है। सारा काम विद्युत् का है। इसलिए जब तक हम विद्युत् की गरिमा या कार्यप्रणाली को नहीं समझ लेंगे तब तक काम या राग का दिशान्तरण या मार्गन्तरण घटित नहीं होगा। जो व्यक्ति अपनी विद्युत् को, ऊर्जा को मोड़ देता है, जो ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति ऊर्जा को मोड़ देता है, उसकी काम-ऊर्जा शिथिल हो जाती है। उसकी रागानुभूति कम हो जाती है। जिस राग-प्रणालिका से वहता हुआ जल काम को, सेक्स को सिंचन करता था, वह मार्ग धीरे-धीरे बंद होता जाता है और नया मार्ग खुल जाता है। वह जल दूसरे मार्ग से वहने लगता है।

अध्यात्म शास्त्र में राग के दो भेद प्राप्त होते हैं—प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। जो राग धर्म के प्रति होता है, आत्मा के प्रति होता है, धर्मसूर्ति पुरुष के प्रति होता है, वह ही प्रशस्त राग। जो राग विषयों के प्रति, पदार्थों के प्रति होता है वह ही अप्रशस्त राग। ‘धम्माणुरागरत्ते’—जो व्यक्ति धर्म के अनुराग से रक्त होता है वह धार्मिक होता है। यहां भी अनुराग है। राग नहीं मिटा। केवल इतना-सा अन्तर आया कि जो राग विषयों या पदार्थों के प्रति दौड़ता था, वह राग धर्म के प्रति हो गया। वह राग सत्य की खोज के प्रति हो गया। राग के बिना काम नहीं चलेगा। जब तक व्यक्ति वीतराग अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, जब तक उसके सारे कषाय क्षीण नहीं हो जाते तब तक राग से सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। किन्तु यहां राग का दिशान्तरण होता है। व्यक्ति का राग धर्म-मय बन जाता है, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति हो जाता है। पदार्थ के प्रति विराग हो जाता है। साधना का महत्त्वपूर्ण सूत्र है—‘अनुरागाद् विरागः’—अनुराग से विराग होता है। एक के प्रति अनुराग, दूसरे के प्रति विराग। विराग और राग—दोनों सापेक्ष हैं। जब आत्मा के प्रति राग उत्पन्न होता है तब पदार्थ के प्रति

प्रिया होता है। जब पदार्थ के प्रति राग उत्तम होता है तब आत्मा के प्रति विद्युत होता है। आत्मा और पदार्थ दोनों के प्रति एक साथ राग या विराग नहीं हो सकता।

युछेह अनियत यह कहते हैं—काम नैसनिक है। उने छोड़कर नवा मार्ग क्यों बनाए? मैं नु नंगा प्राणी-मात्र की स्वाभाविक हस्तिया है। उससे नवों बदला जाए? वह प्रश्न स्वाभाविक है काम व्यक्ति या नैसनिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, इतना रहने मान ने समस्या का नमाधारन नहीं हो जाता। सच यह है कि जब तक हम प्राकृतिक गुणों का भी उदात्तीकरण नहीं कर सकें तब तक हम पशु की भूमिका में ही रह जाने हैं। पशु मनुष्य इसलिए नहीं होता कि वह प्रकृति-प्रदत्त नियमों का विद्यान करना नहीं जानता, मार्गनितरीकरण या उदात्तीकरण करना नहीं जानता। मनुष्य की समाजों का इसीलिए विकास हुआ कि वह प्रकृति-प्रदत्त या नैसनिक गुण-धर्मों जैसे उने उत्तमव्य है, यह उनका शोधन करना जानता है, विकास करना जानता है, उनका उदात्तीकरण करना जानता है और उनको नवा मूल्य देना जानता है। ऐसीनिया मनुष्य मनुष्य है। उसने नवी दिशाएं खोजी हैं और वह अपनी चेतना की वार्षिक कर पाया है। यदि मनुष्य काम को नैसनिक मान कर बैठ जाए और पशु की भाँति उनका अनियंत्रित उपयोग करता चला जाए तो समाज ही नहीं बदलेगा। समाज तब बना जाय उसने एक व्यवस्था की, कुछ रेखाएं खोचीं। पशु नवा यार्द खोजना नहीं जानता, नवा दख्खाजा खोलना नहीं जानता और अपनी जड़ों के प्रवाह को और अधिक उपयोगी बनाना नहीं जानता। इसीलिए वह जहाँ था, वही थे और वहीं रहेगा।

एक तरफ़ दिया जाता है कि पशु नंगा रहता है पर भद्वा नहीं लगता। पशु मुक्त-योगापार करता है। उसे संकोच नहीं होता, तज्ज्ञ का भनुभव नहीं होता। जब पशु पूरा करता है किर मनुष्य वर्षों न करे? 'संभोग से समाधि' जैसे सिद्धान्तों में ऐसे लक्ष दिए जाते हैं। किलगा हास्यापद है? आत्र यदि मनुष्या मानव-समाज पशु बन जाए और किर इन प्राकृतिक नियमों का उपयोग करे तो योई आख्याय नहीं होता। एक जोर वाला मनुष्य पाश्विक वियमों को छोड़कर नये समाज का निर्माण करता जाए तो उन्हें जितने गुण-धर्मों का विकास करना चाहता है, दूसरी ओर आगे रहना वाली गुणों के विकास करने के गुण-धर्मों का उपयोग करनुत भाँगेढ़ा का अनियि। करता चाहता है, वह कौमा देख! श्रीष्ठ स्वाभाविक है। काम स्वाभाविक है। भय न स्वाभाविक है। इहें नीचमा नहीं पढ़ता। स्वाभाविक का अर्थ है। यह नीचमा नहीं पढ़ता। यो एक के नाम-तात्पर जाता है वह होता है स्वाभाविक। श्रीष्ठ नीचमा नहीं पढ़ता, पशु नीचमा नहीं पढ़ती है। भय नीचमा नहीं पढ़ता, अभय नीचमा नहीं पढ़ता है। जबकि नव्य भोजना नहीं पढ़ता, रुचर्य सीधना पढ़ता है।

इस प्रश्न का उत्तर नैसनिक है और कुछ सुप्रवासन-धर्म। नैसनिक को ही नव गुच्छ

मानकर चलने पर समाज नहीं बनता। मनुष्य ने इन सारी नैसर्गिक वातों को उदात्त किया है। उनका मार्गन्तरीकरण कर मनुष्य ने अनेक विशेषताएं अर्जित की हैं। यदि मनुष्य की सारी ऊर्जा प्राकृतिक नियमों को पूर्ण करने में ही बहती तो आज मनुष्य इतना ज्ञानी नहीं होता, इतना कला-निपुण नहीं होता। वह न सत्यों की खोज कर पाता और न सूक्ष्म रहस्यों से परिचित हो पाता। मनुष्य ने जो महानताएं, विशेषताएं उपलब्ध की हैं, वे अपनी ऊर्जा का दिशान्तरण करके ही की हैं। एक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा, धर्म की साधना में लगा और सारा जीवन उसमें खपा डाला। उसकी ऊर्जा सत्य की खोज में लगी और उसने सारे जगत् को नये-नये सत्यों से भर डाला। सारा संसार उनसे उपकृत हुआ।

जब-जब भी आदमी ने बड़ा काम किया है, वह अपने अनुराग के प्रवाह को दिशान्तरित करके ही किया है। वाचस्पति मिश्र ने एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखना प्रारंभ किया। वे विवाहित थे। अभी-अभी विवाह संस्कार हुआ था। वे दिन-रातः उस ग्रन्थ के लेखन में लग गए। सारा अनुराग ग्रन्थ-लेखन में लग गया। बारह वर्ष बीत गए। प्रतिदिन नवोढा आती और बुझते दीपक में तेल डाल कर चली जाती। उसका यह क्रम प्रतिदिन चलता। ग्रन्थ समाप्ति पर था। रात का समय। वाचस्पति लिख रहे थे। पत्नी आई। दीप में तेल डाल वह जाने लगी। वाचस्पति ने आंखें ऊपर उठाकर पूछा—‘अरे! तुम कौन हो? यहां क्यों आई?’ उसने कहा—‘मैं आपकी पत्नी भामती हूँ।’ यह सुनते ही उन्हें विवाह की स्मृति हो आई। बारह वर्ष का विवाह-संस्कार साकार हो उठा। उन्होंने कहा—‘माफ करना। मैं भूल गया था। मुझे भान ही नहीं था कि मैंने विवाह किया है।’ अन्त में उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में उस ग्रन्थ का नाम रखा ‘भामती’।

इतने महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना तभी हो पाई, जब अनुराग का प्रवाह बदला। यदि ऊर्जा का प्रवाह काम-वासना की ओर बहता तो इस महान् ग्रन्थ की रचना नहीं हो पाती। इसलिए मैथुन को, संभोग या काम-वासना को नैसर्गिक मान लेने पर भी यदि हम नैसर्गिक प्रणालिका में बहने वाली ऊर्जा को दूसरी दिशा में नहीं ले जाएंगे तो फिर मनुष्य पशु ही होगा। वह आज के अर्थ में मनुष्य नहीं बन पाएगा। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम नैसर्गिक राग को एक नया रास्ता, नया मार्ग दें और उसके लिए नया दरवाजा खोलें।

एक बात है कि मुक्त भोग का प्रतिपादन करने वाली विचारधारा के अनुसार प्रेम की महासत्ता का ही दूसरा नाम है ‘काम’। अतः प्रेम को विस्तार देने के लिए काम की मुक्तता अनिवार्य है।

काम प्रेम का ही अंग हैं अर्थात् राग का ही अंग है। यह सच है कि सब कुछ राग से ही चलता है, प्रेम से ही चलता है, किन्तु राग को मुक्त करने की बात बहुत भयंकर है। काम का मुक्त उपयोग कैसे संभव हो सकता है? हम इस संभावना-

पर दिकार करें। दोष प्राचुरिक धर्म है। क्या हम उसका मुक्त उपयोग करें? यदि न तो तो मूल उपयोग होने लग जाए तो न परिवार चलेगा, न पड़ोस चलेगा और न समाज ही चलेगा। नद विद्वर जाएगा। मनुष्य ने सब से पहले एक समझौता किया। उम्मी गर्न है—“मैं तुम्हें वाधा नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझे वाधा नहीं पहुंचाऊंगे।” इस नमझीने के आधार पर समाज बना, गांव बने। हजारों व्यक्ति नाम रखे गये। यदि यह समझौता नहीं होता तो न समाज बनता और न गांव बनता। यारा वर्णन ही होता, जहाँ एक जानवर दूसरे पर झपटता है, भारता है। ऐसा अहंकारी भैरवी की पहुंची निपत्ति है—समूह में रहना, गांव का वसना। यारा या नगर का विसास, समाज का विकास इसी अहिंसा के समझौते के आधार पर हुआ है। परिवार का विकास भी इसी आधार पर हुआ है। यदि काम-भूमिका नहीं थी, उन लोगों ने मुक्त होता तो न परिवार बनता, न समाज बनता और न गांव बनता। मुक्त-भोग एक-दूसरे परिवार में हस्तक्षेप है। यह हस्तक्षेप अपार्थ नहीं है, समाज अवस्था में। ऐसी स्थिति में जहाँ वध्यात्म साधना का फल है, व्यक्ति के उदात्तीकरण का प्रगत है वहाँ मुक्त-भोग की बात कभी मान्य नहीं हो सकती।

ये मानवा है कि लियी भी वृत्ति का दमन नहीं होना चाहिए। रिप्रेशन-प्राप्ति करना चाहिए, उवाना नहीं चाहिए, इसका तात्पर्य यह कभी नहीं होता कि इन व्यक्तियों ने मुक्त कर देना चाहिए। हमें तीसरा मार्ग खोजना चाहिए। न केवल अनाव असरपा वी दृष्टि से, बिन्दु व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी हमें तीसरा मार्ग खोजना पाहिए। न दमन का मार्ग अच्छा है और न मुक्तता का मार्ग अच्छा है। कभी मार्ग है सामन्तरण का उदात्तीकरण का, शोधन का।

अब है कि बाम के हसानतरण के मूल कौन-से हैं? उसके उदात्तीकरण और अध्ययन के मूल कौन-से हैं?

ही न न २८—“उस पर्मी ने सेसस सो जहर पिला कर भारना चाहा, किन्तु उस सद्य नहीं। इसना अपने हुए कि वह विपाक्त होकर, जहरीला होकर जीवित ही रहा। अब वास पिपाक्त होकर जी रहा है। वह जहरीला सर्व बन कर डस रहा है। यह जहर वही चाहा है। यहाँ दमन होता है वहाँ काम मरता नहीं, अपना ही जीता है। अवित्त बाम को यहु बढ़ा अनर्थ मानते हैं। उसकी बात अपना अपना वी अनुभव करते हैं। इसना अस्याभाविक उर, दृतना काल्पनिक उर या जीवन में दृतना जीव भनवती है और याहुर ने इतना पानी ढालने का अनुभव किया है। यह जहर होता है कि भीतर हुछ नहीं अल रहा है। इन दोहरे अनुभवों का अस्याभाव अनेक प्रभाव देश करता है। और भीतर देसे प्रमुख अर्थी। यह दोहरे अनुभवों का अस्याभाव है। इसे देखिये। यहीं पर्मी उसी पर्मी। इसमें सूचाई है। इसमें सूचाई है। इसमें सूचाई है।

सकता। हमारी धारणा है कि आंख देखती है। उसमें विकार भी आता है। तो आंख को फोड़ देना चाहिए। कितनी आंखें फोड़ेंगे? क्या सारा संसार अंधा बन जाएगा? नयी समस्या पैदा हो जाएगी।

काम स्वाभाविक है। साधना के प्रारंभ में ही यदि कोई व्यक्ति यह प्रदर्शित करता है कि वह काम से ऊपर उठ गया, निष्काम बन गया, वीतराग बन गया तो यह धोखा है, छलना है। यह बहुत बड़ी प्रवंचना है। अपने आपको धोखा, दूसरों को भी धोखा। हम यह मानकर चलें कि जो व्यक्ति साधना शुरू करता है, दिशान्तरण का प्रयत्न शुरू करता है वह एक ही दिन में सिद्ध नहीं हो जाता। प्रयत्न को स्वीकार करें, मार्गान्तरण को स्वीकार करें, अःयास को स्वीकार करें, साधना को स्वीकार करें, किन्तु सिद्धि का प्रदर्शन न करें, सिद्ध होने का प्रदर्शन न करें।

स्वाभाविक वृत्तियां मनुष्य में जागती हैं। साधक में भी जागती हैं और सामान्य मनुष्य में भी जागती हैं। साधक वह होता है जो वृत्तियों के मार्गान्तरी-करण की दिशा में प्रस्थान कर चुका होता है। और कोई अन्तर नहीं आता। जो इस दिशा में यात्रा प्रारंभ नहीं करता, वह साधक नहीं होता, भले फिर वह गृहस्थ हो या संन्यासी। जो इस दिशा में यात्रा प्रारंभ कर देता है, वह साधक होता है, भले फिर वह गृहस्थ हो या संन्यासी। प्रश्न है प्रयाण का। प्रयाण करने से पूर्व यह प्रश्न आएगा कि हमारा यात्रा-पथ कौन-सा है? हमारे प्रयाण की दिशा कौन-सी है।

राग का प्रवाह जो काम की दिशा में जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। व्यक्ति में तनाव जितना होता है, उतना ही काम प्रबल होता है। जितना तनाव उतना काम। तनाव होना, काम की उत्तेजना होना—यह कृष्ण-लेश्या का परिणाम है। कृष्ण-लेश्या वाला अजितेन्द्रिय होता है। यह कृष्ण-लेश्या का भाव है। इसका आभामंडल काला होता है। कृष्ण-लेश्या का परिणाम जितना प्रबल होगा तनाव उतना ही ज्यादा होगा। तनाव के कारण व्यक्ति बहुत सारी बुरी आदतों का शिकार होता है। व्यसनों का शिकार होता है। तनाव को निकालने का एक विचित्र प्रयोग पढ़ा। एक महिला तनावग्रस्त थी। आश्रम में गई। प्रयोग किया। छेड़-छाड़ की गई। वह हल्की हो गई। यह प्रयोग पढ़ा। मुझे बड़ी हँसी आई। हल्की हुई होगी वह स्त्री। एक तनाव था। एक विद्युत् बाहर निकलना चाहती थी, वह छेड़-छाड़ से निकल गई। तनाव समाप्त हो गया। एक बार ऐसा। महसूस हुआ, किन्तु वह स्त्री स्वयं दूसरे तनावों से कितनी भर जाएगी। तनाव मिटाने का यह कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। यह बहुत ही तात्कालिक और क्षणिक उपाय है। एक बार हल्कापन लगता है, पर यह कोई मार्ग नहीं है तनाव मिटाने का।

आप यात्रा पर हैं। पांच किलो पानी है साथ में। थक गए। पानी जमीन पर उँड़ेल दिया। अनुभव होगा कि भार हल्का हो गया है। आगे बढ़े। प्यास लगी।

जब क्या होया ? जब पर्याभनेश्वरहका क्या होता है, भारी क्या होता है ? हम अस्तित्वमर्त्तमां बहें। अस्तित्वम को न भूतें। हम याद रखें कि याक्षा है। प्यास लग गयी है। अथवा को भूताकरहका हृष्ण के लिए नापवानपानों को उड़ेल देते हैं, नी पद्मपाल नहीं हैं।

वा नायमी धराव पीना है, वह भी तनाव को मिटाने के लिए ही तो शराव हीता है। यह क्या नुस्खा करता है ? जब यह तनाव से भर जाता है और अपने शरावा भूतालाचाहरा है तब यह शराव की जरूर में जाता है। अपने आपको भूताल दिया देनें ही ही है, अग्रान्ति होती है। आदमीने मदिरा पीनी जूह की लाल ज्ञानवर्ती भूतान के लिए। आदमीने तम्याकूपीनी शुरु की अपने आपको भूताव के लिए। जादमी ने गाजा, चरन पीना शुरु किया अपने आपको भूतान के लिए। आदमी शुरू नहीं पा कि उनमें यिना प्रथोजन इन वरतुबों का सेवन प्रारंभ किया है। जाज का जादमी अनेक प्रकार के उभ्य का प्रयोग करता है, पर्योक्ति वह जालता है कि यह नये के तनाव से, चिना और परिस्थितियों के तनाव से, आस-पास के वातावरण के तनाव से मुक्त हो जाए। उनको भूता दे। ये याद ही न करें।

नायर को मिटाने के लिए, मदिरा पीना कुरी यात तो नहीं है। किन्तु कुरी यात न रख जानी है जब उनमें पीने की आस स्नायुगत हो जाती है। एक बार कामया है, वा यादपी और आदमीपीना ही याया। यह उसकी आस हो गई। कामया अन्यस्त ही नहीं। जब मदिरापान अवश्य कर गया। यह कुरा है।

वा गान के उपाय भी तनाव मिटाने के लिए है। परवे किसी भी स्थिति में उपयोगी होती। अस्तित्व न उत्तमीकरण की प्रतिष्ठा प्रस्तुत की। यह मार्ग विद्युतपद है। इनमें कोई दोष नहीं है।

एक चाह या। एक याद यह रोग ऐन याया। रोग को मिटाने के लिए अनेक विद्युतपद हैं। एक साधित्तने कहा—भिरे याम भूत है। यह यारा रोग मिटादेया। एक ज्ञानवर्ती यह भूत है, इस्तहै। यदि उसको देख कर किसीने मध्योत्तर दृष्टि, दृष्टि इन वदा या यह यारे याद को नष्ट कर देया।'

इसी अनेक यह वही—याम भूत भूत है, किन्तु यह तो जान है। योद्दे यह यो कर यह विद्या को कठोर नहीं देता। यह यारे रोग को मिटाने में सक्षम है।

यारा न एक यह अनेक सेवनीयानुर योग्यों कुराया भूत घनत्वमार है। यह यार यही कान बढ़ाये यह यार याद योगी यह यह कर देता। मिना भूत यही कान बढ़ाये यही कान है, यही भी है, इसका भी है। योरै भी उसको यही कर देता। यह यह कर देता है। इसको इनी यारे यार की योद्दे यह कर देता है।

राजा ने दूसरे मांत्रिक से कहा—‘तुम इस गांव का रोग मिटाओ। भत अच्छा है। यह उपाय निरापद है।’

तनाव मिटाने के दो उपाय हैं। एक उपाय है मदिरा-सेवन का और दूसरा उपाय है वृत्ति के उदात्तीकरण का। मदिरा-सेवन का उपाय स्थायी नहीं है। वह पुनः तनाव पैदा करता है। वृत्ति के उदात्तीकरण का उपाय स्थायी है। तनाव पुनः पैदा नहीं होता।

मदिरापान नशा है तो ध्यान भी एक नशा है। इससे भी मादकता आती है। किंतु यह मादकता कोई बुरा परिणाम नहीं छोड़ जाती। बिल्कुल निर्दोष है। इसके साइड-एफेक्ट नहीं होते।

अध्यात्म ने कहा—‘मनुष्य को अपने आपको भूलने की आवश्यकता है। इसे मिटाया नहीं जा सकता।’ तनाव को समाप्त करने की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तनाव को मिटाने का अनूक उपाय है ध्यान। ध्यान के तीन प्रकार हैं—पहला है—कार्यिक-ध्यान अर्थात् शिथिलीकरण। दूसरा है—वाचिक-ध्यान, मौन इससे वाचिक तनाव मिट जाता है। तीसरा है—मानसिक-ध्यान—निर्विचारिता। विचारों से तनाव आता है। निर्विचार से तनाव समाप्त होता है। ये तीन साधन हैं। चौथा साधन है आन्तरिक विद्युत् का अनुभव। यह सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय है। आन्तरिक स्पन्दनों का अनुभव करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब व्यक्ति पदार्थ के स्पन्दनों का अनुभव करता है तब तनाव से भर जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के स्पन्दनों का अनुभव करने लग जाता है, जब वे सुखद स्पन्दन जाग जाते हैं तब सुख का अनुभव होने लगता है; अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। यह तेजो-लेश्या के स्पन्दन हैं। जब तक ये स्पन्दन नहीं जागते तब तक नयी दिशा नहीं खुलती। जब तक व्यक्ति लाल रंग के स्पन्दनों में नहीं जाता तब तक नयी दिशा का उद्घाटन नहीं होता। लाल रंग व्यक्ति को अध्यात्मिक बनाता है। तेजो-लेश्या नया दरवाजा खोलती है। उस व्यक्ति की राग की धारा बदल जाती है। मार्गान्तरण हो जाता है। नयी शक्ति का अनुभव होता है।

मार्गान्तरीकरण के पांच साधन हैं—ध्यान, शिथिलीकरण, मौन, निर्विचारता और आन्तरिक विद्युत् के स्पन्दनों का अनुभव।

आप यह न मानें कि अभ्यास प्रारंभ करते ही ये सब तनाव मिट जाएंगे। अभ्यास करते रहें। प्रयास चालू रहे। निरंतर साधना चलती रहे। मंजिल निकट आती जाएगी। एक दिन हम निश्चित विद्वु पर पहुंच जाएंगे। हमें प्रतिदिन का लेखा-जोखा रखना है। प्रतिक्रमण करना है। हमें देखना है कि हम इतने असे से साधना कर रहे हैं, कहां तक हम पहुंच पाए हैं। क्या प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारी गति पीछे की ओर हो रही है? हम एक डायरी में इसका अंकन करें।

ध्यान का मूल नूत्र है—जागरूकता, अन्तर्मुखता। जब तक जागरूकता और

अनंदलू की रहेगी तो वृद्ध नाथक को आन नहीं सकता होगा, वह बनाव से भी भैंसा प्रीत बनाव मिटाने के लिए उसे भद्रतामी नहीं बनता पड़ेगा। इस शब्दमात्रे का पूरा यह एक नाय धीरराम न भी बने, पर जब्तु तो जब्तीकरण होता हींसा और आनन्दिक चलिया जायेगा, प्रतिना में नियार आएगा, प्रक्षा का नायर होगा, प्रत्यर के भानोक का दिलास होगा।

६. आभामंडल और शक्ति-जगत्ता [२]

- १ • हम शक्ति का संवर्धन चाहते हैं।
- २ • शक्ति के दो स्रोत हैं—आत्मिक और तैजस्।
 - तैजस वर्गणा आकाश में व्याप्त
- ३ • संकल्प-शक्ति का प्रयोग
 - प्राण भरने का प्रयोग
 - आतापना का प्रयोग
 - रंग-ध्यान।
- ४ • धर्म-लेश्या—तब शक्ति का प्रवाह इस दिशा में—
 - ‘अपने को जानूँ’, ‘अपने को पाऊँ’।
- ५ • अधर्म-लेश्या—तब शक्ति का प्रवाह इस दिशा में—
 - ‘दूसरे को वश में करूँ’, ‘दूसरे को दबाऊँ, ‘दूसरे को ठगूँ’।
- ६ • शक्तिशाली आभामंडल में बाहरी संक्रमण कम।
- ७ • ओरा के दो प्रकार—मानसिक ओरा (Mental Aura)
 - भावात्मक ओरा (Emotional Aura)।
- ८ • ओरिक कलर और मानसिक एवं आवेगात्मक ओरा का पारस्परिक संबंध।

को दूर हटाएं, रास्ता साफ करें और आत्म-शक्ति को बाहर आने दें। दूसरा काम यह होगा कि तैजस्-शक्ति को विकसित करें। तैजस्-शरीर हमें उपलब्ध है। वह सूक्ष्म शरीर है। यह विद्युत् का शरीर है, तेज के परमाणुओं का शरीर है। वह हमें सहज उपलब्ध है। हम उसकी शक्ति को सक्रिय बनाएं। उसको सक्रिय बनाने के लिए बाहर के तैजस् परमाणुओं को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जितने तैजस् के परमाणु अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, तैजस्-शरीर शक्तिशाली बनेगा और उसकी क्षमता बढ़ेगी। उसकी प्रक्रिया भी हमें जाननी है। तैजस्-शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे बाहर से तैजस् परमाणुओं को भीतर लिया जा सकता है—यह सब प्रक्रिया पर निर्भर है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो दिशा—इन छहों दिशाओं से तैजस् के परमाणु भीतर लिए जा सकते हैं। उन परमाणुओं को ग्रहण करने और भीतर ले जाने की एक शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना वैसा नहीं हो सकता। इस शक्ति पर हमें विचार करना है। केवल शारीरिक शक्ति ही शक्ति नहीं है। मन की भी शक्ति है और वचन की भी शक्ति है। शरीर की शक्ति काय-वल, वचन की शक्ति वचन-वल, और मन की शक्ति मनो-वल—ये तीनों शक्तियां जरूरी हैं। शरीर की शक्ति भी चाहिए, वचन की शक्ति भी चाहिए और मन की शक्ति भी चाहिए। शक्ति तीन नहीं है। ये सब शक्ति की शाखाएं हैं। शक्ति एक और सामान्य है उसके पीछे कुछ जुड़ता नहीं। शक्ति केवल शक्ति होती है। ये तो शक्ति के भिन्न-भिन्न प्रयोग हैं। शाखाओं को हम मूल से अलग नहीं मान सकते। एक वृक्ष की सौ शाखाएं हैं। शाखा वृक्ष नहीं होती। शाखा शाखा होती है, वृक्ष वृक्ष होता है। वृक्ष मूल है। शाखा शाखा है, मूल नहीं। वृक्ष और शाखा को एक नहीं माना जा सकता। शाखा को कोई नाम नहीं दिया जा सकता और यदि उसे कोई नाम दिया जाता है तो इस भ्रान्ति को भी साथ में तोड़ना होता है कि वह शाखा मात्र है मूल नहीं। मनोवल भी मूल शक्ति नहीं है। वचन-वल भी मूल शक्ति नहीं है और काय-वल भी मूल शक्ति नहीं है। ये सब प्राण-शक्ति, तैजस्-शक्ति की शाखाएं हैं।

मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भ्रान्ति उत्पन्न हुई। वह भ्रान्ति मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उत्पन्न नहीं भी हुई हो किन्तु मनोविज्ञान के विद्यार्थियों में या मनोविज्ञान की चर्चा करने वाले लोगों द्वारा हुई है। उन्होंने मान लिया कि शक्ति एक है और वह है काम की शक्ति। सब कुछ काम-शक्ति ही है और शेष उसी का विकास है। उसी का सबलीभेशन है। यह बहुत बड़ी भ्रान्ति है। इस भ्रान्ति को डॉ० जुंग ने बहुत सरल तरीके से निरस्त किया। एनालिटिकल साइकालॉजी के प्रवर्तक डॉ० जुंग ने कहा—‘लिविडो काम-शक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिविडो एक सामान्य शक्ति है। शेष सारी शक्तियां उस (लिविडो) की शाखाएं हैं।’ उन्होंने एक बहुत बड़ी भ्रान्ति का निरसन किया। यह सही बात है कि शक्ति केवल है

रखूँगा और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करूँगा।' जब यह भाव बन जाए तब इस भाव को आकार देने के लिए हम अपनी संकल्प-शक्ति का उपयोग करें। एक ऐसा स्पष्ट मानसिक चिन्ह बनाएं, जिसमें यह स्पष्ट हो कि क्या बनना है?—'मैं यह बनना चाहता हूँ, मैं यह करना चाहता हूँ, मैं शक्तियों का विकास करना चाहता हूँ।' चिन्ह जितना स्पष्ट होगा, उतना ही जल्दी उसमें रंग आते चले जाएंगे। पहले चिन्ह बनाएं, फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। सबसे पहले संकल्प-शक्ति का उपयोग और फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। मन की पूरी एकाग्रता उस चिन्ह पर केन्द्रित करें। मन को सब विचारों से खाली कर दें। कोई विचार न करें, विकल्प न करें। पूरी एकाग्रता के साथ उस चिन्ह को देखें। मन में जो भी विकल्प उठे, उन विकल्पों का उत्तर न दें। केवल द्रष्टा बनकर उनको देखते जाएं। जब एकाग्रता की शक्ति का योग मिलेगा, संकल्प की शक्ति आकार लेना शुरू कर देगी फिर इच्छा-शक्ति का उपयोग करें। हमारा भाव आन्तरिक शब्दों का, आन्तरिक आत्म-सूचनाओं का योग पाकर इच्छा-शक्ति के रूप में बदल जाता है। भावना के द्वारा इच्छा-शक्ति के रूप में बदल जाता है। हमने एक भाव लिया, चिन्ह बनाया, एकाग्रता की ओर फिर भावना का प्रयोग किया—आत्म-सूचन (ऑटो सजेशन) का प्रयोग किया—'मैं यह होना चाहता हूँ', 'मैं यह करना चाहता हूँ', 'मैं अपनी तैजस-शक्ति का विकास करना चाहता हूँ।' इस आत्म-सूचन से भाव इच्छा-शक्ति में बदलने लगे। वह दृढ़-निश्चय में बदल जाए और पूरा स्पष्ट आकार लेना प्रारम्भ कर दे।

संकल्प-शक्ति का प्रयोग, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग और इच्छा-शक्ति का प्रयोग—जब ये तीनों प्रयोग एक साथ मिलते हैं तब लेश्या का रूपान्तरण हो जाता है। जब लेश्या बदलती है तब आभामंडल भी बदलता है। हमारे अंतः-करण में सूक्ष्म-शरीर के भीतर छह लेश्या, भाव का मण्डल और उसका संवादिअंग है आभामण्डल। यह हमारे शरीर के चारों ओर गोलाकार रूप में होता है। जैसी लेश्या, वैसा आभा-मण्डल। जैसा भावमण्डल वैसा आभामण्डल। भाव बदलता है, साथ-साथ में आभामण्डल बदल जाता है। जब भाव उदात्त होता है, पवित्र होता है तब आभामण्डल के रंग बदल जाते हैं। रस बदल जाते हैं। स्पर्श बदल जाते हैं। जब भाव खराब होता है तब आभामण्डल का रंग काला हो जाता है। जब भाव अच्छा होता है तब आभामण्डल का रंग पीला हो जाता है, लाल या सफेद हो जाता है। सारे धब्बे समाप्त हो जाते हैं। दोनों साथ-साथ चलते हैं। भावमण्डल हमारी शक्ति को विकसित करता है और आभामण्डल वाहर से आने वाली वाधाओं को रोकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी शान्त बैठा है, अक्समात् उसके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जिनको वह कभी लाना नहीं चाहता। वह एक विचार को लेकर बैठता है। दूसरे ही क्षण दूसरा विचार अः

रखूँगा और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करूँगा।' जब यह भाव बन जाए तब इस भाव को आकार देने के लिए हम अपनी संकल्प-शक्ति का उपयोग करें। एक ऐसा स्पष्ट मानसिक चिन्ह बनाएं, जिसमें यह स्पष्ट हो कि क्या बनना है?—‘मैं यह बनना चाहता हूँ, मैं यह करना चाहता हूँ, मैं शक्तियों का विकास करना चाहता हूँ।’ चिन्ह जितना स्पष्ट होगा, उन्नता ही जल्दी उसमें रंग आते चले जाएंगे। पहले चिन्ह बनाएं, फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। सबसे पहले संकल्प-शक्ति का उपयोग और फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। मन की पूरी एकाग्रता उस चिन्ह पर केन्द्रित करें। मन को सब विचारों से खाली कर दें। कोई विचार न करें, विकल्प न करें। पूरी एकाग्रता के साथ उस चिन्ह को देखें। मन में जो भी विकल्प उठे, उन विकल्पों का उत्तर न दें। केवल द्रष्टा बनकर उनको देखते जाएं। जब एकाग्रता की शक्ति का योग मिलेगा, संकल्प की शक्ति आकार लेना शुरू कर देगी फिर इच्छा-शक्ति का उपयोग करें। हमारा भाव आन्तरिक शब्दों का, आन्तरिक आत्म-सूचनाओं का योग पाकर इच्छा-शक्ति के रूप में बदल जाता है। भावना के द्वारा इच्छा-शक्ति के रूप में बदल जाता है। हमने एक भाव लिया, चिन्ह बनाया, एकाग्रता की ओर फिर भावना का प्रयोग किया—आत्म-सूचन (ऑटो सजेशन) का प्रयोग किया—‘मैं यह होना चाहता हूँ’, ‘मैं यह करना चाहता हूँ’, ‘मैं अपनी तैजस्-शक्ति का विकास करना चाहता हूँ।’ इस आत्म-सूचन से भाव इच्छा-शक्ति में बदलने लगे। वह दृढ़-निश्चय में बदल जाए और पूरा स्पष्ट आकार लेना प्रारम्भ कर दे।

संकल्प-शक्ति का प्रयोग, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग और इच्छा-शक्ति का प्रयोग—जब ये तीनों प्रयोग एक साथ मिलते हैं तब लेश्या का रूपान्तरण हो जाता है। जब लेश्या बदलती है तब आभामंडल भी बदलता है। हमारे अंतः-करण में सूक्ष्म-शरीर के भीतर छह लेश्या, भाव का मण्डल और उसका संवादिअंग है आभामण्डल। यह हमारे शरीर के चारों ओर गोलाकार रूप में होता है। जैसी लेश्या, वैसा आभा-मण्डल। जैसा भावमण्डल वैसा आभामण्डल। भाव बदलता है, साथ-साथ में आभामण्डल बदल जाता है। जब भाव उदात्त होता है, पवित्र होता है तब आभामण्डल के रंग बदल जाते हैं। रस बदल जाते हैं। स्पर्श बदल जाते हैं। जब भाव खराब होता है तब आभामण्डल का रंग काला हो जाता है। जब भाव अच्छा होता है तब आभामण्डल का रंग पीला हो जाता है, लाल या सफेद हो जाता है। सारे धन्वे समाप्त हो जाते हैं। दोनों साथ-साथ चलते हैं। भावमण्डल हमारी शक्ति को विकसित करता है और आभामण्डल बाहर से आने वाली वाधाओं को रोकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बादमी शान्त बैठा है, अकस्मात् उसके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जिनको वह कभी लाना नहीं चाहता। वह एक विचार को लेकर बैठता है। दूसरे ही क्षण दूसरा विचार आ

है तब बाहर का सारा प्रवेश निषिद्ध हो जाता है। शक्ति-जागरण के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति प्रतिपल जागरूक रहे, अप्रमत्त रहे। मन को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जागरूकता के बिना ऐसा हो नहीं सकता। हमारा आभामण्डल, हमारी लेश्याएं, हमारा भाव-तन्त्र वैसा होगा जैसा भीतर से स्पन्दन आएगा। जब मोह के स्पन्दन आते हैं तब लेश्या कृष्ण बन जाती है; नील और कापोत बन जाती है। आभामण्डल भी वैसा विकृत, अन्धकारमय और धब्बों वाला होगा। जब मोह की शृंखला टूटती है, तब धर्म-लेश्याओं के स्पन्दन जागते हैं, तब आभामण्डल भी पवित्र बनेगा। सारे रंग बदल जाएंगे। आभामण्डल का रंग लाल, पीला या सफेद हो जाएगा। शक्ति का संचार प्रारंभ होगा। शक्ति में बाधा डालने वाले स्पन्दन समाप्त हो जाएंगे।

मैंने प्रक्रिया की बात बताते हुए कहा था, हम संकल्प-शक्ति का प्रयोग करें, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग करें और इच्छा-शक्ति का प्रयोग करें। यह पूरी प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया शेष रह जाती है। पूरी प्रक्रिया को जाने विना व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आ सकता। तैजस् के परमाणुओं का संचय और संग्रहण नहीं कर सकते। ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा की प्रक्रिया बहुत कठिन है; जन सामान्य के समझ से परे की बात है। उसका अधोगामी प्रवाह व्यक्ति को काम की ओर प्रेरित करता है। काम का अनियंत्रित भोग व्यक्ति को पतित और असामाजिक बनाता है। अतः उसके समझ काम के दमन के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रहता। इससे बचने का एक मात्र उपाय है—शक्ति का संवर्धन। ऊर्जा का ऊर्ध्व यात्रा करना बहुत अभ्यास साध्य है। हम इस बात को न भूलें कि जिस दिशा में हमारी शक्ति का प्रवाह ज्यादा होता है वह दिशा सक्रिय बन जाती है और शेष सारी दिशाएं निष्क्रिय रह जाती हैं। इन्द्रियों की दिशा में हमारी शक्ति का बहुत व्यय होता है। काम की दिशा में शक्ति का व्यय अधिक होता है। स्पर्श, रस, गंध आदि जितने विषय हैं, उनमें शक्ति का बहुत व्यय होता है। उस दिशा में ऊर्जा को प्रवाहित करने का मार्ग सहज लब्ध है।

एक प्रश्न सामने आया। क्या संभोग समाधि का आदि विन्दु है? यह प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं। इस प्रश्न ने अनेक व्यक्तियों को झकझोरा है। हम एक ओर शक्ति की चर्चा करते हैं, शक्ति के विकास की चर्चा करते हैं, किन्तु शक्ति का विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक शक्ति के व्यय को न रोक सकें। एक ओर शक्ति के संचय का प्रयत्न करें और दूसरी ओर से शक्ति का व्यय होता चला जाए तो यह रहट की घड़ियों के जैसा क्रम होगा। जब घड़ियाँ कुएं के भीतर जाती हैं तब पानी भरता है और जब बाहर आती हैं तब पानी खाली हो जाता है। भरना और खाली होना—इससे बड़ी शक्ति पैदा नहीं होती। नदी निरन्तर बहती रहती है, उससे कोई बड़ी शक्ति पैदा नहीं होती। लोत से पानी आता

क्या यह ध्यान नहीं है ? यह बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ी एकाग्रता है, बहुत बड़ी समाधि है । किन्तु सब समाधि समाधि नहीं होतीं । आचार्य भिक्षु ने कहा—‘गाय का दूध होता है, आक का दूध होता है और थूहर का दूध होता है । दूध दूध है, कोई अन्तर नहीं । किन्तु यदि गाय के दूध के स्थान पर कोई आक का दूध पी ले तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता ।’ सब समाधि एक नहीं होती । क्या हम यह मान लें कि मनुष्य ने कभी आक का दूध पीया होगा, इसलिए दूध की खोज की होगी । यह कितनी बड़ी भ्रान्ति होगी ।

सामान्य मनुष्य मान लेता है कि संभोग समाधि का साधन है । संभोग में जाने से समाधि प्राप्त होती है । फिर ध्यान शिविरों में क्यों जाएं ? क्यों ध्यान करें ? अपने आप जो घटना घटित होती है उसके लिए इतना प्रयत्न क्यों ? यह एक भटकाव है । ध्यान और समाधि के नाम से आप इसमें न भटकें, भ्रान्त न बनें । नाम-साम्य हो सकता है । वह भी समाधि, यह भी समाधि । वह भी ध्यान, यह भी ध्यान । नाम की समानता से न भटकें । संस्कृत शब्दकोश में जितने नाम धतूरे के हैं उतने ही नाम स्वर्ण के हैं । धतूरे और स्वर्ण के नाम एक हैं । जो शब्द धतूरे का वाचक है, वही शब्द स्वर्ण का वाचक है । ‘नामसाम्याद् हि चित्तं धत्तूरोऽपि मदप्रदः’—नाम की समानता के कारण जैसे स्वर्ण आदमी में मद पैदा करता है, वैसे ही धतूरा भी मद पैदा करता है । हम नाम के चक्कर में न पड़ें, वास्तविकता को समझें । इतना मानने में कोई वाधा नहीं कि संभोग से प्राप्त सुख की अनुभूति ने मनुष्य को उत्प्रेरित किया हो कि इससे भी कोई दूसरा आनन्द या सुख होना चाहिए, जो इससे ऊंचा हो ।

तर्कशास्त्र का एक सूत्र है । मनुष्य ने पत्थर को जाना । उसका तर्क आगे आया । उसने सोचा—एक पत्थर को जान सकता हूँ तो समूची खदान को जान सकता हूँ । एक आदमी को जान सकता हूँ तो समूचे प्राणी-जगत् को जान सकता हूँ । तर्क जब और आगे बढ़ता है और उसका अन्तिम विन्दु यह प्राप्त होता है कि जब मैं एक को जान सकता हूँ तो सबको जान सकता हूँ । एक पत्थर सर्वज्ञता के सिद्धान्त का उत्प्रेरक बन सकता है । एक पत्थर का वोध, एक पत्थर का ज्ञान, एक परमाणु का ज्ञान समूचे जगत् के ज्ञान का, सर्वज्ञता के ज्ञान का प्रेरक बन सकता है । जो एक को जान सकता है, वह सबको जान सकता है ।

जिसने संभोग के क्षणिक सुख का अनुभव किया है, उसके मन में यह विकल्प उठ सकता है कि यह सुख है तो और भी सुख होना चाहिए । खाने-पीने के पदार्थों से सुख मिल सकता है । सुगन्ध से भी सुख मिल सकता है । तर्क आगे बढ़ता जाता है । इसमें भी सुख है, उसमें भी सुख है । चलते-चलते यह विचार आता है कि एक विन्दु ऐसा भी होना चाहिए जहां चरम-सुख की अनुभूति भी होती है । जहां छोटे-छोटे सुख समाप्त हो जाते हैं । यह प्रेरणा बने, कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु मनुष्य

रहेगा, वाणी जितनी सक्रिय रहेगी और शरीर जितना सक्रिय रहेगा, उतनी ही शक्ति का व्यय अधिक होगा। जब शक्ति का व्यय अधिक होता है तब उसका संग्रह हो नहीं सकता। शक्ति के अतिरिक्त संग्रह के बिना नयी दिशाओं का उद्घाटन नहीं हो सकता, साधना के नये आयाम नहीं खुल सकते। इसलिए शक्ति के अतिरिक्त व्यय को रोका जाए। इसका एक मात्र उपाय है कायोत्सर्ग। हम कायोत्सर्ग करें, शिथिलता का अनुभव करें, जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे शरीर का कण-कण विश्राम ले सके और उसकी शक्ति खर्च न हो, संचित रहे। श्वास को शांत करें। लम्बा श्वास लें। श्वास को मंद करें। जब श्वास मंद होता है तब शिथिलन होता है, कायगुप्ति और कायोत्सर्ग सधता है, औक्सीजन की खपत कम हो जाती है। प्राण-शक्ति का व्यय कम हो जाता है। हम कम बोलें अनावश्यक न बोलें। मौन रहना सीखें। विद्युत् का व्यय कम हो जाएगा। वाणी के साथ जो विद्युत् खर्च होती है वह बच जाएगी। हम उसका दूसरा उपयोग कर सकेंगे। हम वाक्गुप्त बनें, मौन करें, विचार भी कम करें। विचारों के चक्र को तोड़ना सीखें। विचारों के चक्र से मस्तिष्कीय ऊर्जा इतनी खर्च होती है कि उसकी पूर्ति बड़ी कठिनाई से की जा सकती है। ऐसे ही मस्तिष्क की विद्युत् की बहुत जल्हरत होती है। हमारे ऊपर का भाग जो शरीर के भाग से दो प्रतिशत मात्र है; उसे विद्युत् चाहिए वीस प्रतिशत। अब जहां दो प्रतिशत हिस्सा वीस प्रतिशत विजली की मांग करे तो क्या हो सकता है। हम निर्विचार रहना सीखें। निर्विचारता में विद्युत् की खपत कम होगी। विद्युत् का औरतैजस् का संचय रहेगा। एक ओर हम प्राण प्रयोग के द्वारा, प्राण को अधिक खींचने के द्वारा, भीतर में प्राण शक्ति को भरें, तैजस्-शरीर को शक्तिशाली बनाएं और दूसरी ओर उस विद्युत् की खपत को कम करें हमारी शक्ति का भंडार तब बढ़ेगा जब हम एक ओर से संकल्प-शक्ति के प्रयोग के द्वारा, प्राण-संग्रह की प्रक्रिया के द्वारा, प्राण भरने की क्रिया के द्वारा शक्ति के भण्डार का संवर्धन करें और उधर खपत कम करें, व्यय कम करें। इस प्रकार शक्ति का भण्डार बढ़ेगा। शक्ति का जागरण होगा, हमारा आभामण्डल शक्तिशाली बनेगा। हमारा भाव-तन्त्र शक्तिशाली बनेगा और हम अपने आस-पास एक ऐसे कवच का निर्माण करने में सफल होंगे, जो कवच हमें सारे वाहरी आक्रमणों से, संक्रमणों से बचाता रहेगा।

रोगा, जानी पितनी समिय रहेगी और शरीर जितना सक्षिय रहेगा, उतनी ही जटिल हो आए अधिक होंगा। जब शक्ति का व्यय अधिक होता है तब उस जन वयद्वारे नहीं सहता। शक्ति के अतिरिक्त संग्रह के बिना नवी दिग्भासों न उत्पन्न होने की सहता, जातना के तथे आवाम नहीं घुल सकते। इसलिए शक्ति के अतिरिक्त व्यय हो जाता जाए। इसला एह मात्र उपाय है जायोत्सर्ग। हम जांचने परें, जिधिलता जा अनुभव करें, जिससे हि हमारे शरीर की कोशि हाँह, हमारे शरीर का कष-कण विद्धाम ले सके और उसकी शक्ति यही न हो, मंजित रहे। इसको जात नहें। लम्बा श्वास लें। श्वास को मंद करें। जब श्वास मंद होता है तब जिधिलता होता है, जायगुप्ति और कायोत्सर्ग सहता है, जौँसीजन ही जात रूप हो जाती है। प्राण-शक्ति का व्यय कम हो जाता है। हम ज्ञाने जननामय हो न चोरें। मीन रहना सीधे। विद्युत् का व्यय कम हो जाएगा। जापी के नाव यो विद्युत् यर्न होती है वह बत जाएगी। हम उसका दूसरा उपाय कर सकें। हम बाह्यगुप्त चर्चे, मीन छरें, विचार भी कम करें। जितायी के चर्चे को जोड़ना सीधे। विचारों के चर्चे से मस्तिष्कीय ऊर्जा इतनी यर्न होती है कि उसकी पूर्णि बढ़ी रहिनाइ से की जा सकती है। ऐसे ही मस्तिष्क को विद्युत् ही द्वारा जननामय होती है। हमारे ज्ञात जा भाग यो शरीर के भाग में से प्रतिक्षेप मात्र हो; उसे विद्युत् जाहिए, जीव प्रतिशत। जब जहाँ दो प्रतिशत द्वितीय प्रतिशत प्रियोगी हो मांग करे तो जग हो सकता है। हम निर्जित रहना सीधे। निर्जितता में विद्युत् की व्यापक द्वेषी। विद्युत् का औरतेज्ज्वल का संग्रह रहेगा। एह और हम प्राण प्रयोग के द्वारा, प्राण को विद्युत्योनी के द्वारा, जीर्ण में प्राण द्वितीय द्वारे, निर्जन-शरीर ही जस्तियावी बनाएं, और दूसरी ओर उग विद्युत् ही व्याप्त हो जाए एह करें। हमारी जीवित जा भाँडारतब बड़ेया जनहत्या एह जारी में दहलन-शक्ति के प्रयोग के द्वारा, प्राण-नवद्वारा प्रक्रिया के द्वारा, प्राण नवर्ण की द्वारा जटिल के भाँडार का संवर्धन करें और उपरवाहा जनहत्या, जात एह करें। इस प्रवाह के जटिल जा भाँडार बढ़ेगा। जटिल ही जामना द्वारा, दूसरा जानामय जटिलता ही बनेगा। दूसरा जानकर जटिलता ही बनेगा और एह जानकर जटिलता ही बढ़ेगा, जटिलता ही बढ़ेगा, जो दूसरा एह जानकर जटिलता ही बढ़ेगा, जटिलता ही बढ़ेगा।

सत्

हम उस जगत् में जीते हैं जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक विरोधाभास चलते हैं। एक भी क्षण ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। एक भी देश ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। एक भी व्यक्ति ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। संभवतः एक भी पदार्थ ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। कोई व्यक्ति विरोधी वात कहता है, वह वात अखरती है, इस व्यक्ति में विरोधाभास है, किन्तु हम यह न भूलें कि हमारा समूचा जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना स्वस्थ हो और एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना बीमार हो। वह स्वस्थ भी है, बीमार भी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका मन सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ हो; पागलपन का जिसमें लेश भी न हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सम्पूर्ण रूप से पागल हो। पागल है उसमें भी कुछ समझदारी है। समझदार है उसमें भी कुछ पागलपन है। समझदारी और पागलपन—दोनों साथ-साथ चलते हैं। न जाने इस जगत् का क्या नियम है कि हर क्षण हर भाग में विरोधाभास उपलब्ध है। इन विरोधाभासों की स्थिति में भी महावीर ने अनेकान्त का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा—‘हम विरोधाभासों को नहीं मिटा सकते। किसी की शक्ति नहीं कि वह उन्हें मिटा दे। हम केवल अपनी दृष्टि में सन्तुलन ला सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं, सापेक्षता ला सकते हैं, और विरोधों में अविरोध देख सकते हैं। यह हमारी सीमा में है। किन्तु प्रकृतिगत विरोधाभासों को हम मिटा नहीं सकते। मनुष्य बीमार भी है और स्वस्थ भी है। बीमारी एक अपाय है। उसको मिटाने का उपाय भी है। अपाय और उपाय—दोनों साथ-साथ चलते हैं। जितने अपाय हैं उतने ही उपाय हैं। अपाय है तो खोजना होगा। जब अपाय सामने आया तब मनुष्य ने उपाय खोजा। शरीर बीमार होता है। बीमारी एक अपाय है। मनुष्य ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा पद्धति खोजी। शरीर की रुग्णता एक अपाय है। चिकित्सा पद्धति उसका उपाय है। मन की रुग्णता एक अपाय है। मनुष्य ने अपाय खोजा कि मन स्वस्थ रह सके और वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ जी सके। दूषित भाव एक

सत्

हम उस जगत् में जीते हैं जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक विरोधाभास चलते हैं। एक भी क्षण ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। एक भी देश ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। एक भी व्यक्ति ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। संभवतः एक भी पदार्थ ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। कोई व्यक्ति विरोधी वात कहता है, वह वात अखरती है, इस व्यक्ति में विरोधाभास है, किन्तु हम यह न भूलें कि हमारा समूचा जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना स्वस्थ हो और एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना बीमार हो। वह स्वस्थ भी है, बीमार भी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका मन सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ हो; पागलपन का जिसमें लेश भी न हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सम्पूर्ण रूप से पागल हो। पागल है उसमें भी कुछ समझदारी है। समझदार है उसमें भी कुछ पागलपन है। समझदारी और पागलपन—दोनों साथ-साथ चलते हैं। न जाने इस जगत् का क्या नियम है कि हर क्षण हर भाग में विरोधाभास उपलब्ध है। इन विरोधाभासों की स्थिति में भी महाक्षीर ने अनेकान्त का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा—‘हम विरोधाभासों को नहीं मिटा सकते। किसी की शक्ति नहीं कि वह उन्हें मिटा दे। हम केवल अपनी दृष्टि में सन्तुलन ला सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं। सापेक्षता ला सकते हैं, और विरोधों में अविरोध देख सकते हैं। यह हमारी सीमें है। किन्तु प्रकृतिगत विरोधाभासों को हम मिटा नहीं सकते। मनुष्य बीमार है और स्वस्थ भी है। बीमारी एक अपाय है। उसको मिटाने का उपाय भी अपाय और उपाय—दोनों साथ-साथ चलते हैं। जितने अपाय हैं उतने ही हैं। अपाय है तो खोजना होगा। जब अपाय सामने आया तब मनुष्य ने खोजा। शरीर बीमार होता है। बीमारी एक अपाय है। मनुष्य ने शरीर रखने के लिए चिकित्सा पद्धति खोजी। शरीर की रुग्णता एक अपाय है। पद्धति उसका उपाय है। मन की रुग्णता एक अपाय है। मनुष्य ने अपाय मन स्वस्थ रह सके और वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ जी सके। दू

सत्

हम उस जगत् में जीते हैं जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक विरोधाभास चलते हैं। एक भी क्षण ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। एक भी देश ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। एक भी व्यक्ति ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। संभवतः एक भी पदार्थ ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। कोई व्यक्ति विरोधी बात कहता है, वह वात अखरती है, इस व्यक्ति में विरोधाभास है, किन्तु हम यह न भूलें कि हमारा समूचा जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना स्वस्थ हो और एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना बीमार हो। वह स्वस्थ भी है, बीमार भी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका मन सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ हो; पागलपन का जिसमें लेश भी न हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सम्पूर्ण रूप से पागल हो। पागल है उसमें भी कुछ समझदारी है। समझदार है उसमें भी कुछ पागलपन है। समझदारी और पागलपन—दोनों साथ-साथ चलते हैं। न जाने इस जगत् का क्या नियम है कि हर क्षण हर भाग में विरोधाभास उपलब्ध है। इन विरोधाभासों की स्थिति में भी महावीर ने अनेकान्त का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा—‘हम विरोधाभासों को नहीं मिटा सकते। किसी की शक्ति नहीं कि वह उन्हें मिटा दे। हम केवल अपनी दृष्टि में सन्तुलन ला सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं, सामेक्षता ला सकते हैं, और विरोधों में अविरोध देख सकते हैं। यह हमारी सीमा में है। किन्तु प्रकृतिगत विरोधाभासों को हम मिटा नहीं सकते। मनुष्य बीमार भी है और स्वस्थ भी है। बीमारी एक अपाय है। उसको मिटाने का उपाय भी है। अपाय और उपाय—दोनों साथ-साथ चलते हैं। जितने अपाय हैं उतने ही उपाय हैं। अपाय है तो खोजना होगा। जब अपाय सामने आया तब मनुष्य ने उपाय खोजा। शरीर बीमार होता है। बीमारी एक अपाय है। मनुष्य ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा पद्धति खोजी। शरीर की रुग्णता एक अपाय है। चिकित्सा पद्धति उसका उपाय है। मन की रुग्णता एक अपाय है। मनुष्य ने अपाय खोजा कि मन स्वस्थ रह सके और वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ जी सके। दूषित भाव एक

व्यक्ति मूर्च्छा में जाता है, शरीर-प्रेक्षा का क्रम टूट जाता है, मन नींद में चला जाता है। शरीर का कण-कण तभी देखा जा सकता है जब मन पूरा जागरूक रहे। साथ-साथ विकल्पशून्य रहे। राग-द्वेष की ऊर्मियों से खाली रहे, निस्तरंग रहे। चैतन्य-केन्द्रों की प्रेक्षा का प्रयोग भी जागरूकता का प्रयोग है। भाव को निर्मल रखने का प्रयोग भी जागरूकता का प्रयोग है। जब भाव शुद्ध नहीं होगा तब विचार शुद्ध नहीं होगे, तब शरीर शुद्ध नहीं होगा। हम विचारों की इतनी चिन्ता न करें। विचार की चिन्ता मनोवैज्ञानिक बहुत करते हैं। वह उनका विषय है। किन्तु अध्यात्म का साधक सबसे पहले भाव की चिन्ता करता है, लेश्या की चिन्ता करता है। भाव और विचार दो वातें हैं। दोनों भिन्न हैं। भाव का सम्बन्ध है कषाय के स्पन्दनों से और विचार का सम्बन्ध है मस्तिष्क के आवरणों से। हमारे सूक्ष्म-शरीर के अन्दर दो प्रकार के स्पन्दन समानान्तर रेखा में चलते हैं। एक है मोह का स्पन्दन और दूसरा है मोह के विलय का स्पन्दन। दोनों स्पन्दन चलते हैं और वे भाव बनते हैं। कषाय जितना क्षीण होगा, मोह का स्पन्दन उतना ही निर्वर्य बन जाएगा। शक्तिशून्य बन जाएगा, निष्क्रिय बन जाएगा। वह समाप्त नहीं होगा किन्तु उसकी सक्रियता कम हो जाएगी। उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। जब मोह के विलय का स्पन्दन शक्तिशाली होगा तब भाव मंगलमय और कल्याणकारी होंगे। जब-जब कषाय के स्पन्दन कम होते हैं, तब-तब तेजो-लेश्या, पद्म-लेश्या और शुक्ल-लेश्या के स्पन्दन तथा भाव शक्तिशाली बनते जाएंगे। जब-जब मोह के स्पन्दन शक्तिशाली होते हैं, नील और कापोत-लेश्या के स्पन्दन शक्तिशाली होते हैं तब-तब तेजो-लेश्या और पद्म-लेश्या के स्पन्दन क्षीण हो जाते हैं। दो धाराएं हैं। एक ओर तीन काली लेश्याएं हैं। एक ओर तीन प्रकाशमय लेश्याएं हैं। महावीर ने कहा—‘तीन लेश्याएं प्रशस्त हैं और तीन लेश्याएं अप्रशस्त हैं। तीन लेश्याएं रुखी हैं और तीन लेश्याएं चिकनी हैं। तीन लेश्याएं ठण्डी हैं और तीन लेश्याएं गर्म हैं।’ कितना महत्वपूर्ण सूत्र है भावों को समझने का। आज के रंग विज्ञान में इसका संभावी सूत्र हमें उपलब्ध हो जाता है। अभी मैंने ‘कलर थेरापी’ की एक पुस्तक देखी। उसमें कलर के दो डिवीजन किए गये हैं। एक है लाइट कलर और दूसरा है डार्क कलर। फीका रंग और गहरा रंग। एक है गर्म रंग और दूसरा है ठण्डा रंग। वलय है ठोस। रंग की चार छायाएं होती हैं। गर्म रंग और प्रकाशमय छाया, गर्म रंग और अन्धकारमय छाया, प्रकाश ठण्डा और अन्धकार गर्म। हमारी तीन लेश्याएं ठण्डी और रुखी होती हैं। काला रंग, नीला रंग और कापोती रंग—ये तीनों रंग और तीनों रंगों की लेश्याएं ठण्डी होती हैं और रुखी होती हैं। जब व्यक्ति के मन में इन लेश्याओं के स्पन्दन जागते हैं तब उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, ईर्ष्या, शोक, धृणा और भय के भाव जागते हैं। वे रंग इन भावों को उत्पन्न करते हैं। काला रंग भय का निर्माण करता है। जब-जब काले रंग के स्पन्दन जागते हैं

तथ्य-तत्त्व व्यक्ति के मन में अनायास ही भय की अनुभूति होने लगती है, भय के भाव का निर्माण हो जाता है।

तेजो-लेश्या, पद्य-लेश्या और शुक्ल-लेश्या—ये तीन लेश्याएं गर्म और चिकनी हैं। जब इनमें स्पंदन जागते हैं तब व्यक्ति के भाव निर्मल बनते हैं। अभय, मैत्री, शान्ति, जितेन्द्रियता, क्षमा आदि पवित्र भावों का निर्माण होता है। जब भाव पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं तब विचार भी निर्मल होते हैं। विचारों का सम्बन्ध कषाय से नहीं है। विचारों का सम्बन्ध है मस्तिष्क से और ज्ञान से। विचार, स्मृति, चिन्तन, विश्लेषण, चयन, निर्वारण—ये ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, इन सबका सम्बन्ध मस्तिष्क से है। जितने भाव हैं उन सबका सम्बन्ध हमारी अन्तःसाधी अन्वितों से है। शरीर में दो तन्त्र हैं उनकी अभिव्यक्ति के। एक है ग्रन्थि-तन्त्र और दूसरा है नाड़ी-तन्त्र। एक है मस्तिष्क और एक है पृष्ठरज्जु। हमारे भावों को व्यक्त करता है ग्रन्थि-तन्त्र और विचारों का निर्माण करता है नाड़ी-तन्त्र। पहला है भाव, दूसरा है विचार। विचार से भाव नहीं बनता, किन्तु भाव से विचार बनता है। जिस लेश्या ना भाव होता है, वैसा ही विचार बन जाता है। भाव अंतरंग-तन्त्र है और विचार कम-तन्त्र है। यह करने वाला तन्त्र है भाव। इत्तिए हमें विचारों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विचारों पर वे लोग ध्यान दें जो बाहर ही बाहर घूमते हैं। जो भीतर की यात्रा कर रहा है, भीतर में रेठा है उसे विचार पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वे भाव पर ध्यान दें, भाव को निर्मल करें। प्रश्न होगा कि भाव को कैसे निर्मल करें? उसकी प्रक्रिया यह है?

भावों को निर्मल बनाने का सबसे सरल उपाय है रंगों का ध्यान करना। यह यहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। चिक्के रंगों का ध्यान भावों को निर्मल बनाने में उपयोगी होता है। पीला, लाल और सफेद—ये तीन रंग भाव-शुद्धि के सारण हैं।

तत्त्वशास्त्र के पिपल में लोगों में बहुत भान्तियां हैं। भ्रान्तियां होने का राशन भी है जितने के आधार पर भर्वीचक जैसी पड़तियां चल पड़ीं और पाम शार्ग प्रचलित हो गया। इन पड़तियों ने भ्रान्तियां फैलाई किन्तु मैं भानता हूँ कि तत्त्वशास्त्र में साधना के महत्वपूर्ण प्रयोग प्रस्तुत किए। उन्हें हम शुद्ध भ्रान्तियों के प्रयोग कह सकते हैं। कहीं कोई दोष नहीं, कहीं कोई व्रुटि नहीं।

तत्त्वशास्त्र या एक प्रथेन है—माधुक पुरे तरीर को लाल नूर्य और लाल रंग में रंगे, ध्यान कर। छह महीने के इन प्रथोंसे ये बीतता गता किढ़ हो जाकती है।

तत्त्वशास्त्र या एक प्रथेन है—ताधुक प्रथने तरीर को आकाश में स्थित देखे और भर्दू-भर्दू री सध्या ऐसे रंग या इसन कर। छह महीने तक ऐसा निरन्वर इसन करने वाले भाव प्रदित्त होने लगता है।

तन्त्रशास्त्र का एक प्रयोग है—नासाग्र पर स्वर्ण के रंग का या श्वेत वर्ण का ध्यान करने से दूषित भावना से मुक्ति मिल जाती है। चेतना के विकास के, इन्द्रिय जय के, ज्ञानशक्तियों के और वीतरागता के अनेक प्रयोग तन्त्रशास्त्र ने प्रस्तुत किए। वे सारे महत्त्वपूर्ण प्रयोग लेश्या के सिद्धान्त से संबद्ध हैं। रंगों का महत्त्व कम नहीं है। हमारे समूचे भाव-तन्त्र पर रंगों का प्रभुत्व है। रंगों के द्वारा शारीरिक बीमारियां मिटाई जा सकती हैं, मानसिक दुर्बलताओं को मिटाया जा सकता है और आध्यात्मिक मूर्च्छा को तोड़ा जा सकता है। लेश्या पद्धति आध्यात्मिक मूर्च्छा को मिटाने की महत्त्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। दूषित भावों और विकृत विचारों द्वारा जो जहर शरीर में पैदा होता है, जो विष एकत्रित होता है, उसे बाहर निकालने की यह अभूतपूर्व पद्धति है। रंगों के ध्यान से या रंग चिकित्सा से संचित विष बाहर निकलते हैं और भावों तथा विचारों को निर्मल बनाते हैं।

कोई व्यक्ति बुरी भावना करता है। भावना चली जाती है, पर वह अपने पीछे विष छोड़ जाती है। वह विष शारीरिक या मानसिक बीमारी बनकर व्यक्ति को सताता रहता है। वह व्यक्ति अशान्त और असन्तुलित बन जाता है। मनुष्य का यह एक स्वभाव है कि वह परिणाम पर अधिक ध्यान नहीं देता। यदि वह परिणाम पर सोचने विचारने लग जाए तो वह फिर कभी बुरी भावना नहीं कर सकता। अनिष्ट चिन्तन नहीं कर सकता। मनुष्य परिणामों से आंखें मूँदकर हीं बुरी प्रवृत्तियां करता है, बुरी भावना और अनिष्ट का चिन्तन करता है।

रंग का ध्यान बहुत महत्त्वपूर्ण है। जो व्यक्ति श्वेत वर्ण में अहं का ध्यान करता है, वह नाना प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके शरीर में संचित विष समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अरुण वर्ण (वाल-सूर्य जैसा लाल वर्ण) का ध्यान करता है, उसमें तेजो-लेश्या के स्पन्दन जागते हैं और उसकी मन की दुर्बलता समाप्त हो जाती है, मन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य मन की कठिनाइयों से आक्रान्त है। वह उनको जानता है। मन के कुछ भी प्रतिकूल होता है तो मन टूट जाता है, विखर जाता है, और उपद्रव करने लग जाता है। कोई अप्रिय घटना घटती है, मन टूट जाता है। कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, मनुष्य आत्मघात करने को तैयार हो जाता है। मनुष्य का मन इतना कोमल और नाजुक है कि वह योड़ी भी प्रतिकूल स्थिति को सह नहीं सकता। वह टूट जाना चाहता है। मन की इस दुर्बलता को लेश्या-ध्यान के द्वारा मिटाया जा सकता है। उसके द्वारा मन को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि कोई घटना घटे, मन उससे टूटने से बच जाता है। घटना को नहीं रोका जा सकता, मन को टूटने से बचाया जा सकता है।

अहं के ध्यान द्वारा भावों का भी अद्भुत ढंग से परिवर्तन होता है। जब

हम इन गर्म रंगों (पीला, लाल, श्वेत) का ध्यान करते हैं और उनसे तन्मयता प्राप्त करते हैं तब हमारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं। विचारने और सोचने की अस्तरत नहीं, सहज बदल जाते हैं। सारे स्पंदन बदल जाते हैं। विचारों के, विकल्पों के और मोह के जो स्पंदन इन गर्म रंगों के स्पंदनों से इक जाते हैं, निर्विर्य हो जाते हैं। साध-साध कपाय-विलय और मूर्छा-विलय के जो स्पंदन होते हैं, उन्हें शक्ति भिलती है और वे सक्रिय हो जाते हैं। लाल रंग या नारंगी रंग टाँकिक का काम करता है। यह महत्वपूर्ण रखायन है। इससे पुरी सक्रियता पैदा होती है और प्रण-अण में गर्मी आ जाती है।

रंगों का ध्यान महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इन ध्यान से जरीर और मन की दुर्बलता मिटती है। स्मृति और चुदि का विकास होता है। शान-तन्तु शक्तिशाली बनते हैं। इन सबके लिए अलग-अलग प्रयोग हैं।

भावों को बदलने का दूसरा शक्तिशाली साधन है—शब्द। मन्त्रों की पढ़ति इसका साधी है। मन्त्रों के द्वारा भावों को बदला जा सकता है। यह मूल्यवान् नाथ है। मन और शरीर के साथ मन्त्र का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। तन्त्र और मन्त्र—दोनों साधनाध चलते हैं। तन्त्रशास्त्र के भी मन्त्र बहुत हैं। मन्त्र का प्रयोग शब्द का प्रयोग है। इससे भाव बदलते हैं। एक व्यक्ति के मन में जो भाव यन जाता है, निमित्त हो जाता है, उसे तोड़ना कठिन होता है। कोई समझदार व्यक्ति जगने को भाव तक पहुँचा देता है तो भक्त हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। कुछ घटनाएं प्रस्तुत करें।

एक आदमी बीमार पा। बहुत घबरा रहा पा। एक वैद्य आया। रोगी को देखा। उसकी पवराहट को देखा। वैद्य बोला—‘घबराओ भत। सांझ होति-होति तुम स्वस्प हो जाओगे, पूर्णे फिरने लग जाओगे। तुम्हारी पवराहट मिट जाएगी। मैं ऐसी दवा दूगा कि रोग मिट जाएगा।’ वैद्य बाहर गया। रात और नमर की पुड़िया बांधी। रोगी को पुड़िया देते हुए कहा—‘यह बहुत कीमती दवा है। दी पुड़िया नित ही बीमारी नाल हो जाएगी।’ रोगी को इतना विद्वास दिया गया कि स्वस्प होने की यात भाव तक पहुँच गई। रोगी ने पुड़िया निमा। दूसरी पुड़िया नित ही उस स्वरूपता का अनुभव होने लगा और नाम से पहले ही यह चलने ले भर चला गया। न बीमारी और न पवराहट। पुड़िया का असर नहीं पा, चक्षकार पा यात का भाव तक पहुँच जाता।

आचार्य निभु के नगद की यात है। उस समय वे मुनि नहीं बने थे। वे झंट पर ही आ रहे थे। भाष्य में एक व्यक्ति पा। उसे तन्द्राकू नूंदने की आदत थी। यात में उम्भाकू पूर्ण ही गई। उस व्यक्ति का शरीर टूटने लगा। उसे निति-हीनता वा अनुभव होने लगा। यह जामी में ही बैठ गया। निभु ने पूछा—‘क्या बात है? निराज होकर कैसे बैठ गए? उसने कहा—‘भोग्यजी! मैं अब आगे एक

कदम भी नहीं चल सकता। तम्बाकू पूरी हो गई है। उसका नशा उत्तर गया है। जब तक तम्बाकू न सूंध लूँ तब तक चल पाना कठिन है।' भिक्षु ने कहा—'मैं इधर-उधर जाकर किसी राहगीर से तम्बाकू ले आता हूँ। चिन्ता मत करो।' वे गए। वहां कौन राहगीर आता! एक सूखा उपल लिया। उसका वारीक चूर्ण किया। एक पुड़िया बांधकर ले आए। आकर बोले—'भई! तुम्हारा भाग्य था कि एक पथिक मिल गया। उसके पास तम्बाकू थी। यह ज्यादा अच्छी तो नहीं है, फिर भी काम आ जाएगी।' उसने पुड़िया खोली। तम्बाकू सूंधी। दो क्षण बाद वह बोला—'अब चलो, तम्बाकू का नशा चढ़ गया। अब आराम से घर पहुंच जाएंगे।' यह क्या है? केवल उपल का चूर्ण तम्बाकू बन गया। भाव को बदल देने की शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस व्यक्ति का शब्द दूसरे व्यक्ति के भाव तक पहुंच जाता है, सारी स्थिति बदल जाती है।

एक घटना याद आ रही है। वह को गुस्सा बहुत आता था। सारे घर बाले हैरान थे। एक बार सास वहू को लेकर एक व्यक्ति के पास गई। वह शरीर की चिकित्सा के साथ-साथ मन और भावों की चिकित्सा करना भी जानता था। वहू ने कहा—'मुझे गुस्सा बहुत आता है। इसकी दवा दो।' उसने एक बोतल देते हुए कहा—'जब गुस्सा आता दिखाई दे तब इस दवा को मुँह में भर लेना और दस-पन्द्रह मिनट बाद निगल लेना। यह रामबाण दवा है। बहुत कीमती है।' उसने इस विश्वास की बात को वहू के भाव-संस्थान तक पहुंचा दिया। वह दवा क्या, केवल पानी था। वहू ने उसका प्रयोग किया। दस दिन में उसका गुस्सा समाप्त हो गया।

गुर्जियाफ रूस का बहुत बड़ा साधक था। एक बार उसके पिता ने कहा—'वेटा, मेरी एक बात मानना जब गुस्सा आए तो चौबीस घण्टे बाद गुस्सा करना, पहले नहीं।' इस एक बात ने गुर्जियाफ को महान् साधक बना डाला। क्या कोई २४ घण्टे बाद गुस्सा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। गुस्सा समाप्त हो जाता है। जब गुस्से की गर्मी जागती है तब उसे कर लिया जाए तब तो गुस्सा है। अन्यथा फिर गुस्सा नहीं होगा। गर्मी मिट जाएगी।

भावों को बदलने का सशक्त माध्यम है शब्द। जब हम शब्द को व्यक्ति के भाव-तन्त्र तक पहुंचा देते हैं तब यथेष्ट काम बन जाता है। ठीक शब्दों का चुनाव करते हैं; ठीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों और निर्देशों का चुनाव करते हैं कि वे भाव-तन्त्र तक पहुंच जाएं, उसे आनंदोलित कर दें, उसमें क्षोभ पैदा कर दें। उसे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दुनिया में जितने भी समझदार व्यक्ति हुए हैं उन्होंने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दिया है। बोलने का विवेक और शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आदमी किसी भी उपाय से नहीं बदलता।

शब्दों का सही चयन करें, आदमी बदल जाएगा।

एक व्यक्ति था। उसे दही बहुत रुचिकर था। वह दही को छोड़ता नहीं चाहता था। एक बार वह बीमार हो गया। चांसी ने उसे आ घेरा। वैद्य आते। दवा देने और दही याने की मनाही करते। वह दवा नहीं लेता। सभी वैद्य निराश हो गए। एक दिन वैद्य आया जो शरीर की ही समस्या को नहीं जानता था, मन और भावों की समस्याओं से भी परिचित था। वह आया। बीमारने कहा—‘दवा दो, पर मैं दही याना नहीं छोड़ूँगा।’ वैद्य बोला—‘मैं तुमसे दही नहीं छुड़वाऊँगा। दही यूथ याओ।’ यह नुनते ही बीमार व्यक्ति का मन कुतूहल से भर गया। उसने पूछा—‘ऐहजी! सब दही की मनाही करते हैं, आपने दही याने की छूट कैसे दी?’ वैद्य बोला—‘दही में ब्रेनेक गुण है।’ बीमार आदमी दही के गुण की बात सुनकर प्रसन्न होआ। वैद्य ने कहा—‘दही में तीन मुख्य गुण हैं। कफ की बीमारी या चांसी की बीमारी में जो कोई दही याता है, उसको तीन लाभ होते हैं। पहला लाभ है कि वह कभी बूझ नहीं होता। दूसरा लाभ है कि उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। तीसरा लाभ है कि उसे कभी कुत्ता नहीं काटता।’ रोगी ने कहा—‘दही याने के नाय इन तत्वों परा सम्बन्ध है?’ वैद्य बोला—‘चांसी में जो दही याता है वह यूझ इनलिए नहीं होता कि वह पहले ही भर जाता है। उसके घर में चोरी इनलिए नहीं होती कि वह रात भर चांसता रहता है। एक धूष के लिए भी सो नहीं पाता। उसको कुत्ता नहीं काटता यद्योंकि वह बिना लाठी के चल ही नहीं सकता। जब हाथ में लाठी रहती है तब कुत्ता कैसे काटे?’ रोगी ने कहा—‘वह बात है तो मैं दही कभी नहीं खाऊँगा।’ उसने दही याना छोड़ दिया।

कौन होता है मनुष्य का स्वभाव! जब वैद्यों ने दही याने की मनाही की तब वह दही याने की हृषि करता रहा। जब वैद्य ने दही याने को कहा तो उसने दही याना नहीं पाता। जब गद्द भाव का सर्व कर निते हैं, तब यथार्थ घटित हो जाता है। यदि गद्द की शक्ति का ठीक उपयोग करें, शब्दों का ठीक चुनाव करें तो भाष-भृत्यान में बहुत यहां परिपत्ति हो सकता है।

हमने मंगल-भावना के कुछ नूत्र प्रस्तुत किए हैं। सभी साधक मंगल-भावना करें। मंगल भावना के नूत्र हैं—

१. श्री मंसनो हूँ स्याम—मैं श्री मंसन दन्।
२. श्री चंसनो हूँ स्याम—मैं लज्जा मंसन दन्।
३. धी सरनो हूँ स्याम—मैं युद्धि मंसन दन्।
४. पूर्णि सरनो हूँ स्याम—मैं पैर्य मंसन दन्।
५. शान्ति मंसनो हूँ स्याम—मैं शान्ति मंसन दन्।
६. शान्ति करनो हूँ स्याम—मैं शान्ति कंसन दन्।
७. करो तंसनो हूँ स्याम—मैं अत्तरद मंसन दन्।

८. तेजः संपन्नो हूं स्याम—मैं तेज संपन्न वनूं ।

९. शुक्ल संपन्नो हूं स्याम—मैं पवित्रता संपन्न वनूं ।

ये सूक्त हमारी आन्तरिक भावना को जागृत करने वाले हैं। मैं 'श्री' सम्पन्न वनूं । लेश्या के सिद्धान्त में दरिद्रता को कोई स्थान नहीं है। जिसकी लेश्याएं पवित्र होती हैं, वह महान् ऋद्धि वाला होता है, महान् वैभव वाला होता है। जैसे सामाजिक व्यक्ति अपनी श्रीवृद्धि करना चाहता है वैसे ही शुद्ध-लेश्या वाला अध्यात्म का साधक अपने आभामण्डल को शक्तिशाली बनाना चाहता है। श्री का अर्थ होता है—लक्ष्मी और श्री का अर्थ होता है आभा। लक्ष्मी का संवर्धन और आभा का संवर्धन। 'ही' का अर्थ है लज्जा और ही का अर्थ है अनुशासन। सामाजिक प्राणी के लिए लज्जा भी जहरी है और अनुशासन भी जहरी है।

'भावों को बदलने के लिए, लेश्याओं को शुद्ध करने के लिए हमारे सामने दो प्रयोग प्रस्तुत हैं। एक है रंगों का ध्यान और दूसरा है मन्त्रों का प्रयोग। मंगल-भावनाओं का प्रयोग और भाव-संस्थान को सक्रिय बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले शब्दों का प्रयोग। हम इन दोनों प्रयोगों के द्वारा भाव-संस्थान को गंगाजल जैसा निर्मल बनाएं, गंगोत्री जैसा निर्मल बनाएं और शरीर, मन तथा अध्यात्म की चिकित्सा करें। हम शरीर के दोष और अपाय, मन के दोष और अपाय तथा अध्यात्म के दोष यानी मूर्छा के दोष और अपाय—इन सब अपायों को समाप्त करें और उपायों का प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में लेश्या का सिद्धान्त केवल तात्त्विक तिद्वान्त नहीं रहेगा वह हमारे लिए चिकित्सा की पूरी पद्धति बन जाएगा।

८. लेश्या : रुक्क विधि है रसायन-परिवर्तन की

- १ • अन्तर्ज्ञान द्वारा चेतन्य-केन्द्रों का चोधन ।
- २ • आनन्द द्वारा रसायन-परिवर्तन ।
- ३ • कर्म के अनुभाव का मन्दीकरण ।
- ४ • उत्तम से रासायनिक परिवर्तन ।
 - ० ध्यान ने रासायनिक परिवर्तन ।
 - ० शीर्षकाम ने रासायनिक परिवर्तन ।
 - ० प्रेक्षा ने रासायनिक परिवर्तन ।
- ५ • निश्चय—गंध, रस और स्वर्ग—अच्छे भी और बुरे भी ।

आठ

विष के भी रसायन हैं और अमृत के भी रसायन हैं। आयुर्वेद ने रसायनों पर बहुत काम किया है। आयुर्वेद के आचार्यों ने ऐसे रसायनों के प्रयोग किए जिनसे शरीर पूर्ण स्वस्थ हो सके और उसमें जमे हुए विष समाप्त हो सकें। अध्यात्म समूची रसायन की प्रक्रिया है। यह रसायन को बदलने की प्रक्रिया है। केमेस्ट्री का विद्यार्थी जानता है कि पदार्थ के रसायनों का परिवर्तन करने पर नयी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मानवीय रसायन का भी यही सिद्धान्त है। ह्यूमन आलकेमी (Human Alchemy) पर जिन्होंने काम किया है, जो मानवीय रसायनों की संरचना का बोध रखते हैं, वे भली-भांती जानते हैं कि हमारे शरीर के रसायनों का परिवर्तन करने पर एक नयी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ध्यान की समूची प्रक्रिया, योग की समूची प्रक्रिया और तप की समूची प्रक्रिया रसायन-परिवर्तन की प्रक्रिया है। उपवास इसीलिए किया जाता है कि शरीर का रसायन बदल जाए, रसायनों की संरचना बदल जाए। खाते-खाते विषेले रसायन पैदा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं और वे रसायन मन में विकृति पैदा करते हैं। मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, वे विकार अनायास ही उत्पन्न नहीं होते, वे हमारे शारीरिक विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान् महावीर से पूछा गया—‘भगवन् ! ब्रह्मचर्य की साधना के लिए क्या किया जाए ?’ भगवान् ने कहा—‘अविनिब्लासण—निर्बल भोजन करो।’ शक्तिशाली भोजन मत करो। गरिष्ठ भोजन मत करो। ऐसा भोजन करो जिससे पेट की व्याधि मिट जाए। ऐसा भोजन मत करो जिससे वासना को उत्पन्न करने वाला रसायन पैदा हो। फिर पूछा—‘भगवन् ! और क्या किया जाए ?’ भगवान् ने कहा—‘कम खाओ, जिससे कि रसायन इतना न बने जो वासना को उभार सके। कामसंज्ञा की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। उनमें एक कारण है—मांस और रक्त का उपचय। जब शरीर में रक्त और मांस अधिक होता है, उनका उपचय होता है तब काम की संज्ञा तीव्र बनती है। ये सब रासायनिक क्रिया के सूक्त हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के तत्त्व उत्पन्न होते हैं। कोशिकाएं अपने लिए विटामिन, प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। हमारी चमड़ी के भीतर

जब भोड़ा-गा ताप उत्पन्न होना है तब विटामिन 'टी' उत्पन्न हो जाता है। और भी नाम प्राणार के रसायन पैदा होते हैं। भोजन से भी अनेक प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं और वे हमारे वृत्तियों को प्रभावित करते हैं। फिर पूछा गया—‘भगवन् ! और या उत्पाद करना चाहिए ?’ भगवान् ने कहा—‘अगर ऐसी स्थिति आए कि लाम जान्न नहीं हो रहा है तो आहार का विच्छेद कर दो। छोड़ दो।’ जब आहार नमाप्त हो जाता है, लम्बे समय तक उपवास किए जाते हैं, दस-चार दिन की तपस्या की जाती है तभ मन्दिर्या अपने आप शान्त हो जाती हैं, काम-वासना भिट जाती है। जब इन्द्रियों को रसायन का भोजन नहीं मिलता तब वे शान्त हो जाती हैं। आशमी को भोजन नहीं मिलता है तो वह भी शान्त हो जाता है। भूखा पायमी सहज शान्त हो जाता है। इन्द्रियां शान्त, मन शान्त, शरीर शान्त और सब कुछ शान्त। रसायनों का परिवर्तन होता है। पुराने रसायन बदल जाते हैं। ऐसे नये रसायन उत्पन्न होते हैं जो उत्तेजना पैदा नहीं करते। तपोयोग रसायन परिवर्तन का योग है। उपवास के द्वारा ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो शारीरिक वीमारी से शान्त करते हैं। उपवास स्वर्व एक चिकित्सा पद्धति है। ग्राचीनगान में उपवास का प्रयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता था। वर्तमान में इस चिकित्सालयक दृष्टिकोण ने लोग कम परिचित है। परिचम के लोगों ने इस पर बनेक ब्रह्मगुप्तान किए, प्रयोग किए और उपवास की चिकित्सा पद्धति का विधिवत् विधान किया। आज उपवास की चिकित्सा प्रचलित है। उपवास के विधिवत् प्रयोगों से अनेक रोग शान्त किए जाते हैं। कारण एह ही है उपवास के द्वारा रसायनिक परिवर्तन होता है और रोग शान्त हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति पक्षाभाव में भीड़िया है। उन्होंने आठ दिन का चौपिंतार (पिंड) उपवास किया और वे घीक ही गए। आपसिन के द्वारा अनेक वीमारियां शान्त होती हैं। इसी प्रकार और भी अनेक प्रयोग किए जाते हैं—आपसिन, एरान्तर, उपरात, आठ दिन का उपवास, आध दिन का उपवास, कम यांत्रे का प्रयोग, कम रस्तुएं याता, कम यार खाता — ये गारे व्यंगीय शारीरिक रसायनों ने परिवर्तन दिया है।

दृग् १८ नी में ये। भोराङ्गु का एक व्यक्ति जाया। पहुँचोर चालन आता पा। भोराङ्गु चालन चालकरबृप्तिमात्र भोराङ्गु की लेता पा। उसे रहा—‘मन एक प्रयोग के द्वारा कंतर देने वाला रोगी को भी दिया दो।’

इस भारी व्यक्तियों में यह स्पष्ट है कि उपवास, वर्षया, सदय और आमनों के द्वारा रसायनिक परिवर्तन प्रदित होता है। शायदिवत के द्वारा भी रसायनों में वापर होता है। दूसरे व्यक्तियों के मन में प्राप्तिवत की लिंग भावना उत्पन्न है जब उन्होंने व्यक्तियों के द्वारा उपवास की व्यापक व्यक्तिवत प्रदिवता एवं सदय द्वारा गृह्य है। उपवास द्वारा जीवों को आत्मा देता है। जब मन में व्यक्तिवत ही जाता है, तब जाना व्यक्तिर दो दीनारियों से ज्ञान लव जाते हैं। उपवास की व्यक्तिवत की कहानी

महत्त्वपूर्ण विधि है—प्रायश्चित्त। प्राचीन भाषा में प्रायश्चित्त और आज की भाषा में मनोविश्लेषण, आत्म-विश्लेषण। जब रोगी आत्म-विश्लेषण करता है तब मनःचिकित्सक उसकी सारी ग्रन्थियों को जान लेता है और उपायों से उन ग्रन्थियों को खोल देता है।

विनयता, अहंकारशून्यता रसायन-परिवर्तन का बहुत महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म है। विनय के प्रति हमारी धारणाएं भ्रान्त हैं। हमने मान लिया कि विनय दूसरों के प्रति होता है। यह भ्रान्ति है। इस भ्रान्ति ने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया है। लोग मानने लग गए कि जो छोटा हो वह विनय करे। बड़े को विनय करने की जरूरत नहीं है। उसे ठूँठ जैसा बनने की आवश्यकता है। यह कैसी भ्रान्ति है? सचाई यह है कि विनय किसी दूसरे के प्रति नहीं होता। विनय होता है स्वयं के प्रति। विनय है—अहंकारशून्यता। यह अपनी आत्मा की अवस्था है। विनय दूसरों के प्रति होता ही नहीं। जब तक यह मानते रहेंगे कि विनय दूसरों के प्रति होता है तब तक जो बड़ा है वह अकड़ा रहेगा। वह दूसरों से विनय चाहेगा। दूसरों के मन में यह प्रतिक्रिया होगी कि वे विनय क्यों करें? वे स्वयं दूसरों से विनय चाहेंगे। साधु भी सोचेगा कि वह बड़ा है। वह विनय क्यों करे! विनय वह करेगा जो अनुयायी होगा। विनय करना श्रावक का काम है, साधु का काम नहीं है। इस औपचारिक बात ने एक भ्रान्ति पैदा कर दी। साधु का सबसे बड़ा धर्म है—विनय, अहंकार-शून्यता। यह व्यक्ति का अपने लिए अपना धर्म है। किसी दूसरे के लिए नहीं है। हम इस भ्रान्ति को तोड़ें। विनय के सात प्रकार हैं—ज्ञान-विनय, दर्शन-विनय, चारित्र-विनय, मन का विनय, वचन का विनय, शरीर का विनय और सातवां है लोकोपचार विनय। हाथ जोड़ना वास्तविक विनय नहीं है, लोकोपचार विनय है। वास्तव में विनय है—मन का विनय। मन को अनुशासित रखना मन का विनय है। मन को अहंकार से शून्य कर देना, मन का विनय है। वाणी में उद्दंडता न होना वाणी का विनय है। शरीर में अकड़न न होना शरीर का विनय है। ज्ञान के प्रति अपनी अगाढ़ आस्था समर्पित करना ज्ञान का विनय है। दृष्टिकोण को सरल, क्रृत्यु और अनेकान्तमय बनाना दर्शन-विनय है। परिवर्त आचरण करना चारित्र-विनय है। यह है विनय। ऐसा विनय सबके लिए आवश्यक है। छोटे के लिए आवश्यक है तो बड़े के लिए भी आवश्यक है। श्रावक के लिए आवश्यक है तो साधु के लिए भी आवश्यक है। यह विनय किसी दूसरे के प्रति नहीं, स्व के प्रति होता है। औपचारिक विनय दूसरे के प्रति किया जाता है। साध्वी मुझे हाथ जोड़ती है, यह उपचार है और मैं साध्वी को हाथ जोड़ता हूँ, यह भी उपचार है। यह अधिक महत्त्व की बात नहीं है। यह मात्र उपचार है। यह झूठा उपचार बहुत निभाया जाता है। कभी आंखें नहीं मिलतीं, पर मिलते हैं तब हाथ जरूर जोड़ सकते हैं। यह लोकोपचार है। यह विनय का बड़ा सूक्ष्म नहीं है। हमने इसको बहुत

जहा नूत्र मान लिया। हम इनी विनय की नीमा में सारी बातें सोचते हैं और नाना प्रशार दी गतस्थापनीश करते हैं।

विनय अद्विकारनुभाव की प्रक्रिया है। यह सारे मर्दों से अपने आपको घाली करने की प्रक्रिया है। जहा इन प्रक्रिया का आनेवन होता है, वहाँ रासायनिक परिचयन प्राप्ति जाने पार पटित होता है।

रासायनिक परिचयन की पुष्ट प्रक्रिया है। ध्यान से भी रासायनिक परिचयन होते हैं। रासायनिक परिचयन का यदुत यदा नुस्खा है—ध्यान। जो रूपाय के रसायन तीव्र अनुभाव निकार आ रहे हैं, हम ध्यान के द्वारा ऐसे रसायन पैदा करें विषेशीय अनुभाव पाने रसायन नंद हो जाएं, उनका सामर्थ्य दीग छोड़ हो जाए। उनसे शक्ति लिल हो जाए, उनका आकृषण नष्ट हो जाए। वे रसायन नये प्रनुभाव उत्पन्न करें। जब हम चेतन्य-केन्द्रों पर ध्यान करते हैं, उनसे स्वच्छ दर्पण जैसा बनाते हैं तो अपने आप भीतर ने कुछ नये तथ्य पढ़ा होते हैं। जब तक हमारे चेतन्य-केन्द्र स्वच्छ नहीं हैं, पृथिवी और आपने रहने हैं तथ तरु भीतर का प्रकाश बाहर नहीं आ जाता। हम उसी ज्ञान से जानते हैं, नुष्ठ को जानते हैं जिसे हिन्दु हम उसी ज्ञान को आनते हैं जो बाहर से भिलता है। हम उसी ज्ञान से जानते हैं जिसे स्मृति-कोठह द्वारा भरते हैं। हम उसी ज्ञान में परिचित हैं, जिसे हमारा नाड़ी गंगाधान उद्यादित करता है और प्रेरित करता है। हम उस ज्ञान ने चिन्हकुल परिचित नहीं है जिसमें उद्यग बाहर ने नहीं है। जिसका समर्थन मरितप के नहीं है; जिसका समर्थन नाई-गत्यान में नहीं है। उस ज्ञान से हम चिन्हकुल परिचित नहीं है। हम नुष्ठ में परिचित हैं, पर केवल उसी नुष्ठ में परिचित हैं जो पदार्थ से भिलता है। हम उस नुष्ठ में परिचित नहीं हैं जिसे भी पदार्थका योग नहीं होता।

ये ज्ञानशक्ति से परिचित नहीं है, हम ज्ञानशक्ति में परिचित नहीं हैं। हम ज्ञानशक्ति कुपानुभूति और ज्ञानशक्ति कुपानुभूति से नाई। प्रपरिचित है। जब हम ज्ञानशक्ति के ध्यान के द्वारा उकारी जियाजीं में परिचयन होता है। हमारे ज्ञानशक्ति के परिचयन होता है। उनके वर्ण, वर्ग, रस और समर्थ की पदलते तथ वक्त के ज्ञानशक्ति कही हो सकता। ज्ञानशक्ति ज्ञानद उपनिषद नहीं ही सकता। वृद्धक जिया वा ज्ञाना रस हीता है। पर्येक जिया वा ज्ञाना वर्ण, रस, और सर्व शीर्षकी। हमें उनका इति नहीं बताता, ज्ञानशक्ति हम जर्मने भवता के जाप द्वारा होते हैं तथा हमें ज्ञानशक्ति वा ज्ञानी नहीं बताता।

जाव में इक विवरणी जाता। यह जेजस्को और जिन्दाजी से पाया। जाव में एक विश्वासी रुद्र। यह इतने कहते जाता। उसे जूर्म जानिन रहे—ज्ञानशक्ति है। इन वर्ण—ज्ञानशक्ति। तुड़ दिन के लिए जाव में रहे ताकि इसे जाने। जावजीने वहाँ—ज्ञानशक्ति नहीं होती जीव जाती है। ये बहु नहीं रह जाता। जाव

बोला—‘कैसी वात करते हैं ? सोने की गंध कहां है ? लोग सोने का नाम लेते ही उस ओर दौड़ पड़ते हैं । आप उससे दूर जाना चाहते हैं । मैं वहां रहता हूं मुझे आज तक गंध नहीं आई ।’ संन्यासी ने कहा—‘चलो, मेरे साथ ।’ संन्यासी राजा को लेकर चमारों की वसती में गया । राजा को चमड़े की दुर्गंधि सताने लगी । उसने अपनी नाक कपड़े से ढंक लिया । संन्यासी एक चमार के घर पर जा रहा । राजा ने कहा—‘महाराज ! कहां ले आए आप ? वड़ी दुर्गंधि आ रही है । मेरा जी घट रहा है । जल्दी चलें ।’ संन्यासी बोला—‘कैसी दुर्गंधि ! आप भी वड़ी विचिन्न वात कर रहे हैं । आप इस घर के मालिक को पूछें ।’ घर का स्वामी आया । संन्यासी ने पूछा—‘अरे, तुम्हें यहां दुर्गंधि नहीं आती ?’ घर के स्वामी ने कहा—‘नहीं, दुर्गंधि है कहां ? मुझे यहां रहते पचास वर्ष हो गए । कभी दुर्गंधि की अनुभूति नहीं हुई ।’ संन्यासी राजा को लेकर महल में आ गया । वह राजा से बोला—‘देखा, महाराज ! आपको वहां चमड़े की दुर्गंधि आ रही थी । वहां रहने वालों को उसका अनुभव ही नहीं हो रहा था । इसी प्रकार यहां आपके महलों में मुझे सोने की गंध आती है, आपको उसका अनुभव ही नहीं होता ।’ जो जिसमें रचपच जाता है, वह वैसा ही हो जाता है ।

बुरे भावों की गंध में, बुरे भावों के कड़वे रस में, बुरे भावों के स्पर्श में आदमी इतना धुल जाता है, एकात्म हो जाता है कि उसे यह अनुभव ही नहीं होता कि भीतर के रसायनों में कितनी दुर्गंधि है, कितने खराब रस और स्पर्श हैं ।

कृष्ण-लेश्या का वर्ण काला होता है । कोरा वर्ण ही काला नहीं होता, उसमें दुर्गंधि होती है । कृष्ण-लेश्या के परमाणुओं में दुर्गंधि होती है । दुर्गंधि भी मरे हुए कुत्ते की सडांध से अनन्तगुना अधिक । वह दुर्गंधि हम अपने भीतर लिये वैठे हैं । हम बाहर की दुर्गंधि को मिटाने के लिए कभी-कभी इत्त या सुगन्ध का प्रयोग करते हैं । उससे बाहर की दुर्गंधि इतनी नहीं सताती । परन्तु हम यह अनुभव तो करें कि भीतर के परमाणुओं में कितनी दुर्गंधि है । कृष्ण-लेश्या का रस कड़वे तुवे से भी अनन्तगुना कड़वा होता है । उसका स्पर्श करवत से भी अनन्तगुना ज्यादा कर्कशा होता है । इस प्रकार के कृष्ण-लेश्या के परमाणुओं को हम भीतर आभामण्डल के साथ जोड़े हुए वैठे हैं । हम खड़े होते हैं तो वह आभामण्डल खड़ा हो जाता है । हम सोते हैं तो वह आभामण्डल सो जाता है । हम चलते हैं तो वह आभामण्डल चलने लग जाता है । वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता । इसी प्रकार नील-लेश्या का आभामण्डल भी हमारा साथ नहीं छोड़ता ।

नील-लेश्या के आभामण्डल में नील-लेश्या के परमाणुओं का रस त्रिकटु और गजपीपल के रस से भी अनन्तगुना तीखा होता है ।

कापोत-लेश्या के आभामण्डल में कापोत-लेश्या के परमाणुओं का रस कच्चे आम और कच्चे कपित्थ के रस से भी अनन्तगुना कषेला होता है ।

हम अपने भीतर संग्रह-संसे रसायनों को संजोए बैठे हैं, फिर भी बाहर से साफ़-हरे का प्रवर्तन कर रहे हैं। भीतर की निम्नता अधिक मूल्यवान् होती है।

प्रदीपन वैज्ञानिक महिला डॉ० जॉ० सी० ट्रस्ट ने मूदम संवेदनशील केमरों (आभासमण्डल के कोटी) त्रिंशु। उन्होंने बताया—‘मैंने देखा कि जो लोग बाहर से साफ़ गुमर रहे हैं, उन्हुंने भीतर में मलिनता को संजोए रहते हैं, उनके आभासमण्डल प्रयोग विठ्ठल प्रौर नहीं होते हैं। जो लोग शरीर से साफ़ सुखरे नहीं हैं, उन्हुंने भीतर परिवर्तन कर दिया है, उनके आभासमण्डल बहुत स्वच्छ और निर्मल होते हैं।’

हम अपने करणों पर प्रौर शरीर की स्वच्छता पर जितना ध्यान देते हैं, उसमा ध्यान अपने भीतर ने प्रकट होने वाले आभासमण्डल पर नहीं देते; अपने भाषी पर नहीं देते। परिणाम यह होता है कि बाहर से तो हम स्वस्य और सुन्दर शीघ्रने लगते हैं, और भीतर में गद्दगी को पालते जाते हैं। यह गद्दगी हमारे मन को नीचती बताती है। मन पक-पक टूटता जाता है। ऐसी स्थिति में अशान्ति का चाप्राप्ति कैसे न हो? लोग कहते हैं—‘दुनिया में इतनी अशान्ति! इतनी बेवैती! जागो! कैसे नहीं होती? इसरे भीतर के सारे रसायन मन को तोड़ने वाले हैं, फिर जलाना चाहीं, यह कैसे बनव हो मरता है।

लेख्या के द्वारा हम अपने रसायनों का पता लगा सकते हैं। इस विज्ञा में अनेक वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं। पर्मीने के द्वारा जाना जा सकता है कि व्यक्ति का जागरण कैसा है? प्रश्न ही कैकता है कि पर्मीने और आचरण में क्या सम्बन्ध? जो ज्वरियाँ गोपी हैं, इर्ष्यालु हैं, घगड़लु हैं, द्रूषित मनोमाव वाला है, उसके पर्मीने में एक प्रभाव यही उपर्युक्त होती है। जो व्यक्ति सरल है, निरच्छल है, पवित्र मनोमाव वाला है, उसके पर्मीने में दूसरे प्रकार यही उपर्युक्त होती है। जैन परम्परा में यह मान्य है कि तीव्रेकर के शरीर से रुमन के फूल जैसी गंध जाती है। यह गंध युभ भाषी री प्रतीक है। जिन व्यक्तियों के भाष मिथ्या, पवित्र और सरल होते हैं उस व्यक्ति के शरीर में भी तिम्ह रसा दर्शकी, गुग्ध आएगी।

लेख्या-वैज्ञानिक, पद्म वैरेया और भुजन-वैरेया के पर्याय, गंध, रस और सावं ग्रन्तस्त दोनों तथा लोन्गरसा का क्षेत्र निरोधित होते रहता रहता है। पद्म-वैरेया का क्षेत्र लक्ष्म के मुद्र जैव पौधा होता है। भुजन-वैरेया का क्षेत्र गंध वैराग्यत होता है। इन विनोदवैरेयों की जूप कृष्णधारा पूर्णो हो गंध में जलतहुना नहीं, यह गूर रूप ने जलतहुना दीजा रस और नदीनी उत्पा तिरोप पूर्णो में जलन्तहुना दृढ़ रखता है।

वासना की बहुत बड़ी समस्या है। किन्तु वैज्ञानिक चिन्तिन नहीं हैं। वे इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। वे ऐसे रसायनों के निर्माण में लगे हुए हैं कि उन रसायनों के सेवन से काम की ग्रन्थियां ही समाप्त हो जाती हैं। सेक्स-ग्रन्थियां प्रभावहीन हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में न आहार को कम करने की आवश्यकता है और न ऊनोदरी करने की जरूरत है। न ध्यान-आसन करने की जरूरत है और न चैतन्य-केन्द्रों को जागृत और सक्रिय करने की आवश्यकता है। उन रासायनिक गोलियों से काम-वासना समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार क्रोध, मान, अंहकार, लोभ और सारी उत्तेजनाओं को कम किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे ये अविष्कार आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे अध्यात्म और ध्यान की आवश्यकता अपने आप कम होती जाएगी। सारा काम वैज्ञानिक के हाथ में आ जाएगा। फिर लोग अध्यात्म-शिविरों में नहीं जाएंगे; वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में जाएंगे। वात ठीक है। दिशा गलत नहीं है। इस सचाई को हम अस्वीकार नहीं करेंगे कि यह सारा रसायन-परिवर्तन का प्रयोग है। अध्यात्म साधक उपवास और ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा रसायनों का परिवर्तन करता है और वैज्ञानिक या डॉक्टर कृतिम रसायनों के द्वारा रसायनों में परिवर्तन करता है। घटना एक ही घटित होगी—रसायनों का परिवर्तन। लेश्या का प्रयोग रसायन के परिवर्तन का प्रयोग है। जब हम लेश्या के परिवर्तन के प्रयोग को समझ लेते हैं तब अपने भीतर के रसायनों को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। लेश्या के रसायनों को बदलने का एक माध्यम है—तप। तप में उपवास भी आता है, स्वाध्याय भी आता है और ध्यान भी आता है। दूसरा माध्यम है—पदार्थ। आप यह न मानें कि इस दिशा में आज के वैज्ञानिकों ने ही अनुसंधान किया है, खोज की हैं। यदि यह मानेंगे तो भूल होगी, भ्रान्ति होगी। प्राचीनकाल में साधकों ने इस दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण खोजें की हैं। तंत्र-साधकों ने तथा अध्यात्म के साधकों ने रसायनों को बदलने की बड़ी-बड़ी खोजें कीं। उन्होंने ऐसी औपधियां खोज निकालीं जिनके सेवन से रसायनों का परिवर्तन घटित हो जाता था। डर लगता है। औषधि का सेवन किया और भय समाप्त। एक आदमी सोते-सोते बड़वड़ाता है। उसे भयंकर स्वप्न आते हैं। सिरहाने एक जड़ी रख ली और स्वप्न समाप्त, बड़वड़ाना समाप्त। एक आदमी काम वासना से उत्तेजित होता है। एक औषधि का प्रयोग किया और वासना की उत्तेजना समाप्त हो गई। बहुत वर्षों पूर्व मेरे मन में एक प्रश्न उठा—क्या ब्रह्मचर्य की साधना में वनस्पति का सहयोग हो सकता है? अनेक अनुभवी वैद्यों से पूछ-ताछ की। प्राचीन ग्रन्थ देखे। उनका पारायण किया। अनेक रहस्य उद्घाटित हुए। यह निश्चय हो गया कि वनस्पति के विभिन्न प्रयोगों से लाभ उठाया जा सकता है। ये खोजें बहुत प्राचीनकाल में हुई थीं। हजारों साधक उनसे लाभान्वित हुए थे। वनस्पति का एक कल्प है जितेन्द्रियता के लिए। अमुक

यतन्यति का सेपन करने पर, बिना तुछ नाधना किए ही, मनुष्य जितेन्द्रिय बन जाता है। मनोभावों की वदवने के लिए बनस्तति का बहुत बड़ा उपयोग है। “प्राकृत्यो नशिकव्यीप्रथीता प्रगायः”। यणि, मन्त्र और ओपरियों का प्रभाव प्राकृत्यो नहीं है। उनके प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभाव की कोई भीमा नहीं है। बिना मन्त्रों का प्रभाव है, उतना ही बनस्तति का प्रभाव है। बिना रुग्णों का प्रभाव है उनका ही बनस्तति का प्रभाव है। बनस्तति के द्वारा मानविक और मानविक रसायनों का परिवर्तन किया जा सकता है। इसनिह जाति की साम्यताएँ भी घोटा कर रहे हैं, वह कोई नवीं जात नहीं है। इसी ही जाति पर भी, बनस्ततियों के द्वारा रसायन-परिवर्तन की प्रक्रिया या इस रसायनों द्वारा रसायन-परिवर्तन की प्रक्रिया हस्तगत हो जाने पर भी हम अपनी हमारी योग्यता नहीं खो देते। इसनव्यता को यों देना यत्तरताक होता है।

अब ऊर्जा का उत्तरांगमन आते हैं। हम अपनी ऊर्जा को ऊर्जवंगमन बनाते हैं। केवल रसायन-परिवर्तन की जात ही पूरी नहीं है। ऊर्जा का ऊर्जवंगमन का अंतिम की घोषने का द्वार है। यह बिना परामर्श के उद्धाटित नहीं होता। इन गतियों के द्वारा यह सोंहे भड़कता है कि एह इत्यावज निया या एक गुटिका यों और एक समाप्त हो गया या काम-जानना नमान हो गई या अन्य उत्तेजनाएँ तट्टा हो गई। यह गमन है। वैशानिक इस दिशा ने तफ्तन भी दुए हैं। किन्तु हम जित कर्त्तानी या जानवरिक जानवर की उपलब्ध करना चाहते हैं, जीवन में नवीं दिशा का उद्धारण करना चाहते हैं, यह इन २५५५ उपलब्धों, इन गतियों या गुटिकाओं में नहीं रहता। यह निषेधात्मक तरीका है। ग्रोध नहीं जानता। यह सम्भालना नहीं जानता। किन्तु इस दिशा में जाकर हमें एक विस्फोट खड़ना है, यह गमती रहता। जानवरिक जान और जानवर का जो द्वार बद्द पड़ा है, वह नहीं जानता। उसे योग्यते के लिए योगित्व एप्रोच होता चाहिए। हमारा कोई इत्यावज उत्तर हीना चाहिए। यह दिशावक उत्तर ही जाने मन को नियतिशाली बनाते हैं, जारी करनेवाले हैं, तरसता हैं, धूम का और चेतावन-केन्द्रों को लिये बनाते हैं। जैविक द्वयों की नियंत्रित दिशाने ने दो गत दृष्टियों को दूर कर दिया है। और उनसे गोप्य समान हो जाता है, व्यक्ति और दुर्गी दोनों दृष्टियों को। जो है, उसी जो हमारी दृष्टियों की रक्षिता, नियंत्रण की विद्या है वह ही है। ऐसे इन दृष्टियों की उद्धारण करनी है, जिनमें जन्म-दोष दृष्टि होती है। इसपरिक नियंत्रित जनित्रन होता है। जन्मदान् भव्यरीत की दृष्टि में जार भवति दृष्टियां होती हैं—

“ज्ञाते वी शुद्धि इति विद्या विविरत्युति दृष्टि नहीं ही नहता। लेखा री शुद्धि इति विद्या विविरत्युति ही नहता। लेखा वी शुद्धि के जिन्होंनह एवं ज्ञान तहीं दृष्टिया और ज्ञान वी शुद्धि के लिया वे रखदात नहीं होता। जो भी

अन्तज्ञान उत्पन्न होता है, वह लेश्या की विशुद्धि में ही होता है। लेश्या की शुद्धि के बिना आनन्द का अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान आदि के द्वारा जो हम पराक्रम करते हैं वह इसीलिए करते हैं कि भावों का संशोधन हो, लेश्या की शुद्धि हो। जब लेश्या का रूपान्तरण होता है, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चैतन्य-केन्द्रों को जागृत करने के द्वारा या चैतन्य-केन्द्रों को निर्मल बनाने के द्वारा, तब आन्तरिक शक्तियां जागती हैं और वे रसायनों को वदलती हैं और उन आवरणों को दूर करती हैं जो ज्ञान को आवृत किए हुए हैं। उसकी घनीभूत मूर्च्छा को तोड़ती हैं जो आनन्द को विकृत बनाए हुए हैं।

हम मंगल-भावना करें, ध्यान का ऐसा उपक्रम करें, जिससे जीवन में सरलता जागे, संतोष जागे और शान्ति जागे। रसायनिक परिवर्तनों के द्वारा बाहर के जीवन में ये सब जागें और भीतर में वे बन्द दरवाजे खुलें, सारे आवरण हटें और अन्तर् का ज्ञान बाहर आए। अन्तर् में जो आनन्द का समुद्र हिलोरें ले रहा है उसका जल बाहर आए।

चैतन्य-केन्द्रों के जागरण के द्वारा जब ये दोनों काम संभव होंगे उस दिन यह प्रमाणित होगा कि केवल बाहरी रसायनों के परिवर्तन से हम जो चाहते हैं वह उपलब्ध नहीं होगा। बाहरी रसायनों के परिवर्तन के साथ-साथ जब मूर्च्छा टूटेगी, आवरण हटेंगे तब वह सब घटित होगा जो हम यथार्थ में चाहते हैं।

६. लेश्या : रुक्र प्रेरणा है जागरण की

- १ • कैवल्य—भीतर में जागता ।
- २ • मूर्छा कमंतन्त्र को प्रभावित करती है, भाव-उत्तम को नहीं ।
- ३ • चेतना या जागरण कमंतन्त्र और भाव-उत्तम—दोनों को प्रभावित करता है ।
- ४ • जागृत चेतना से आमामंडल विगुद्व बनता है ।
- ५ • जागृत चेतना द्वारा सम्बद्धिका विकास होता है । इन अवस्थाओं—
 - ० पश्चार का उपयोग होता है, किन्तु पश्चार की प्रतिवृद्धता नहीं होती ।
 - ० पश्चार के बाल उपयोगिता का हेतु बनता है, सुवृद्धि का हेतु नहीं बनता ।
 - ० महिलाजुला का विकास होता है, घटना के प्रवाह में वह नहीं बढ़ता ।
 - ० अप्रभावित अवस्था का अनुभव होता है ।
 - ० अस्तित्व चेतना का अनुभव होता है ।
- ६ • जागृत चेतना की अवस्था में व्यवहार और प्रसाद—दोनों चक्रत होते हैं ।
- ७ • भूमिका चेतना याता व्यक्ति जीवन के प्रति आमल होता है, इसकिए वह अपनी सूची में नहीं भर नहता । वह सूची के नवनीत होता है, इसकिए वह अपनी जीवन नहीं भी भरता ।
- ८ • जागृत चेतना याता जीवन और सूची के प्रति नटस्थ होता है, इसकिए वह असाधि या जीवन नहीं है और समाधि-सरग को उपलब्ध होता है ।

नौ

ध्यान की प्रक्रिया मूर्च्छा को तोड़ने की प्रक्रिया है। जो उपाय चेतना को मूर्च्छित करते हैं वे ध्यान के सही उपाय नहीं हैं। ध्यान में सही उपाय वे ही हैं जो मूर्च्छा को तोड़ते हैं। जितने पदार्थ हैं, उतने उपक्रम हैं। व्यक्ति की चेतना को मूर्च्छित करने वाले वे सब हमारे कर्म-तन्त्र को प्रभावित करते हैं। वे कर्म-तन्त्र को निष्क्रिय बना देते हैं, किन्तु वे मूर्च्छा को नहीं तोड़ सकते। केवल कर्म-तन्त्र को प्रभावित या मूर्च्छित करने से मूर्च्छा का विनाश नहीं होता, मूर्च्छा का विलय नहीं होता, मूर्च्छा नहीं टूटती। जब साधक कर्म-तन्त्र को पारकर भाव-तन्त्र का स्पर्श करता है तब मूर्च्छा टूटती है। भाव-तन्त्र का स्पर्श केवल चेतना के द्वारा ही किया जा सकता है। वहां तक कोई पदार्थ नहीं पहुंच सकता, कोई उपकरण नहीं पहुंच सकता। केवल चेतना के द्वारा ही हम उसका स्पर्श कर पाते हैं। हमारा प्रवृत्ति-तन्त्र निष्क्रिय हो जाने पर भी कषाय-तन्त्र निष्क्रिय नहीं होता, सतत सक्रिय रहता है। स्थावर जीवों में मन विकसित नहीं होता, वाणी विकसित नहीं होती और शरीर-तन्त्र भी सुदृढ़ नहीं होता, किन्तु उनमें भी कषाय-तन्त्र, लेश्या-तन्त्र और भाव-तन्त्र निरन्तर सक्रिय रहता है और उनके प्रतिक्षण कर्म-वंध होता रहता है। उनकी मूर्च्छा घनीभूत होती है। उनकी मूर्च्छा स्त्यानधि मूर्च्छा होती है। यह मूर्च्छा की चरम कोटि है। कर्म-तन्त्र इतना सक्रिय नहीं होता, फिर भी मूर्च्छा वहुत घनी होती है। हम केवल कर्म-तन्त्र पर ही न रुकें, आगे वढ़ें, जड़ को देखें और कषाय-तन्त्र तक पहुंचें। कषाय-तन्त्र की चिकित्सा लेश्या-तन्त्र को समझकर ही की जा सकती है।

महावीर ने दो शब्द दिए—द्रव्य और भाव। द्रव्य-अर्हिसा और भाव-अर्हिसा। शरीर से कोई हिंसा होती है, वाणी से कोई हिंसा होती है और मन से कोई हिंसा होती है। हिंसा इतनी ही नहीं है। उसकी सीमा और आगे है। शरीर से कोई अर्हिसा होती है, वाणी से कोई अर्हिसा होती है और मन से कोई अर्हिसा होती है। अर्हिसा इतनी ही नहीं है। उसकी सीमा और आगे है।

तोड़े बिना दोनों बातें घटित नहीं होतीं। पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न न करें, पहले अन्तराय को हटाने का ही प्रयत्न न करें। सबसे पहले मूर्च्छा को तोड़ने का प्रयत्न करें; जागें। जगने का एकमात्र उपाय है, चेतना को जगाना। जब तक ध्यान के द्वारा चेतना का सारा जागरण नहीं होगा तब तक भाव-तन्त्र की मूर्च्छा को तोड़ना संभव नहीं होगा। हमारा प्रयत्न यह हो कि भाव-तन्त्र की मूर्च्छा टूटे।

लेश्या का सिद्धान्त जागरण की प्रेरणा है। हम जागें, जागें। मन दौड़ रहा है, मन के प्रति जागें, मन की चंचलता के प्रति जागें। हाथ हिल रहा है, हाथ के प्रति जागें। यह मूल्यवान् है पर इतना मूल्यवान् नहीं है। बहुत मूल्यवान् है भाव के प्रति जागना। जिस भाव के कारण यह मन विक्षेप उत्पन्न कर रहा है, उड़ रहा है, मन का घोड़ा दौड़ रहा है। मन के प्रति जागने से मन स्थिर नहीं होगा। हाथ के प्रति जागने से हाथ स्थिर नहीं होगा। हाथ में जो शक्ति प्रकम्पन पैदा कर रही है, मन को जो शक्ति चला रही है, वह है सारी भाव की शक्ति। इस भौतिक शरीर से आगे एक तन्त्र है जो अपनी शक्ति का विकिरण करता है, जो आन्तरिक शक्ति का उत्पादक है, वह है लेश्या-तन्त्र, भाव-तन्त्र। जब हम भाव के प्रति जागते हैं तब परिवर्तन होता है। भाव-तन्त्र को जाग्रत रखने का एकमात्र उपाय है सतत जागरूकता, अप्रमाद। हम अपने अस्तित्व के प्रति, चैतन्य के प्रति जागरूक बनें, मूर्च्छत न बनें। हमारे में शून्यता न आये। मूर्च्छा आती है, हमें कोई पता नहीं चलता। नींद आती है, हमें कोई पता नहीं चलता। चेतना को जगाने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान के लिए मादक वस्तुओं के सेवन की जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए मूर्च्छा बढ़ाने वाले उपायों और उपक्रमों की जरूरत नहीं है। जरूरत है सतत जागरण की। हम अपने चैतन्य के प्रति जागरूक रहें। मन को शून्य बनायें। मन की शून्यता का अर्थ इतना ही होगा कि मन में कोई विकल्प न हो। चैतन्य की अनुभूति सतत होती रहे। यही है विचार-शून्यता, विकल्पशून्यता। इस भूमिका पर पहुंचने पर चैतन्य का जागरण होगा, तब साथ-साथ एक प्रश्न उठेगा कि जब हम इस कर्म-तन्त्र से परे चले जाते हैं, जब हम इस बाह्य व्यक्तित्व से परे चले जाते हैं, तब हमारे जीवन की यात्रा कैसे चलेगी? जीवन-व्यवहार कैसे चलेगा? हम जीवन-व्यवहार में सफल कैसे होंगे? जब भूख का प्रश्न, पारस्परिक सहयोग का प्रश्न, रोटी का प्रश्न, कपड़ों का प्रश्न—ये प्रश्न जब नग्न सत्य बनकर हमारे सामने आते हैं और हम भाव-तन्त्र का शोधन करने के लिए बैठ जाते हैं तब क्या जीवन में कठिनाइयां पैदा नहीं होंगी? क्या यह ध्यान हमें अव्यावहारिक नहीं बना देगा? क्या जीवन की समस्याएं उग्र बनकर हमारे सामने नहीं नाचने लगेंगी? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में टकराते हैं। जब हम विचार की भूमिका में जीते हैं और विचार

१८५३ वर्षात् यहां ब्रिटिश सेना द्वारा अपनी जाति के लोगों को बचाया गया था।

का अनुभव करता है और कभी प्रतिकूलता का अनुभव करता है। हमारे सामने घटना इतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी होती है संवेदना और कल्पना। कुछ आदमी वहुत संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। वे छोटी-सी घटना को भी बड़ी बना देते हैं; राई का पर्वत कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने संवेदन पर नियन्त्रण पा लिया, जिस व्यक्ति ने अपनी कल्पनाओं पर नियन्त्रण पा लिया; उसके मन में ऐसी शक्ति का जागरण होता है कि वह पर्वत को भी राई बना डालता है। पर्वत जितनी बड़ी घटना को राई जैसी छोटी बना सकता है। घटना कभी बड़ी नहीं होती। बड़ी होती है हमारी संवेदना और बड़ी होती है हमारी अनुभूति की प्रक्रिया। इसे मैं एक घटना से स्पष्ट करूँ।

घटना है इंग्लैण्ड की। एक बार वहाँ सेना के लिए अनिवार्य भर्ती की बात सोची जा रही थी। घोपणा होने ही वाली थी कि सभी नागरिकों को अनिवार्यतः सेना में भर्ती होना होगा। एक व्यक्ति चिन्तित हो उठा। वह एक बड़े व्यक्ति के पास जाकर बोला—‘क्या आपको भय नहीं लगता? अनिवार्य भर्ती की घोपणा होने वाली है। मैं तो वहुत घबड़ा गया हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या आपको भय नहीं लगता?’ उसने कहा—‘भय किस बात का? अभी तो घोपणा ही नहीं हुई है। घोपणा हो भी गई तो कौन जानता है कि वे मुझे सेना में भर्ती कर लेंगे? यदि वे मुझे भर्ती कर भी लेंगे तो क्या पता कि वे मुझे मोर्चे पर भेज ही देंगे। मान लो कि वे मुझे मोर्चे पर भेज ही देंगे तो भी क्या पता कि मुझे गोली लगेगी ही और मैं वहीं पर मर जाऊंगा। यदि गोली लगेगी और मैं मर जाऊंगा तो फिर डरने की जरूरत ही क्या है। मरने के बाद डरेगा कौन? अतः अभी से मैं कल्पना के भय से भयभीत होना नहीं चाहता।’

सचमुच घटना का दुःख नहीं होता। घटना घटित हो जाती है। घटना हमें नहीं सताती। सताती है घटना के दुःख की कल्पना। हम काल्पनिक घटनाओं के द्वारा अपने लिए दुःखों के जाल बिछा लेते हैं और उनमें निरन्तर फंसे रहते हैं। घटना नहीं सताती, सताता है घटना का संवेदन। सताता है कल्पना का दुःख।

ध्यान करने वाला व्यक्ति घटना से अपने संवेदन को तोड़ देता है। वह घटना से जुड़ा नहीं रहता। आप यह न मानें कि ध्यान करने वाले में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह घटनाओं को रोक देता है। आज तक न ऐसा हुआ है और न कभी होगा। घटना को रोका नहीं जा सकता। घटना से उत्पन्न होने वाले संवेदन को रोका जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ध्यान करने वाले ने इतनी शक्ति आ जाए कि वह इस जगत् में नाना वर्षों से घटित होने वाली घटनाओं को समाप्त कर दे और वह ऐसा ईश्वर बन जाए जिसके इशारों पर घटनाएँ ढट्ठे और न घटें। ऐसा कभी संभव नहीं है।

सचाई यह है कि व्यवहार में उलझने, समस्याएं और कठिनाइयां उन्हीं लोगों ने पैदा की हैं जिन्होंने अहं की साधना की हैं, ध्यान की साधना नहीं की हैं। मुझे आज तक भी नहीं लगा कि ध्यान करने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहीं भी व्यवहार का लोप हुआ हो, खंडन हुआ हो या विघटन हुआ हो। आप इस भ्रान्ति को निकाल दें; यह भय निकाल दें कि यदि ध्यान में जाएंगे तो सामाजिक व्यवहार का क्या होगा? पारिवारिक व्यवहार का क्या होगा? जीवन के व्यवहार का क्या होगा?

चेतना के जागरण का पहला लाभ है कि व्यवहार सुन्दर और स्वस्थ बनता है। चेतना के जागरण का दूसरा लाभ है कि व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है और अच्छी मौत मर सकता है।

जो व्यक्ति चेतना का जागरण नहीं करता, ध्यान में नहीं जाता, वह न अच्छा जीवन जी सकता है और न अच्छी मौत मर सकता है। जो अच्छी मौत नहीं मर सकता, वह अच्छा जीवन कैसे जी पाएगा? जिस व्यक्ति में जीवन के प्रति आसक्ति होती है वह अच्छी मौत नहीं मर सकता और जो व्यक्ति मौत से डरता रहता है, वह अच्छा जीवन नहीं जी सकता। अच्छा जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि मौत का भय मिटे। अच्छी मौत मरने के लिए यह जरूरी है कि जीवन की आसक्ति टूटे। ध्यान के द्वारा, चेतना के जागरण के द्वारा ये दोनों वातें घटित होती हैं। जीवन की आसक्ति समाप्त होती है और मौत का भय भी समाप्त हो जाता है हम चेतना की उस भूमिका में चले जाते हैं जहां जीवन और मरण दोनों मात्र संयोग प्रतीत होते हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा का यह सूत्र है—‘जीवन भी एक संयोग है और मृत्यु भी एक संयोग है।’ गीता कहती है—‘जैस मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नये कपड़े धारण करता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नये शरीर को धारण करता है।’ मरने से डरने की जरूरत क्या है? पर मनुष्य मृत्यु के विपर्य में जानता है, सुनता है; पर मृत्यु का नाम मनुते ही उसका मन भय से भर जाता है। भय मिटता नहीं, बना ही रहता है। उपदेश सुनने मात्र से भय नहीं मिटता। भय मिटता है चेतना के जागरण से। आगमों ने बहुत बड़ी सचाई प्रकट की है। किन्तु जब तक यह सचाई चेतना में नहीं जाएगी तब तक आगम और गीता की सचाई पकड़ में नहीं आएगी। महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, कृष्ण ने कहा, काइस्ट ने कहा, सबने यही कहा कि भौत अवश्य भावी है; उससे भयमीत भत बनो। किन्तु यह सचाई तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक व्यक्ति अनुभव के स्तर पर पहुंचकर ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को नहीं जगा लेंगे।

एक कथावाचक महाभारत की कथा कर रहा था। कथा पूरी होने पर उसके शोत्राङ्गों से पूछा—‘कथा का सार क्या समझ पाए?’ एक भक्त बड़ा हुआ और

किन्तु चेतना पदार्थ से प्रतिबद्ध नहीं होगी। उपयोग करना और प्रतिबद्ध होना—दोनों अलग-अलग वातें हैं। रोटी खाना पदार्थ की उपयोगिता है। रोटी से बंध जाना यह उसकी प्रतिबद्धता है। जिसकी चेतना जाग जाती है वह भी रोटी खाता है। ध्यान करने वाला साधक रोटी खाता है, पानी पीता है, पैसा रखता है। ये जीवन के आवश्यक उपकरण हैं। सबके लिए जरूरी हैं। ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है कि पदार्थ छूट जाए। ध्यान से पदार्थ नहीं छूटता। जब तक जीवन है तब तक पदार्थ को नहीं छोड़ा जा सकता। आध्यात्मिक होने का यह अर्थ नहीं है कि भौतिक छूट जाए। भौतिक नहीं छूटती। पदार्थ का उपयोग नहीं छूटता, केवल पदार्थ की प्रतिबद्धता छूट जाती है। वह साधक पदार्थ से बंधा नहीं रहता, पदार्थ के चंगुल में फंसा नहीं रहता। चेतना के जागरण का यह मुख्य परिणाम है। उसमें पदार्थ की उपयोगिता शेष रहती है, प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है। समस्या का मूल प्रतिबद्धता है, उपयोगिता नहीं। ध्यान से चेतना को जागृत करने पर व्यवहार सीधा और सरल बन जाता है, व्यवहार की उलझने समाप्त हो जाती हैं, व्यवहार निश्चल हो जाता है। कोई भी उस व्यक्ति को खुली पोथी की भाँति पढ़ सकता है।

यह सचाई है कि सफल जीवन जीने के लिए; मृदु और निश्चल व्यवहार के लिए अध्यात्म चेतना का जागरण जरूरी है। आन्तरिक विकास और शक्ति के जागरण के लिए, ज्ञान के अवरोध को समाप्त करने के लिए, अन्तराय की चट्टान को तोड़ने के लिए और मूर्च्छा की दुर्भेद्य दीवार को गिराने के लिए चेतना का जागरण आवश्यक है। जीवन-व्यवहार को सुखमय, कलहमुक्त और मृदु बनाने के लिए भी अध्यात्म की चेतना को जगाना जरूरी है।

जो व्यक्ति ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हैं, वे सब ध्रान्तियों को पार कर, आने वाले तार्किक प्रश्नों में न उलझें। वे गहरे में उत्तरकर सत्य का साक्षात्कार करें, अनुभव को प्रधानता दें और सचाई का स्वयं अनुभव करें। उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। उनका सूत्र है—‘अप्पणा सच्चमेसेज्जा’—स्वयं सत्य को खोजो, केवल दूसरे की मानकर मत चलो। जब स्वयं सत्य को खोजने की वात अन्तश्चेतना तक बैठ जाएगी; जब हम ध्यान के द्वारा अनुभव के स्तर तक पहुंच जाएंगे, उस दिन हमारी आन्तरिक मूर्च्छा और व्यवहार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हम सफल और आनन्दमय जीवन जीने में सक्षम हो सकेंगे।

प्रश्न १. ध्यान की गहराई में जाने वाले कुछ साधक हँसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, उन्हें वस्त्रों का भान भी नहीं रहता, क्या यह आध्यात्मिकता है?

उत्तर— जब साधना में मूर्च्छा का साथ होता है, तब ऐसी घटनाएं घटती



प्रश्न ४. घटना के साथ कल्पना को नहीं जोड़ना—इसका तात्पर्य क्या है ? इससे क्या लाभ होता है ?

उत्तर—घटना के साथ कल्पना को न जोड़ने का अर्थ है कि सुख-दुःख का संवेदन नहीं करना, किन्तु सचाई की सचाई तो जानना ही होगा । वह व्यक्ति घटना को घटना जानेगा, उसके लिए उपाय भी करेगा, पर सुख-दुःख का अनुभव नहीं करेगा । पड़ोसी के घर चोरी हो गई । यह एक घटना है । इसके साथ मन इतना नहीं जुड़ता है तो दुःख का संवेदन नहीं होता । मन थोड़ा जुड़ता है तो दुःख होता है । जब अपने घर चोरी होती है तब उसके साथ मन तीव्र रूप से जुड़ता है । और संवेदन भी तीव्र हो जाता है । यदि कहीं और किसी के चोरी होती है तो मन जुड़ता ही नहीं और संवेदन कुछ भी नहीं होता । कभी-कभी दूर की घटना के साथ हमारी सहानुभूति होती है । सहानुभूति का अर्थ है—सापेक्षता । यही सहानुभूति का आधार है । कभी ऐसा भी होता है कि जिसके घर चोरी होती है उसे उतना दुःख नहीं होता जितना दुःख दूसरे को होता है । इसमें मन के संवेदन की सबलता और निर्बलता ही कारण बनता है । एक बहिन का पति चल बसा । बहिन का मन मजबूत है । वह इस अनिवार्य घटना को सहजरूप में स्वीकार करती है और मन के संवेदन को उभरने नहीं देती । दूसरे लोग उस बहिन के पास आते हैं । रोते-रोते वे अपनी सहानुभूति दिखाना चाहते हैं । सहानुभूति होना एक बात है और सहानुभूति का प्रदर्शन होना दूसरी बात है । घटना का घटित होना सर्वथा भिन्न बात है । भारत में भिखारियों के प्रति सहानुभूति के नाम पर भिखारियों की भी दुर्दशा और देश की भी दुर्दशा हुई । जहाँ भिखारियों के लिए व्यवस्था कर दी गई । उनके लिए काम की व्यवस्था और उनके जीवन की व्यवस्था कर दी गई, वहाँ सब कुछ ठीक हो गया । भिखारी समाप्त हो गए । सहानुभूति वास्तव में यह है कि व्यवस्था का परिष्कार हो जाए । बहुत बार व्यवस्था का छलावा होता है, वास्तविकता की अनुभूति नहीं करते । ध्यान के द्वारा एक ऐसी चेतना का जागरण होगा कि जहाँ जो जैसे करना चाहिए, वह वैसे होगा ही । साथ-साथ झूठी बातें समाप्त हो जाएंगी ।

प्रश्न ५. व्यवस्था-तन्त्र के कुछ नियम होते हैं । साधक साधना करता है, वह व्यवस्था-तन्त्र के नियमों को निभाए या अपनी साधना करे ?

उत्तर—साधक साधना करेगा । वह व्यवस्था का जितना उपयोग करेगा, उतने नियम निभाएगा । यदि वह उस भूमिका पर पहुंच जाए कि उसे व्यवस्था का उपयोग करने की जरूरत नहीं है तो वह नियमों को सर्वथा अस्वीकार कर देगा । वह अकेला जंगल में जाकर साधना करे और जो कुछ सहज उपलब्ध हो जाए वह खाये-पीये तो व्यवस्था तन्त्र के नियमों की कोई जरूरत ही नहीं होगी । वह-

आयोनाइजेशन करती हैं। इसके बिना शरीर वाहर से कुछ भी नहीं ले सकता। ये आयोन्स विद्युत्-चुम्बकीय शक्ति के वाहक होते हैं।

मनोविज्ञान की दृष्टि से लाल वर्ण स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। यह प्रतिरोधात्मक होता है।

यदि लालरंग वार-वार काम में लिया जाए तो वह ज्वर तथा शैथिल्य पैदा करता है। इसके साथ नीले रंग का योग होना चाहिए।

पीलारंग (Yellow)

यह क्रियावाही नाड़ियों को सक्रिय और मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। यह स्वतंत्र रंग नहीं है। यह लाल रंग और हरे रंग का मिश्रण है। इसमें लाल और हरे रंग के आधे-आधे गुण हैं। यह मृत सेलों को सजीव भी करता है और उनको सक्रिय भी बनाता है। इसमें पोजीटिव चुम्बकीय विद्युत् होती है। यह विद्युत् नाइट्रो-मंडल को शक्तिशाली और मस्तिष्क को सक्रिय करती है।

पीला रंग बुद्धि और दर्शन का रंग है, तर्क का नहीं। इससे मानसिक कमजोरी, उदासीनता आदि दूर होते हैं। यह प्रसन्नता और आनन्द का सूचक रंग है।

नारंजी रंग (Orange)

यह लाल और पीले रंग का मिश्रण है। यह इन दोनों रंगों से भी अधिक ताप बाला है। यह ताप, अग्नि, संकल्प और भौतिक शक्तियों का वाचक वर्ण है। यह श्वास को प्रभावित करता है, और थाइराइड ग्लॉड को सक्रिय बनाता है। इस वर्ण के प्रकम्पन फुफ्फुस को विस्तृत करते हैं और बलवान बनाते हैं। इससे स्त्रियों के स्तनों में दूध की बृद्धि होती है। यह पेन्क्रियास् को सहयोग देता है। यह पित्त के मिश्रण और उसकी गतिशीलता में सहायक होता है।

इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है :—

- ० शारीरिक शक्तियों को मानसिक गुणों के साथ जोड़ता है।
- ० यह spleen और पेन्क्रियास् इन दोनों चक्रों से शक्ति को प्रवाहित करता है।
- ० यह विचार और मानसिक कल्पनाओं का सूचक वर्ण है।
- ० यह प्रेम, प्रसन्नता, भावनाओं की सजीवता और योगक्षेत्र की भावना को बनाए रखता है।
- ० यह एयरिक-बॉडी को शक्तिशाली बनाता है।

हरा रंग (Green)

यह नाइट्रोजन गैस का वर्ण है। यह जांति का वर्ण है। यह मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यह मांसपेशियों, हृदियों तथा सेल्स को शक्तिशाली बनाता है। यह रक्त-चाप और रक्त-वाहिनी नाड़ियों के तनाव को कम करता है। वक्ते व्यक्ति को प्रारंभ में हरा रंग लाभप्रद होता है, परन्तु बाद में

